

॥ श्रीः ॥

विद्याज्ञानप्रकाश ।

व्यास मथुरादास कृत.

जितको

खेमराज श्रीकृष्णदासने

वम्बई

मेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा रैन,

निज "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम-मुद्रणपत्रालयमें

मुद्रितकर प्रकाशितकिया

सवत् १९७०, स१ १९१३ इ

इस पुस्तकका रजिस्ट्रिंगे हक "श्रीवेङ्कटेश्वर" यत्नालयाव्ययने

स्थाधीन रक्षया इ

Printed at the "Shri Venkateshwar" Steam Press, Bombay

भूमिका ।



दोहा ।

सर्व प्राणवल्लभ अवशि, अवशि मान जगदेत ।

अवशि कार्य्य यह सीखबो,वालापन ते हेत ॥

प्रियपाठक ! क्याही आनंदका विषयहै कि, यह कहावत (दुनियाँ सोने फूल फूली है) अत्यन्तही सत्य है. विचारनेका स्थल है कि दुनियाका फूल क्या पदार्थ है ? अतः विद्या। सो विद्या इस समयमें हरीच्छा व श्रीमहारानी राजराजेश्वरी की अतुल उदारतासे सारे संसारमें छत्रवत् छायरही है. अहाहा हा ॥ एक दिन वेथे कि कालवश विद्याकी जगह चारों ओर अविद्याही वर्तमान थी, बडी शुश्रूषा, बडी विनय, बडे उद्योगसे विद्या प्राप्त होती थी परंतु जबसे विद्यारूपी महारानीका प्रबल प्रचंड मार्तंड उदय हुआ तबसे अविद्या अंधकारका लेश भी न रहा. पाठक ! यह जो विद्याज्ञान प्रकाश है यथा नाम तथा गुणाः इसमें प्रत्यक्ष प्रकट है, क्योंकि श्रीमन्महाराजाधिराज रणजीतसिंह साहव वहादुर व मुन्शी शामत-अली साहव सुप्रीनटंड रतलामकी सम्मतिसे श्रीयुत व्यास मथुरा-दासजी वैकुण्ठवासी पुष्करणा ब्राह्मण जैसलमेरनिवासीने अपनी उज्ज्वल उदारबुद्धिसे परमसरल रीति सह हिदी भाषामें निर्माण किया यह महाशय परमदयालु गुणज्ञ नीतिज्ञ और धर्मवान् थे गणित भाषाके तो मानो स्वरूप थे सैकडो अनाथ बालकोको इन्होंने विद्यादान दे पोषण भरणका द्वारा किया और सहस्र साहू-कारोके लडके इनसे पढ़कर हिसाब किताबमें निपुण हुए इन महाशयका यह नियम था कि प्रातःकालसे उठ पहर दिन चढे पर्यंत विद्याध्ययन कराना पश्चात् वही खाता लिखनेके नियम

वताना और यह सब काम परमार्थ ही करतेथे कुछ काल रतलाम-
में मेंने भी इनके पास विद्याध्ययन किया है यथार्थमे इनकी
योग्यता प्रशंसाके योग्य है। प्रथम इनकी पुस्तकरतलाममें छपीथी
अब उनकी आज्ञानुसार हमने बडे परिश्रमसे शुद्ध करके और
बहुतसे हिसाब जिनका लिखना आवश्यक था नवीन बनाकर सम्मि-
लित किये जैसे अंगरेजी चलन पैसेका कोठा, अंगरेजी सोना-
रोंकी तौल, डाक्टरोंकी तौल, काठ जमीन आदि मापना, चौकोर
जमीन मापना, क्यूमेजर अर्थात् घन, कपडेकी अंगरेजी माप
सराब की माप, वीर सराबकी माप, अन्नकी अंगरेजी माप,
हिन्दुओके छः ऋतु, मुसलमानी महीना, ज्योतिषविचार, नक्षत्रोंके
नाम, योगोंके नाम, करण, होढाचक्र, नक्षत्र नाडीभेद योनि-
विचार, वर्णविचार, नक्षत्रयोनि, गणविचार, एकसौ एक शिक्षा-
की रीते, पगारका कोठा अंगरेजी गिनती, आदि, अब यह ऐसा
अनूठा ग्रंथ बनगयाहै कि देखतेही बनिआवे पहाडा ककहरा,
सवैया, ड्योढा, हूँठा, ढ्योचा, प्यौचा, एकना, गेरहा, छपका,
मिश्रजोड, जोड, गुणा, वाकी, वाशिलवाकी, भाग त्रैराशिक, सब
प्रकारके हुडी पुरजा लिखनेकी रीत, वही खाता जमा खर्च लिख-
नेकी रीत, चिठी सरानामे लिखनेकी रीत, बोटपर लिखनेकी रीत
सराफीके कायदे, सोना, चांदी, मोतीके सुगम हिसाब, पैमायश
अर्थात् जमीन, खेत इत्यादि मापनेकी रीते, आढत विषयके सब
हिसाब, व्याज लगानेकी सुगमरीते, व्यापार सम्बन्धी सब प्रकारके
हिसाब इत्यादिके सिवाय बालबोध भी इसमे सम्मिलित किया
गया है जो बालसे वृद्धतकको उपयोगी है अब विशेष प्रशंसा क्या
लिखें आप लोगोके दृष्टिगोचरही है, आशा है कि इसका अलभ्य
लाभ उठाकर कर्ताको धन्यवाद दीजियेगा ॥

खेमराज श्रीकृष्णदास श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्प्रैस-मुंबई

विद्याज्ञानप्रकाशकी अनुक्रमणिका ।

विषय	'पृष्ठांका'	विषय	पृष्ठांका.
कवित्त	कच्चीरोकड .	८२
पट्टीपहाडा .	५	पकीरोकड ..	८८
अंकरुपाका .	१९	हिमावखर्च ...	९२
संख्या ..	२०	सराफीकायदा ..	९३
विगत जोड लगावणेकी .	२०	रोजनामा उतारनेकी विगत .	९६
बादवाकी, गुणाकार, भागाकार	२२	व्याज ..	१२६
तुंडी या लेखा कचाकापका और पका-		धानका हिसाव .	१३०
का कचा चारतरह	२४	मोतीका हिसाव .	१३१
सोनेका हिसाव .	२८	पेमायस ...	१३४
चाडीका हिसाव .	२९	विगत हिसावकी .	१४१
अमलाका हिसाव ..	३०	जागाकाकुवाँका .	१४३
अफीमका बीजा .	३१	सटेका जमाखर्चनूद	१४४
रुईका हिसाव .	३१	कवित्त और दोहा . .	१४५
कपडाका हिसाव	३३	अंगरेजी चलन पैसेका कोठा	१४७
कनारीगोटा	३४	अंगरेजी मुनारोकी तौल	१४७
रुजगार आदमीका	३५	अंगरेजी व्यापारकी वस्तुकी तौल	१४७
हडीपेठपर पेठमेजर ..	३५	डाक्टरोंकी तौल ..	१४८
दसखत जमावना	३९	काट जमीन आदि मापना	१४८
जमाखर्चकी विगत हमारे घर और		चौकोर जमीन मापना .	१४८
तुमारे घर	३९	क्युमेजर अर्थात् घन	१४८
निसानी दोहडुडीकी तथा सींगेको जमा		कपटेकी अंगरेजी माप	१४८
खर्च	६८	सगाव की माप ..	१४९
चिन्नी पिछा देजावर्की आवे उमका		वीर मराव की माप .	१४९
जवाब लिखना	६३	अन्न की अंगरेजी माप	१४९
अमलवधाईका खर्च	६६	विलायती कायलाकी माप ...	१४९
चिककाशीगेका जमा खर्च	६६		
खाताखतानेकी विगत खातेममेत	६८		

विषया'	पृष्ठांका	विषया	पृष्ठांका:
गिनती का कोठा	१५०	योगोंके नाम	... १५४
अंगरेजी कालज्ञान	१५०	करण	१५५
अंगरेजी मामका निर्णय	१५०	होडा चक्र अर्थांत नक्षत्रके चार चरण-	
मुवई चलन पैसा	१५०	क चारों अक्षर	.. १५५
मरेहठी तौल	१५०	नक्षत्र नाडीभेद	. . १५६
मुंबईमें सोने रूपेकी तौल	.. १५०	वर्गविचार	... १५६
व्यापारी लोगोंकी तौल	१५१	वर्णविचार	.. १५६
मुंबईमें हींग मोतीकी तौल	... १५१	नक्षत्रयोनि	. १५७
चौरस जमीनकी माप	१५१	नक्षत्रक्रमसे गण, मनुष्यगण, राक्षस-	
चीन देशकी तौल चलन	१५१	गण, देवतागण	. १५७
चीनमें टुकड़े चादी सोनेके चलते हैं	१५१	शिक्षाकी रीति	.. १५८
जमीनकी माप	१५१	वे गुप्त अक्ष, जो व्यापारी लोग अपने	
मुवईमें अन्नकी माप	१५२	व्यापार सम्बन्धमें बोलते हैं	. १६१
कपडा या काठकी माप	१५२	बोधवचन	. १६२
मुवईमें नमक की माप	१५२	किहानी	. . १७०
अंगरेजी और हिन्दुओंका कालज्ञान	१५२	बाघ लोखड़ी और शूगालकी वार्ता	१७०
अंगरेजी वक्त	१५२	काजीकी वार्ता	. . १७१
हिन्दुओंके महीना	१५३	चिल्लीकी वार्ता	... १७२
हिन्दुओंके उःऋतु	१५३	पगार देनेकी रीति	... १७३
मुसलमानी महीना	१५३	अंग्रेजी गिनती	१७५
ज्योतिष विचार	१५४	महीनोंका नाम	. १७६
२७ नक्षत्रोंके नाम	१५४	हफ्तेके दिन	१७६

श्रीगणेशायनमः ।

ॐनामासिधं

मूलाक्षरे.

स्वर.

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ
ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

व्यंजने.

क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ,
ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ
म, य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ

वाराखडी.

क	का	कि	की	कु	कू	के	कै	को	कौ	कं	कः
ख	खा	खि	खी	खु	खू	खे	खै	खो	खौ	खं	खः
ग	गा	गि	गी	गु	गू	गे	गै	गो	गौ	गं	गः
घ	घा	घि	घी	घु	घू	घे	घै	घो	घौ	घं	घः
ङ	ङा	ङि	ङी	ङु	ङू	ङे	ङै	ङो	ङौ	ङं	ङः

च	चा	चि	ची	चु	चू	चे	चै	चो	चौ	चं	चः
छ	छा	छि	छी	छु	छू	छे	छै	छो	छौ	छं	छः
ज	जा	जि	जी	जु	जू	जे	जै	जो	जौ	जं	जः
झ	झा	झि	झी	झु	झू	झे	झै	झो	झौ	झं	झः
ञ	जा	जि	जी	जु	जू	जे	जै	जो	जौ	जं	जः
ट	टा	टि	टी	टु	टू	टे	टै	टो	टौ	टं	टः
ठ	ठा	ठि	ठी	ठु	ठू	ठे	ठै	ठो	ठौ	ठं	ठः
ड	डा	डि	डी	डु	डू	डे	डै	डो	डौ	डं	डः
ढ	ढा	ढि	ढी	ढु	ढू	ढे	ढै	ढो	ढौ	ढं	ढः
ण	णा	णि	णी	णु	णू	णे	णै	णो	णौ	णं	णः
त	ता	ति	ती	तु	तू	ते	तै	तो	तौ	तं	तः
थ	था	थि	थी	थु	थू	थे	थै	थो	थौ	थं	थः
द	दा	दि	दी	दु	दू	दे	दै	दो	दौ	दं	दः
ध	धा	धि	धी	धु	धू	धे	धै	धो	धौ	धं	धः
न	ना	नि	नी	नु	नू	ने	नै	नो	नौ	नं	नः
प	पा	पि	पी	पु	पू	पे	पै	पो	पौ	पं	पः
फ	फा	फि	फी	फु	फू	फे	फै	फो	फौ	फं	फः
ब	बा	बि	बी	बु	बू	बे	बै	बो	बौ	बं	बः
भ	भा	भि	भी	भु	भू	भे	भै	भो	भौ	भं	भः

म	मा	मि	मी	मु	मू	मे	मै	मो	मौ	मं	मः
य	या	यि	यी	यु	यू	ये	यै	यो	यौ	यं	यः
र	रा	रि	री	रु	रू	रे	रै	रो	रौ	रं	रः
ल	ला	लि	ली	लु	लू	ले	लै	लो	लौ	लं	लः
व	वा	वि	वी	वु	वू	वे	वै	वो	वौ	वं	वः
श	शा	शि	शी	शु	शू	शे	शै	शो	शौ	शं	शः
ष	पा	पि	पी	पु	पू	पे	पै	पो	पौ	पं	पः
स	सा	सि	सी	सु	सू	से	सै	सो	सौ	सं	सः
ह	हा	हि	ही	हु	हू	हे	है	हो	हौ	हं	हः
क्ष	क्षा	क्षि	क्षी	क्षु	क्षू	क्षे	क्षै	क्षो	क्षौ	क्षं	क्षः
त्र	त्रा	त्रि	त्री	त्रु	त्रू	त्रे	त्रै	त्रो	त्रौ	त्रं	त्रः
ज्ञ	ज्ञा	ज्ञि	ज्ञी	ज्ञु	ज्ञू	ज्ञे	ज्ञै	ज्ञो	ज्ञौ	ज्ञं	ज्ञः

वाराखडी समाप्त.

गणेशजी.

शारदा.







हनुमान्



भीकचरणी श्रीमच्छन्दर्षी

व्यासमधुरनाथजी



ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
A	B	C	D	E	F	G	H
आयूजे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू
I J	K	L	M	N	O	P	Q
आर	एस	टी	यू वी	डब्ल्यू	एक्स	वाय	झेड
R	S	T	U V	W	X	Y	Z
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
a	b	c	d	e	f	g	h
आयूजे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू
i j	k	l	m	n	o	p	q
आर	एस	टी	यू वी	डब्ल्यू	एक्स	वाय	झेड
r	s	t	u v	w	x	y	z
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
आयूजे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू
<i>I J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>
आर	एस	टी	यू वी	डब्ल्यू	एक्स	वाय	झेड
<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U V</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
आयूजे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू
<i>i j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>
आर	एस	टी	यू वी	डब्ल्यू	एक्स	वाय	झेड
<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u v</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>

सूणाक्षरोः

स्वर

अ आ ई [ः] उ ऋ ॠ
 ए [ः] ओ औ अं अः

व्यन्जन

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ
 ड ढ ए त थ द ध न प फ ब भ म
 य र ल व श ष स ह ण क्ष ज्ञ
 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

जाराभिडीम्भो.

क का कि की कु कू के कैं को कौ कं कः
 ख खा कि की कु कू के कैं को कौ खं खः
 ग गा गि गी गु गू गे गैं गो गौ गं गः
 घ घा घि घी घु घू घे घैं घो घौ घं घः
 ङ ङा ङि ङी ङु ङू ङे ङैं ङो ङौ ङं ङः
 च चा चि ची चु चू चे चैं चो चौ चं चः
 छ छा छि छी छु छू छे छैं छो छौ छं छः
 ज जा जि जी जु जू जे जैं जो जौ जं जः
 झ झा जि जी जु जू जे जैं जो जौ जं जः
 ञ जा जि जी जु जू जे जैं जो जौ जं जः
 ट टा टि टी तु तू ते तैं तो तौ तं तः
 ठ था ठि ठी ठु ठू ठे ठैं ठो ठौ ठं ठः
 ड दा डि डी दु दू दे दैं दो दौ दं दः
 ढ ढा ढि ढी ढु ढू ढे ढैं ढो ढौ ढं ढः

ए	इ	ऋ	ॠ	उ	ऊ	ऐ	ॐ	ए	ॐ	ं	ः
त	ता	ति	ती	तु	तू	ते	तै	तो	तौ	त	तः
थ	था	थि	थी	थु	थू	थे	थै	थो	थौ	थ	थः
द	दा	दि	दी	दु	दू	दे	दै	दो	दौ	द	दः
ध	धा	धि	धी	धु	धू	धे	धै	धो	धौ	ध	धः
न	ना	नि	नी	नु	नू	ने	नै	नो	नौ	न	नः
प	पा	पि	पी	पु	पू	पे	पै	पो	पौ	पं	पः
इ	ई	ऋ	ॠ	उ	ऊ	ऐ	ॐ	ए	ॐ	ं	ः
ज	जा	जि	जी	जु	जू	जे	जै	जो	जौ	ज	जः
झ	झा	झि	झी	झु	झू	झे	झै	झो	झौ	झ	झः
ञ	जा	जि	जी	जु	जू	जे	जै	जो	जौ	ज	जः
श	शा	शि	शी	शु	शू	शे	शै	शो	शौ	श	शः
ष	षा	षि	षी	षु	षू	षे	षै	षो	षौ	ष	षः
स	सा	सि	सी	सु	सू	से	सै	सो	सौ	सं	सः
ह	हा	हि	ही	हु	हू	हे	है	हो	हौ	हं	हः
ण	णा	णि	णी	णु	णू	णे	णै	णो	णौ	ण	णः
क्ष	क्षा	क्षि	क्षी	क्षु	क्षू	क्षे	क्षै	क्षो	क्षौ	क्ष	क्षः
ज्ञ	ज्ञा	ज्ञि	ज्ञी	ज्ञु	ज्ञू	ज्ञे	ज्ञै	ज्ञो	ज्ञौ	ज्ञं	ज्ञः

१॥ श्रीगणेशजी

१॥ श्रीशैलमाहादे

वपारवतीधन

जाकागुणसा

यइवाफलआ

शोचतेहिउत्तर

भंअषहीआही

१२३४५६७८

श्रीगणेशाय नमः ।

विद्याज्ञानप्रकाश प्रारंभ ।



दोहा ।

श्रीबल्लभसुतसूं विनति, कृपा करहु करतार । गोविदगुण
गायन करूं, चित मन हिरदे धार ॥ १ ॥ नगरजेसाणा शुभ
वसो, रावल वैरीशाल । विद्याज्ञानप्रकाशकूं, कथियो मथुरालाल
॥ २ ॥ श्रीकृष्णहि नित रटतहूं, एक मुक्तिके काज । विघ्न हरो सब
सुख करो रखो हमारी लाज ॥ ३ ॥ ज्ञान विना विद्या नही,
विद्या विन नहिं बुद्धि । बुद्धि विना ऋद्धी नही, ऋद्धि विना नहिं
बुद्धि ॥ ४ ॥ जो विद्याकू नित रटै, दिन दिन दूणी थाय । जूं वरतै
त्यूं नित वढे, करै विदेशसहाय ॥ ५ ॥ गणपति सरसुति सुमिरि
कै, कर विद्या अभ्यास । विद्याज्ञानप्रकाशकूं, कथियो मथुरा-
स ॥ ६ ॥ वीरमोह ध्वज विदितहै, सातद्वीप नवखंड । दुष्ट-
दमन सब दीनको, पूरणहार प्रचंड ॥ ७ ॥ तिनके अतिप्रिय
मारुती, होतभये जनु भान । करि सहाय सब देवकी, किय
असुरनकी हान ॥ ८ ॥ चाहतहूं कुछ चित्तमे, वर्णन अति
गुणगूढ । सुनत पढतही पुरुषकी, मिटत सकलमति मूढ ॥ ९ ॥
विद्याज्ञान प्रकाशते, मिटिहैं सबकी पीर । जाको गुण वर्णन करूं,
बुद्धी दे ध्वजवीर ॥ १० ॥ बालबुद्धिके कारणे, बहुत प्रका-
श होत । याके पढ़न रु सुननसो, वाढत ज्ञान वहोत ॥ ११ ॥
ज्ञानी ज्ञान विचार कै, याकूं हिरदे धार । याहीते सब होतहै,

वाणिज और व्यापार ॥ १२ ॥ बिना कांचकी आरसी, तामें सूझत
 नाय । ज्ञान बिना नर है पशू, मनुष्य नामके आय ॥ १३ ॥
 विद्याधनये गुप्तहै, विद्या सुखकी बेल । विद्याकूं नृप पूजते, विद्या
 कुछ नहि सेल ॥ १४ ॥ विद्यासे बड़ होतहै, आदर करत जहान ।
 जा घट विद्या है नहीं, वो नर पशू समान ॥ १५ ॥ विद्या-
 ज्ञानप्रकाशकूं, आदिहिते घोपंत ॥ याही ते सब लखपडे,
 मूल आदि औ अंत ॥ १६ ॥ पढ़ो पढावो औरकूं, याहै इसमें
 रीत । विद्याज्ञानप्रकाशको, पढ़ै सो होय निचींत ॥ १७ ॥
 विद्यामें जो निपुण है, ता समान नहि कोय । ऊंच नीच देखे
 नहीं, विद्या आदर होय ॥ १८ ॥ जहाँ रहत विद्वान् नर, ताकी
 शोभा होत । जा घरमें दीपक बरै, निश्चयकरे उदोत ॥ १९ ॥
 विद्याज्ञानप्रकाशते, होत सबनको काज । विद्याकूं सब चहतहैं,
 विद्या चाहत राज ॥ २० ॥ तासूं शिक्षा देतहूं, मत रह निर्भय
 कोय । विद्या गुणकी खान है, हिरदे दीपक होय ॥ २१ ॥
 चतुराई सब जगतमे, है विद्याको फूल । विद्याकूं पंडित कहे,
 ये विद्याको मूल ॥ २२ ॥ विद्याबिन नर अंध है, कछू न सूझत
 तांय । जा घट विद्या नित वसे, वाकू सबे दिखाय ॥ २३ ॥ समझे-
 वाकी रीत तो, कधी न आवे हार । जिस सरितामें नाव है, बैठ
 उतरजा पार ॥ २४ ॥ तन मन वशकर राखिये, सुरत निर-
 तको खेल । गुणी उडावतहै कई, डोर न दूरी मेल ॥ २५ ॥
 सुरंतराख विद्या पढो, जबहि होयगो सुःख । विद्यावान कोइ
 पुरुषहै, कधी न पावै दुःख ॥ २६ ॥ विद्या सबको सारहै, विद्याही
 गुरुदेव । विद्याके वश सर्व है, विद्या सांची सेव ॥ २७ ॥ नगर

रतनपुरपर अजंट, सुप्रीनडंट मुनशीसाहब । सलामत आली-
खान, बहादुरजीकी शत्रु खाय ताव ॥ २८ ॥ विद्याज्ञानप्रका-
शकू, आज्ञा कियो हज़र । सब दुनियाके कारणे, ग्रन्थहि
करो जहूर ॥ २९ ॥ मथुरादास विचारकर, कर हिरदे उछास ।
अमोलपकूं मेहग्से, दीनों ज्ञानप्रकाश ॥ ३० ॥ चाकर अपनो
जानके, किरपा कीनी पूर । अमोलपकी वीनती, रेहूँदास
हज़र ॥ ३१ ॥ भूल चूक सब देखके, पंडित लेहु सुधार । माफ
करो सब मोयकूं, गुणको अत न पार ॥ ३२ ॥ हेतराम हिरदे
गटे, विपुल बलीको नाम । कृपा होय हनुमानकी, सर्वसिद्धि हो
काम ॥ ३३ ॥ उगणीसे गुणतीसके, दीपमाल गुरुवार ।
विद्याज्ञानप्रकाशकूं, कीनो व्यास तयार ॥ ३४ ॥ व्यास अमो-
लप कृपासे, अपण इष्टकी मान । विद्याज्ञानप्रकाशकूं, कियो
नयार सुजान ॥ ३५ ॥

कवित्त ।

गोवर्द्धनधारीको ध्यान धर बनायो ग्रन्थ, मथुरादास व्यास
आज बुद्धि फयलाई है ॥ शिक्षाके कारण प्रकाशज्ञान कीनो
त्यार, बालबुद्धि कारण ऐसी रीति सो चलई है ॥ विद्याको दान-
आज जानसो जगत, बीच काढ़ काढ़ सार सबकी रीतिही
मिलई है ॥ पढेगा सुनेगा चित्त मनसूं याकूं याददेके, मसूहूर
होगा सुप्रिन्डंट साहबकी भलाई है ॥ १ ॥ श्रीपत सुजान ऐसे
राजा ग्णजीतसिंह, अत्री वंश साँचे तेग तलवारमं शूरे है ॥ रत-
नकुल प्रगटे आप बुद्धीके सागर हो, मुनशीजी ऐसे हाकम
एवी तोगपूरे है ॥ बसा दियो माणकचौक बहोत रोजगार जहाँ,

ऐसा काम ठाना कोई काम ना अधूरे हैं ॥ चैन करे वस्ती रतनपुरी बीच सब आज, इनकी तपस्या आगे शत्रुनको चूरे हैं ॥ २ ॥ सुप्रिन्डंट साहब मुनशीजी वडे आप अकलके सागर ऐसे यशधारी हैं ॥ खुदाकी मेहरन्याव करे अटलनीतसूं, चारखंड बीच शोभा इनकी तो भारी है ॥ जहाँ जहाँ रहे वहाँ वस्ती आबाद करी, लंदनसे लिखा हुकुम इनका तो जारी है ॥ आत्मा राम कहे मीर मुन्शीजी शामत अली, आपकी तो हाकमीमें सुखी नर नारी है ॥ ३ ॥ रतनपुरी बीच आप पधारे इखत्यारीले, वडे वडे काम किये सुकृतिके विचारी है ॥ मदरसा बनाया ऐसा जंबूद्रीप बीच नांय, सडक बनायी सब मेहेलहोत त्यारी है ॥ लखां रुपये खरचदपर लगाय दीने, ऐसी है उगम रीत नीतीसूं सुधारी है ॥ वाग वागातोंपे हमें शांतचितरहे सदा, सुखी है अमल जानु खुली गुलक्यारी है ॥ ४ ॥ हुकुम दिया हाकमने बुद्धिसूं विचार आप, व्यास मथुरादासकूं ऐसी फरमाई है ॥ करो ग्रन्थ त्यार सब लडकोंके खातर येह, व्यास घर आय ऐसी अकूही उपाई है ॥ हुजूरके हुकुमसो खरी बनी किताब ऐसी, जो किताब और जगे देखी कहूं नाहीं है ॥ विद्याज्ञानप्रकाश ग्रन्थ कियो त्यार आपीनेसो, सफलकरी विद्या ऐसी सुरतही दौडाई है ॥ ५ ॥

दोहा ।

वासी जेसलनगरको, माधोरायसुत जान ।

ब्राह्मण पुष्करणा मही, व्यास डवांणीमान ॥ १ ॥

१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१	९१
२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२	९२
३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३	९३
४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४	९४
५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५	९५
६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६	९६
७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७	९७
८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८	९८
९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९	९९
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

(१४)

एकाके पाहडे

१	१	१	२	१	२	३	१	३	४	१	४	५	१	५
२	२	२	३	२	४	३	२	५	४	२	६	५	२	७
३	३	३	४	३	५	४	३	६	५	३	७	६	३	८
४	४	४	५	४	६	५	४	७	६	४	८	७	४	९
५	५	५	६	५	७	६	५	८	७	५	९	८	५	१०
६	६	६	७	६	८	७	६	९	८	६	१०	९	६	११
७	७	७	८	७	९	८	७	१०	९	७	११	१०	७	१२
८	८	८	९	८	१०	९	८	११	१०	८	१२	११	८	१३
९	९	९	१०	९	११	१०	९	१२	११	९	१३	१२	९	१४
१०	१०	१०	११	१०	१२	११	१०	१३	१२	१०	१४	१३	१०	१५

एकाके पहाडे.

(१५)

६	१	६	७	१	७	८	१	८	९	१	९	१०	१	१०
६	२	१२	७	२	१४	८	२	१६	९	२	१८	१०	२	२०
६	३	१८	७	३	२१	८	३	२४	९	३	२७	१०	३	३०
६	४	२४	७	४	२८	८	४	३२	९	४	३६	१०	४	४०
६	५	३०	७	५	३५	८	५	४०	९	५	४५	१०	५	५०
६	६	३६	७	६	४२	८	६	४८	९	६	५४	१०	६	६०
६	७	४२	७	७	४९	८	७	५६	९	७	६३	१०	७	७०
६	८	४८	७	८	५६	८	८	६४	९	८	७२	१०	८	८०
६	९	५४	७	९	६३	८	९	७२	९	९	८१	१०	९	९०
६	१०	६०	७	१०	७०	८	१०	८०	९	१०	९०	१०	१०	१००

(१६)

द्वाराके पहाडे.

११	१	११	१२	१	१२	१३	१	१३	१४	१	१४	१५	१	१५
११	२	२२	१२	२	२४	१३	२	२६	१४	२	२८	१५	२	३०
११	३	३३	१२	३	३६	१३	३	३९	१४	३	४२	१५	३	४५
११	४	४४	१२	४	४८	१३	४	५२	१४	४	५६	१५	४	६०
११	५	५५	१२	५	६०	१३	५	६५	१४	५	७०	१५	५	७५
११	६	६६	१२	६	७२	१३	६	७८	१४	६	८४	१५	६	९०
११	७	७७	१२	७	८४	१३	७	९१	१४	७	९८	१५	७	१०५
११	८	८८	१२	८	९६	१३	८	१०४	१४	८	११०	१५	८	१२०
११	९	९९	१२	९	१०८	१३	९	११७	१४	९	१२६	१५	९	१३५
११	१०	११०	१२	१०	१२०	१३	१०	१३०	१४	१०	१४०	१५	१०	१५०

ग्याराके पहाडे

(१७)

१६ १	१६ १७ १	१७ १८ १	१८ १९ १	१९ २० १	२० १	२०
१६ २	३२ १७ २	३४ १८ २	३६ १९ २	३८ २० २	४०	४०
१६ ३	४८ १७ ३	५१ १८ ३	५४ १९ ३	५७ २० ३	६०	६०
१६ ४	६४ १७ ४	६८ १८ ४	७२ १९ ४	७६ २० ४	८०	८०
१६ ५	८० १७ ५	८५ १८ ५	९० १९ ५	९५ २० ५	१००	१००
१६ ६	९६ १७ ६	१०२ १८ ६	१०८ १९ ६	११४ २० ६	१२०	१२०
१६ ७	११२ १७ ७	११९ १८ ७	१२६ १९ ७	१३३ २० ७	१४०	१४०
१६ ८	१२८ १७ ८	१३६ १८ ८	१४४ १९ ८	१५२ २० ८	१६०	१६०
१६ ९	१४४ १७ ९	१५३ १८ ९	१६२ १९ ९	१७१ २० ९	१८०	१८०
१६ १०	१६० १७ १०	१७० १८ १०	१८० १९ १०	१९० २० १०	२००	२००

(१८)

इक्कीसोंके पहाडे

२१ १	२१	२२ १	२२	२३ १	२३	२४ १	२४	२५ १	२५
२१ २	४२	२२ २	४४	२३ २	४६	२४ २	४८	२५ २	५०
२१ ३	६३	२२ ३	६६	२३ ३	६९	२४ ३	७२	२५ ३	७५
२१ ४	८४	२२ ४	८८	२३ ४	९२	२४ ४	९६	२५ ४	१००
२१ ५	१०५	२२ ५	११०	२३ ५	११५	२४ ५	१२०	२५ ५	१२५
२१ ६	१२६	२२ ६	१३२	२३ ६	१३८	२४ ६	१४४	२५ ६	१५०
२१ ७	१४७	२२ ७	१५४	२३ ७	१६१	२४ ७	१६८	२५ ७	१७५
२१ ८	१६८	२२ ८	१७६	२३ ८	१८४	२४ ८	१९२	२५ ८	२००
२१ ९	१८९	२२ ९	१९८	२३ ९	२०७	२४ ९	२१६	२५ ९	२२५
२१ १०	२१०	२२ १०	२२०	२३ १०	२३०	२४ १०	२४०	२५ १०	२५०



इकीसोंके पहाड़े.

२६ १	२६	२७ १	२७	२८ १	२८	२९ १	२९	३० १	३०
२६ २	५२	२७ २	५४	२८ २	५६	२९ २	५८	३० २	६०
२६ ३	७८	२७ ३	८१	२८ ३	८४	२९ ३	८७	३० ३	९०
२६ ४	१०४	२७ ४	१०८	२८ ४	११२	२९ ४	११६	३० ४	१२०
२६ ५	१३०	२७ ५	१३५	२८ ५	१४०	२९ ५	१४५	३० ५	१५०
२६ ६	१५६	२७ ६	१६२	२८ ६	१६८	२९ ६	१७४	३० ६	१८०
२६ ७	१८२	२७ ७	१८९	२८ ७	१९६	२९ ७	२०३	३० ७	२१०
२६ ८	२०८	२७ ८	२१६	२८ ८	२२४	२९ ८	२३२	३० ८	२४०
२६ ९	२३४	२७ ९	२४३	२८ ९	२५२	२९ ९	२६१	३० ९	२७०
२६ १०	२६०	७२ १०	२७०	२८ १०	२८०	२९ १०	२९०	३० १०	३००

एकतीसोंके पहाड़े

३१ १	३१	३२ १	३२	३३ १	३३	३४ १	३४	३५ १	३५
३१ २	६२	३२ २	६४	३३ २	६६	३४ २	६८	३५ २	७०
३१ ३	९३	३२ ३	९६	३३ ३	९९	३४ ३	१०२	३५ ३	१०५
३१ ४	१२४	३२ ४	१२८	३३ ४	१३२	३४ ४	१३६	३५ ४	१४०
३१ ५	१५५	३२ ५	१६०	३३ ५	१६५	३४ ५	१७०	३५ ५	१७५
३१ ६	१८६	३२ ६	१९२	३३ ६	१९८	३४ ६	२०४	३५ ६	२१०
३१ ७	२१७	३२ ७	२२४	३३ ७	२३१	३४ ७	२३८	३५ ७	२४५
३१ ८	२४८	३२ ८	२५६	३३ ८	२६४	३४ ८	२७२	३५ ८	२८०
३१ ९	२७९	३२ ९	२८८	३३ ९	२९७	३४ ९	३०६	३५ ९	३१५
३१ १०	३१०	३२ १०	३२०	३३ १०	३३०	३४ १०	३४०	३५ १०	३५०

३६ १	३६	३७ १	३७	३८ १	३८	३९ १	३९	४० १	४०
३६ २	७२	३७ २	७४	३८ २	७६	३९ २	७८	४० २	८०
३६ ३	१०८	३७ ३	१११	३८ ३	११४	३९ ३	११७	४० ३	१२०
३६ ४	१४४	३७ ४	१४८	३८ ४	१५२	३९ ४	१५६	४० ४	१६०
३६ ५	१८०	३७ ५	१८५	३८ ५	१९०	३९ ५	१९५	४० ५	२००
३६ ६	२१६	३७ ६	२२२	३८ ६	२२८	३९ ६	२३४	४० ६	२६०
३६ ७	२५२	३७ ७	२५९	३८ ७	२६६	३९ ७	२७३	४० ७	२८०
३६ ८	२८८	३७ ८	२९६	३८ ८	३०४	३९ ८	३१२	४० ८	३२०
३६ ९	३२४	३७ ९	३३३	३८ ९	३४२	३९ ९	३५१	४० ९	३६०
३६ १०	३६०	३७ १०	३७०	३८ १०	३८०	३९ १०	३९०	४० १०	४००

(२२)

सवाया

१ १। १।	११ १। १३।।।	२१ १। २६।	३१ १। ३८।।।
२ १। २॥	१२ १। १५	२२ १। २७॥	३२ १। ४०
३ १। ३।।	१३ १। १६।	२३ १। २८।।।	३३ १। ४१।
४ १। ५	१४ १। १७॥	२४ १। ३०	३४ १। ४२॥
५ १। ६।	१५ १। १८।।।	२५ १। ३१।	३५ १। ४३।।।
६ १। ७॥	१६ १। २०	२६ १। ३२॥	३६ १। ४५
७ १। ८।।।	१७ १। २१।	२७ १। ३३।।।	३७ १। ४६।
८ १। १०	१८ १। २२॥	२८ १। ३५	३८ १। ४७॥
९ १। ११।	१९ १। २३।।।	२९ १। ३६।	३९ १। ४८।।।
१० १। १२॥	२० १। २५	३० १। ३७॥	४० १। ५०

४१ १। ५१।	५१ १। ६३।।	६१ १। ७६।	७१ १। ८८।।
४२ १। ५२॥	५२ १। ६५	६२ १। ७७॥	७२ १। ९०
४३ १। ५३।।	५३ १। ६६।	६३ १। ७८।।	७३ १। ९१।
४४ १। ५५	५४ १। ६७॥	६४ १। ८०	७४ १। ९२॥
४५ १। ५६।	५५ १। ६८।।	६५ १। ८१।	७५ १। ९३।।
४६ १। ५७॥	५६ १। ७०	६६ १। ८२॥	७६ १। ९५
४७ १। ५८।।	५७ १। ७१।	६७ १। ८३।।	७७ १। ९६।
४८ १। ६०	५८ १। ७२॥	६८ १। ८५	७८ १। ९७॥
४९ १। ६१।	५९ १। ७३।।	६९ १। ८६।	७९ १। ९८।।
५० १। ६२॥	६० १। ७५	७० १। ८७॥	८० १। १००

८१ १। १०१।	९१ १। ११३।।	१ १॥ १॥	११ १॥ १६॥
८२ १। १०२॥	९२ १। ११५	२ १॥ ३	१२ १॥ १८
८३ १। १०३।।	९३ १। ११६।	३ १॥ ४॥	१३ १॥ १९॥
८४ १। १०५	९४ १। ११७॥	४ १॥ ६	१४ १॥ २१
८५ १। १०६।	९५ १। ११८।।	५ १॥ ७॥	१५ १॥ २२॥
८६ १। १०७॥	९६ १। १२०	६ १॥ ९	१६ १॥ २४
८७ १। १०८।।	९७ १। १२१।	७ १॥ १०॥	१७ १॥ २५॥
८८ १। ११०	९८ १। १२२॥	८ १॥ १२	१८ १॥ २७
८९ १। १११।	९९ १। १२३।।	९ १॥ १३॥	१९ १॥ २८॥
९० १। ११२॥	१०० १। १२५	१० १॥ १५	२० १॥ ३०

ढेडा

२५

२१ १॥ ३१॥	३१ १॥ ४६॥	४१ १॥ ६१॥	५१ १॥ ७६॥
२२ १॥ ३३	३२ १॥ ४८	४२ १॥ ६३	५२ १॥ ७८
२३ १॥ ३४॥	३३ १॥ ४९॥	४३ १॥ ६४॥	५३ १॥ ७९॥
२४ १॥ ३६	३४ १॥ ५१	४४ १॥ ६६	५४ १॥ ८१
२५ १॥ ३७॥	३५ १॥ ५२॥	४५ १॥ ६७॥	५५ १॥ ८२॥
२६ १॥ ३९	३६ १॥ ५४	४६ १॥ ६९	५६ १॥ ८४
२७ १॥ ४०॥	३७ १॥ ५५॥	४७ १॥ ७०॥	५७ १॥ ८५॥
२८ १॥ ४२	३८ १॥ ५७	४८ १॥ ७२	५८ १॥ ८७
२९ १॥ ४३॥	३९ १॥ ५८॥	४९ १॥ ७३॥	५९ १॥ ८८॥
३० १॥ ४५	४० १॥ ६०	५० १॥ ७५	६० १॥ ९०

(२६)

ढेडा

६१ १॥ ९१॥	७१ १॥ १०६॥	८१ १॥ १२१॥	९१ १॥ १३६॥
६२ १॥ ९३	७२ १॥ १०८	८२ १॥ १२३	९२ १॥ १३८
६३ १॥ ९४॥	७३ १॥ १०९॥	८३ १॥ १२४॥	९३ १॥ १३९॥
६४ १॥ ९६	७४ १॥ १११	८४ १॥ १२६	९४ १॥ १४१
६५ १॥ ९७॥	७५ १॥ ११२॥	८५ १॥ १२७॥	९५ १॥ १४२॥
६६ १॥ ९९	७६ १॥ ११४	८६ १॥ १२९	९६ १॥ १४४
६७ १॥ १००॥	७७ १॥ ११५॥	८७ १॥ १३०॥	९७ १॥ १४५॥
६८ १॥ १०२	७८ १॥ ११७	८८ १॥ १३२	९८ १॥ १४७
६९ १॥ १०३॥	७९ १॥ ११८॥	८९ १॥ १३३॥	९९ १॥ १४८॥
७० १॥ १०५	८० १॥ १२०	९० १॥ १३४	१०० १॥ १५०

१ २॥ २॥	११ २॥ २७॥	२१ २॥ ५२॥	३१ २॥ ७७॥
२ २॥ ५	१२ २॥ ३०	२२ २॥ ५५	३२ २॥ ८०
३ २॥ ७॥	१३ २॥ ३२॥	२३ २॥ ५७॥	३३ २॥ ८२॥
४ २॥ १०	१४ २॥ ३५	२४ २॥ ६०	३४ २॥ ८५
५ २॥ १२॥	१५ २॥ ३७॥	२५ २॥ ६२॥	३५ २॥ ८७॥
६ २॥ १५	१६ २॥ ४०	२६ २॥ ६५	३६ २॥ ९०
७ २॥ १७॥	१७ २॥ ४२॥	२७ २॥ ६७॥	३७ २॥ ९२॥
८ २॥ २०	१८ २॥ ४५	२८ २॥ ७०	३८ २॥ ९५
९ २॥ २२॥	१९ २॥ ४७॥	२९ २॥ ७२॥	३९ २॥ ९७॥
१० २॥ २५	२० २॥ ५०	३० २॥ ७५	४० २॥ १००

४१ २॥ १०२॥	५१ २॥ १२७॥	६१ २॥ १५२॥	७१ २॥ १७७॥
४२ २॥ १०५	५२ २॥ १३०	६२ २॥ १५५	७२ २॥ १८०
४३ २॥ १०७॥	५३ २॥ १३२॥	६३ २॥ १५७॥	७३ २॥ १८२॥
४४ २॥ ११०	५४ २॥ १३५	६४ २॥ १६०	७४ २॥ १८५
४५ २॥ ११२॥	५५ २॥ १३७॥	६५ २॥ १६२॥	७५ २॥ १८७॥
४६ २॥ ११५	५६ २॥ १४०	६६ २॥ १६५	७६ २॥ १९०
४७ २॥ ११७॥	५७ २॥ १४२॥	६७ २॥ १६७॥	७७ २॥ १९२॥
४८ २॥ १२०	५८ २॥ १४५	६८ २॥ १७०	७८ २॥ १९५
४९ २॥ १२२॥	५९ २॥ १४७॥	६९ २॥ १७२॥	७९ २॥ १९७॥
५० २॥ १२५	६० २॥ १५०	७० २॥ १७५	८० २॥ २००

८१ २॥ २०२॥	९१ २॥ २२७॥	१ ३॥ ३॥	११ ३॥ ३८॥
८२ २॥ २०५	९२ २॥ २३०	२ ३॥ ७	१२ ३॥ ४२
८३ २॥ २०७॥	९३ २॥ २३२॥	३ ३॥ १०॥	१३ ३॥ ४५॥
८४ २॥ २१०	९४ २॥ २३५	४ ३॥ १४	१४ ३॥ ४९
८५ २॥ २१२॥	९५ २॥ २३७॥	५ ३॥ १७॥	१५ ३॥ ५२॥
८६ २॥ २१५	९६ २॥ २४०	६ ३॥ २१	१६ ३॥ ५६
८७ २॥ २१७॥	९७ २॥ २४२॥	७ ३॥ २४॥	१७ ३॥ ५९॥
८८ २॥ २२०	९८ २॥ २४५	८ ३॥ २८	१८ ३॥ ६३
८९ २॥ २२२॥	९९ २॥ २४७॥	९ ३॥ ३१॥	१९ ३॥ ६६॥
९० २॥ २२५	१०० २॥ २५०	१० ३॥ ३५	२० ३॥ ७०

(३०)

हृत्

२१ ३॥ ७३॥	३१ ३॥ १०८॥	४१ ३॥ १४३॥	५१ ३॥ १७८॥
२२ ३॥ ७७	३२ ३॥ ११२	४२ ३॥ १४७	५२ ३॥ १८२
२३ ३॥ ८०॥	३३ ३॥ ११५॥	४३ ३॥ १५०॥	५३ ३॥ १८५॥
२४ ३॥ ८४	३४ ३॥ ११९	४४ ३॥ १५४	५४ ३॥ १८९
२५ ३॥ ८७॥	३५ ३॥ १२२॥	४५ ३॥ १५७॥	५५ ३॥ १९२॥
२६ ३॥ ९१	३६ ३॥ १२६	४६ ३॥ १६१	५६ ३॥ १९६
२७ ३॥ ९४॥	३७ ३॥ १२९॥	४७ ३॥ १६४॥	५७ ३॥ १९९॥
२८ ३॥ ९८	३८ ३॥ १३३	४८ ३॥ १६८	५८ ३॥ २०३
२९ ३॥ १०१॥	३९ ३॥ १३६॥	४९ ३॥ १७१॥	५९ ३॥ २०६॥
३० ३॥ १०५	४० ३॥ १४०	५० ३॥ १७५	६० ३॥ २१०

६१ ३॥२१३॥	७१ ३॥२४८॥	८१ ३॥२८३॥	९१ ३॥३१८॥
६२ ३॥२५७	७२ ३॥२५२	८२ ३॥२८७	९२ ३॥३२२
६३ ३॥२२०॥	७३ ३॥२५५॥	८३ ३॥२९०॥	९३ ३॥३२५॥
६४ ३॥२२४	७४ ३॥२५९	८४ ३॥२९४	९४ ३॥३२९
६५ ३॥२२७॥	७५ ३॥२६२॥	८५ ३॥२९७॥	९५ ३॥३३२॥
६६ ३॥२३१	७६ ३॥२६६	८६ ३॥३०१	९६ ३॥३३६
६७ ३॥२३४॥	७७ ३॥२६९॥	८७ ३॥३०४॥	९७ ३॥३३९॥
६८ ३॥२३८	७८ ३॥२७३	८८ ३॥३०८	९८ ३॥३४३
६९ ३॥२४१॥	७९ ३॥२७६॥	८९ ३॥३११॥	९९ ३॥३४६॥
७० ३॥२४५	८० ३॥२८०	९० ३॥३१५	१०० ३॥३५०

१ ।।। ।।।	११ ।।। ८।	२१ ।।। १५।।।	३१ ।।। २३।
२ ।।। १॥	१२ ।।। ९	२२ ।।। १६॥	३२ ।।। २४
३ ।।। २।	१३ ।।। ९।।।	२३ ।।। १७।	३३ ।।। २४।।।
४ ।।। ३	१४ ।।। १०॥	२४ ।।। १८	३४ ।।। २५॥
५ ।।। ३।।।	१५ ।।। ११।	२५ ।।। १८।।।	३५ ।।। २६।
६ ।।। ४॥	१६ ।।। १२	२६ ।।। १९॥	३६ ।।। २७
७ ।।। ५।	१७ ।।। १२।।।	२७ ।।। २०।	३७ ।।। २७।।।
८ ।।। ६	१८ ।।। १३॥	२८ ।।। २१	३८ ।।। २८॥
९ ।।। ६।।।	१९ ।।। १४।	२९ ।।। २१।।।	३९ ।।। २९।
१०।।। ७॥	२० ।।। १५	३० ।।। २२॥	४० ।।। ३०

पीणा

(३३)

४१ ।।। ३०।।।	५१ ।।। ३८।	६१ ।।। ४५।।।	७१ ।।। ५३।
४२ ।।। ३१॥	५२ ।।। ३९	६२ ।।। ४६॥	७२ ।।। ५४
४३ ।।। ३२।	५३ ।।। ३९'।।	६३ ।।। ४७।	७३ ।।। ५४।।।
४४ ।।। ३३	५४ ।।। ४०॥	६४ ।।। ४८	७४ ।।। ५५॥
४५ ।।। ३३।।।	५५ ।।। ४१।	६५ ।।। ४८।।।	७५ ।।। ५६।
४६ ।।। ३४॥	५६ ।।। ४२	६६ ।।। ४९॥	७६ ।।। ५७
४७ ।।। ३५।	५७ ।।। ४२।।।	६७ ।।। ५०।	७७ ।।। ५७।।।
४८ ।।। ३६	५८ ।।। ४३॥	६८ ।।। ५१	७८ ।।। ५८॥
४९ ।।। ३६।।।	५९ ।।। ४४।	६९ ।।। ५१।।।	७९ ।।। ५९।
५० ।।। ३७॥	६० ।।। ४५	७० ।।। ५२॥	८० ।।। ६०

(३४)

पाणा

७चा

८१ ।।। ६०।।।	९१ ।।। ६८।	१ ४॥ ४॥	११ ४॥ ४२॥
८२ ।।। ६१॥	९२ ।।। ६९	२ ४॥ ९	१२ ४॥ ५४
८३ ।।। ६२।	९३ ।।। ६९।।।	३ ४॥ १३॥	१३ ४॥ ५८॥
८४ ।।। ६३	९४ ।।। ७०॥	४ ४॥ १८	१४ ४॥ ६३
८५ ।।। ६३।।।	९५ ।।। ७१।	५ ४॥ २२॥	१५ ४॥ ६७॥
८६ ।।। ६४॥	९६ ।।। ७२	६ ४॥ २७	१६ ४॥ ७२
८७ ।।। ६५।	९७ ।।। ७२।।।	७ ४॥ ३१॥	१७ ४॥ ७६॥
८८ ।।। ६६	९८ ।।। ७३॥	८ ४॥ ३६	१८ ४॥ ८१
८९ ।।। ६६।।।	९९ ।।। ७४।	९ ४॥ ४०॥	१९ ४॥ ८५॥
९० ।।। ६७॥	१०० ।।। ७५	१० ४॥ ४५	२० ४॥ ९०

२१ ४॥९४॥	३१ ४॥१३९॥	४१ ४॥१८४॥	५१ ४॥२२९॥
२२ ४॥१९९	३२ ४॥१४४	४२ ४॥१८९	५२ ४॥२३४
२३ ४॥१०३॥	३३ ४॥१४८॥	४३ ४॥१९३॥	५३ ४॥२३८॥
२४ ४॥१०८	३४ ४॥१५३	४४ ४॥१९८	५४ ४॥२४३
२५ ४॥११२॥	३५ ४॥१५७॥	४५ ४॥२०२॥	५५ ४॥२४७॥
२६ ४॥११७	३६ ४॥१६२	४६ ४॥२०७	५६ ४॥२५२
२७ ४॥१२१॥	३७ ४॥१६६॥	४७ ४॥२११॥	५७ ४॥२५६॥
२८ ४॥१२६	३८ ४॥१७१	४८ ४॥२१६	५८ ४॥२६१
२९ ४॥१३०॥	३९ ४॥१७५॥	४९ ४॥२२०॥	५९ ४॥२६५॥
३० ४॥१३५	४० ४॥१८०	५० ४॥२२५	६० ४॥२७०

६१ ४॥२७४॥	७१ ४॥३१९॥	८१ ४॥३६४॥	९१ ४॥४०९॥
६२ ४॥२७९	७२ ४॥३२४	८२ ४॥३६९	९२ ४॥४१४
६३ ४॥२८३॥	७३ ४॥३२८॥	८३ ४॥३७३॥	९३ ४॥४१८॥
६४ ४॥२८८	७४ ४॥३३३	८४ ४॥३७८	९४ ४॥४२३
६५ ४॥२९२॥	७५ ४॥३३७॥	८५ ४॥३८२॥	९५ ४॥४२७॥
६६ ४॥२९७	७६ ४॥३४२	८६ ४॥३८७	९६ ४॥४३२
६७ ४॥३०१॥	७७ ४॥३४६॥	८७ ४॥३९१॥	९७ ४॥४३६॥
६८ ४॥३०६	७८ ४॥३५१	८८ ४॥३९६	९८ ४॥४४१
६९ ४॥३१०॥	७९ ४॥३५५॥	८९ ४॥४००॥	९९ ४॥४४५॥
७० ४॥३१५	८० ४॥३६०	९० ४॥४०५	१०० ४॥४५०

बढीएका

(४१)

१	१	१	११	११	१२१	२१	२१	४४१	३१	३१	९६१
२	२	४	१२	१२	१४४	२२	२२	४८४	३२	३२	१०२४
३	३	९	१३	१३	१६९	२३	२३	५६९	३३	३३	१०८९
४	४	१६	१४	१४	१९६	२४	२४	५७६	३४	३४	११५६
५	५	२५	१५	१५	२२५	२५	२५	६२५	३५	३५	१२२५
६	६	३६	१६	१६	२५६	२६	२६	६७६	३६	३६	१२९६
७	७	४९	१७	१७	२८९	२७	२७	७२९	३७	३७	१३६९
८	८	६४	१८	१८	३२४	२८	२८	७८४	३८	३८	१४४४
९	९	८१	१९	१९	३६१	२९	२९	८४१	३९	३९	१५२१
१०	१०	१००	२०	२०	४००	३०	३०	९००	४०	४०	१६००

(४२)

बढीएका.

४१४१	१६८१	५१	५१	२६०१	६१	६१	३७२१	७१	७१	५०४१
४२४२	१७६४	५२	५२	२७०४	६२	६२	३८४४	७२	७२	५१८४
४३४३	१८४९	५३	५३	२८०९	६३	६३	३९६९	७३	७३	५३२९
४४४४	१९३६	५४	५४	२९१६	६४	६४	४०९६	७४	७४	५४७६
४५४५	२०२५	५५	५५	३०२५	६५	६५	४२२५	७५	७५	५६२५
४६४६	२११६	५६	५६	३१३६	६६	६६	४३५६	७६	७६	५७७६
४७४७	२२०९	५७	५७	३२४९	६७	६७	४४८९	७७	७७	५९२९
४८४८	२३०४	५८	५८	३३६४	६८	६८	४६२४	७८	७८	६०८४
४९४९	२४०१	५९	५९	३४८१	६९	६९	४७६१	७९	७९	६२४१
५०५०	२५००	६०	६०	३६००	७०	७०	४९००	८०	८०	६४००

बडीएका.

घडीग्यारा.

(४३)

८१८१६५६१	९१९१८२८१	१११११२१	१२१११३२
८२८२६७२४	९२९२८४६४	१११२१३२	१२१२१४४
८३८३६८८९	९३९३८६४९	१११३१४३	१२१३१५६
८४८४५६७०	९४९४८८३६	१११४१५४	१२१४१६८
८५८५७२२५	९५९५९०२५	१११५१६५	१२१५१८०
८६८६७३९६	९६९६९२१६	१११६१७६	१२१६१९२
८७८७७५६९	९७९७९४०९	१११७१८७	१२१७२०४
८८८८७७४४	९८९८९६०४	१११८१९८	१२१८२१६
८९८९७९२१	९९९९९८०१	१११९२०९	१२१९२२८
९०९०८१००	१००१००१००००	११२०२२०	१२२०२४०

(४४)

घडीग्यारा.

१३१११४३	१४१११५४	१५१११६५	१६१११७६
१३१२१५६	१४१२१६८	१५१२१८०	१६१२१९२
१३१३१६९	१४१३१८२	१५१३१९५	१६१३२०८
१३१४१८२	१४१४१९६	१५१४२१०	१६१४२२४
१३१५१९५	१४१५२१०	१५१५२२५	१६१५२४०
१३१६२०८	१४१६२२४	१५१६२४०	१६१६२५६
१३१७२२१	१४१७२३८	१५१७२५५	१६१७२७२
१३१८२३४	१४१८२५२	१५१८२७०	१६१८२८८
१३१९२४७	१४१९२६६	१५१९२८५	१६१९३०४
१३२०२६०	१४२०२८०	१५२०३००	१६२०३२०

संख्या.

१	एक.
१०	दश
१००	सौ.
१०००	हजार.
१००००	दशहजार.
१०००००	लाख.
१००००००	दशलाख.
१०००००००	करोड.
१००००००००	दशकरोड.
१०००००००००	अर्ब.
१००००००००००	खर्व.
१०००००००००००	दशखर्व.
१००००००००००००	पन्न.
१०००००००००००००	महापन्न.
१००००००००००००००	जलधि.
१०००००००००००००००	अत्य
१००००००००००००००००	मध्य.
१०००००००००००००००००	परार्ध.

विगतजोडलगावणेकी.

पसतर तो कच्ची पायां लेपणी फेर आना लेपणा फेर पच्ची पायां लेपणी पछे पेला अपर लेपणो पीछे जतरा अपरा होवे सो लेपे जाणा इणीतर लगाणी.

और पेलां कच्ची पायां लेपणी एक पायी आवे तो एक धरणी दो पायी आवे तो दोय धरणी तीन पाई आवे तो तीन पाई धरणी चार आवे जदी आलायदो) करणो हाथको एक आनो गुणो असी तरे चार पायांपर एक एक आनो वधायाजाणो और आनामे पण आनो एक आवे जठे एक आनो करणो दोय आवे जठे दोय आना करणा तीन आवे जठे तीन आना करणा और चार आना आवे जठे आलायदो) करणो हाथको एक पावलो लेपणो इसीतरेसे आनाकी जोड लगावणी. चार चार आनापर एक आलायदो देणो और चार चार आनापर एक एक पावलो हाथको वधाये जाणो और पक्की पायांकी जोडमाहि एक पावलेकी एक पाय धरणी दोय पावलेकी दोय पाय धरणी तीन पावलेकी तीन पाई धरणी चार पावलेकी आर करणी) हाथको एक रुप्यो लेपणो आसीतरे चार पक्की पायांपर अरा दीये जाणो हाथको रुप्यो एक एक चार चार पायांपर वधाये जाणो और रुपयाकी जोड लगावणी जदी कच्ची पायांकी लगायने हाथको आवे सो आना सामल लेपणो और आनाकी जोड लगायने हाथको आवे सो पक्की पायां सामल लेपणो प्र रुपयामे एकसे लगायने ९ तक तो आवे जं आंक जोडम धरणो और दश आवे जठे मिडी मेलणी हाथको एक लेपणा असीतर दश दशपर एक एक सुभ लगाणी हाथको पण दशल्लासे एक एक वधाय जाणो इस तरे जोड लगाणी

जोड़ लगावणेकी रीती.

२ २ ४ ६	३६४०१॥३॥	३३६४ ॥=
१ ३ ६ ४	६४६६६॥३॥	३६४६ ॥=
३ ९ ३ १	७८६४७॥=	३६४६४ ॥३
३ ६ ४ ६	२३०६४॥३॥	६९६४३ ॥३
९ १ ८ १	७३६४३९॥३॥	७९३६४३॥३
३ ९ ३ ६	९७३४६४॥३॥	१००००४ ॥३
४ ३ १ ३	७३६४०३॥३॥	६६०३०३० ॥३
७ ९ ० ३	६७४६४॥३॥	७३६४३०१ ॥३
३ ६ ४० ८	२७१३३०३॥=	१४८६२७७९॥=

बाकी काडणी जणीकी विगतके ऊपर जो अंक होवे उस माहे मूंनी चल आंक काटने बाकी जो अंक तथा आना पाई आवे सो लष देणी.

वादबाकी.

२६४६४	३३६४६॥३॥	३६४६०३॥=
वाद ३६४६	वाद १६४६॥३॥	वाद३६४०६॥३॥
बाकी २१९०९	बाकी ३२०००	बा.३१९०९७॥३॥
१३४६०१०१	१०००००००१॥	१००००००००१
वाद१३४६०१०॥	वाद १०००००००	वाद१०००००००॥
बा.१२१०६०९०॥	बाकी ९०००००००॥	बाकी१०००००००॥

गुणाकार ।

१५४५४	३५४५५	१३५४५३५४१
गुणाकार २१	३५३५	१५४५५४५
१५४५४	गुणाकार	गुणाकार
३०९०८	१७७२७५	इसतरेसूं ६७७२६७७०५
३२४५३४	१४१८२००	करणी ५४१८१४१६४०
जुमले	१७७२७५००	६७७२६७७०५००
	१०६३६५००	६७७२६७७०५००००
	१२५६८७९७५	५४१८१४१६४००००
	१२५३३३४२५	६७७२६७७०५००००००
	जुमले	१३५४५३५४१००००००
		२०९३४९५४३०२४८४५

भागाकार ।

३२४५३४	१२५६८	१२५६८७९७५
२१ भाग	१०६३५	जणाने भागदेणो.
१५४५४	बाकी १९३३७	३५४५
११४	१७७२५	जणेकारु ३५४५५
१०५	बाकी १६१२९	प्या हुवा
९५	१४१८०	
८४	बाकी १९४९७	
११३	१७७२५	
१०५	बाकी १७७२५	
८४		

विगत हुंडियाका लेषाकी.



लेषा पक्का रुप्या होवे उणाकां कच्चा करणा सो भावप्रत १०६। उ होवे तो एक आनीको बट्टो प्र. ११२। उ होवे तो दोय आनीको बट्टो प्र. ११८। उ होवे तो तीन आनीको बट्टो प्र १२५। उ होवे तो सवाया लिपणा प्रत १३१। उ होवे तो रु० १। उ को बट्टो और प्र २३७। उ होवे तो रु १। = उ को बट्टो और भाव प्र. इणसूं कमती जादा होवे तो जतरे आनेको बट्टो होवेने भाव वधा होवे तो वधा देणो भाव घटती होवे तो घटाय देणो और रुप्या एकका अंकजणी भाव घाले जणी भावलेपणा और रु. १ उ का अंक १०० उ भागणा आणी तरे सूं पक्का कच्चा करणा बट्टो वारलो.

१८२२। उ रु. १५०० उ पक्का जणांका कच्चा करणा प्र २ बट्टा. रु १ = उ नेका अंक २। उ को हुवो जणीने पनरेका गुणा देणा जणाकारु २। उ को सेकडा हुवो सो रु. १७८१ उ बाकी अंक २। उ वध्या सो उणाका रु ४१ । उ हुवा जुमले भेला करने सिरे चढादेणा.

२८१०। उ - उ रु २२२२ उ पक्का जणीका कच्चा करणा प्र २६। उ लेषे सो बट्टो प्र रु१। उ १। उ आपको हुवो सवाया करने अंक १। उ का दाम वधाय देणा

२३०२। उ - उ रु. १७५१ उ पक्का जणेका कच्चा करणा प्र १३१। उ लेषे बट्टो प्र. १ - उ अंक १। उ का हुवो सो रु. १७०० उ का पांच अनी अंक १। उ के हिसावसूं रु. २२३५। उ हुवा.

रु. ५१ का आना २५५ अंक. १२॥ हुआ जणीका रु.
६७-७ हुआ जुमलै ० २३०२॥-७ हुआ.

३८७७॥ रुपया ३४३१ । ७ पक्का जणीका कच्चा करणा
प्र. ११३ ७ जणीका रु = ७ अंक ॥ हुआ

लेपा कच्चा रुपया जणाका करणा वट्टो वारलो.

भावप्रत २५ ७ लेपे होवे तौ भीतरसूं सवाया करणा. भाव
प्रत पच्चिस सूं वधती होवे तो भीतरसू सवाया करणा जणां
माहेसूं आंकरा दाम वट्टाय देणा और पच्चिससूं घटती भाव
होवे तो आंकरा दाम वधाय देणा अंक रुपया १ ७ का रुपया
१०० ७ लेपणा जण भाव घाले उतग अंक रुपया १ ७ का भां-
गणा

७९ ७ ॥ रुपया १०० ७ कच्चा जणीका करणा प्रत १२६ ॥ ७ लेपे
सो भीतरसूं सवाया रुपया ८० ७ हुआ फेर अंक १ ॥ ७ वध्यो
जणाका अंक १२० हुआ सो प्रत १२६ ॥ ७ के भाव सूं काट्या
जणाका रुपया ॥ ३ ७ वाद करणा रु ८० ७ माहसूं

८० ७ ३ ७ रुपया १०० ७ कच्चा जणेका पक्का करणा प्रत १२४ ७
लेपे सो भीतरसूं सवाया रुपया ८० ७ तो एक हुआ फेर
अंक ॥ ३ ७ वधाय जणीका अंक ५५ सो प्रत
१२४ ७ लेपे आना रुपया ॥ ३ ७ हुआ सो रुपया ८० ७
में वधाय देणा

२८५९-७ ॥ रुपया ३५३१ ७ कच्चा जणेका पक्का करणा
प्रत १३ ॥ ७

२७११॥३॥ रुप्या ३१५१) कच्चा जणाका पक्का करणा
प्रत १२७ ।

लेपा हुंडावणका कच्चाका पक्का करणा बट्टो भीतरलो

रुप्या १) का अंक जणे भाव घाले जतरा गुणना और
रुप्या १) का अंक प्रत १००) के भाव भांगणा भाव प्रत ८०)
लेपे होवे तो सवाया माहे सृं करणा और भाव प्रत असीसू वधती
होवे तो सवाया करणा जणमे वधायदेणा और भाव प्रत ८०) सृं
कमती होवे तो सवायासृं घटाय देणा.

२८९३) रुप्या ३१५०) कच्चा जमाका पक्का करणा प्रत
८१॥) सो भीतरसूं सवाया रुप्या २८४०) एक हुआ
और रुप्या १॥) वधायो जणे का रु. ५३ ।) एक हुवा
जुमले रुप्या २८९३ ।) हुवा इसी तरेसों करे जाणा.

२४४९ =) रुप्या ३१५०) कच्चा जणाका पक्का करणा प्रत ७७॥)
लेपे जणाका रुप्या भितरसूं सवाया रुप्या २५२०) हुआ
फेर अंक २।) काटणा सो रु ७० ॥ =) वाद किना
वाकी रु २४४९ =)

१२॥) रुप्या १५॥) कच्चा जणेका पक्का करणा प्रत ८२।)
जणेका भितरसूं सवाया रुप्या १२) एक हुवा अंक २।)
का तौ एक वधाण और आना रु. ॥) का एक वधाणा जणेका
अंक ३३॥) अंक हुवा और आना आठका अंक ४१ =)
जुमले अंक ७॥ =) जणेका प्रत १००) रुप्या ॥ =) हुआ
सो सवाया वधायमें वधाय देणा जीणीका रुप्या १२॥

१६॥३=) रुप्या २१॥) कच्चा जणाका पक्का प्रत ७८॥) जणा
का रु. १७) बाकी रु. ॥) तो एक बंचो और अंक
३१॥३=) अंक वध्या जणीका सो घटाणा रुप्या ।)
१९॥=) वाद् बाकी अंक १२।) का आना रुप्या =)
घटाणा बाकी रु १६॥३=)

लेपा पक्का रुप्या जणांका कच्चा करणा जाणीकी विगत.

वट्टो भीतर लो रु. १ का अंक १००) लेपणा और जणे
भाव घाले जतरा अक रुप्या १ का काटणा और भाव प्रत
८०) लेपे घाले तो सवाया करणा और भाव प्रत ८०) सुं
बधती होवे तो सवाया माहे सुं घटाय देणा और भाव प्रत
८०) सुं कमती होवे तो सवायाम म् वधाय देणा

१२२॥३=) । रुप्या १००) पक्काजणेका कच्चा करणा प्रत ८१॥))
बाकी रुप्या १८॥) वध्या जणाका सवाया रुप्या
२३=) हुवा जणा माहे म् अंक १॥) का दाम घटा-
णा सो अक ३४॥३=) हुवा उणाका प्रत ८१॥) लेपे
रुप्या ।=)॥॥ हुवा सो रुप्या २३=) मधे वाद् कीना.
बाकी रुप्या २२॥३=।) रहा

१२९ ।=।) रुप्या १००) पक्का - जणाका कच्चा करणा प्रत
७७।) लेपे सो रुप्या १००) तो एक हुवा बाकी
रुप्या २२॥॥) रहा जणाका रुप्या २८॥३=) हुवा और
अंक २॥॥) का वधाणा जणाका अंक ७८।) रहा सो

प्रत ७७। लेपे रुप्या १। हुवा सो रुप्या २८।≡। म
वधाणा जुमले रुप्या १२९।≡। हुवा.

विगत लेपा सोनेके हिसावके लिपनेकी तरह.

सोनो तोलो १ कारु, घालने मासे एक को केवतो जणी
भाव घाले उतराई अंक हुवा रती एकरो घाले तो पण जणी
भाव तोळो होवे उतरा अंक लेपणा और मुंगरो घाले तो
पण जणी भाव तोळे घाले उतरा अंक लेपणा अंक भांगणा
ईणी भांत मासामे तो रुप्या १। का अंक १२ काटणा और
रती यामे आने एकका अंक ६ काटणा और मुंगामे आने एक
का अंक १८ काटणा इणीतरेसूं सोनेका लेपा करणा. और तो
लाका तो जण भाव घाले और जतरा तोलाको घाले उणाना
उतग गुणदेण और इणी सिवाय फेर जतरे रुप्या तोलो घाले
जतग आनाको पूण मासो लेपणो और पूण मासाका उतराई
दाम लेपणा.

३४५।≡। सोनो तोळा १५। मासा १। रती १। प्रत २२।।

३। सोनो मासा २ प्रत २१। लेपे तो अंक ४२। हुवा

प्रत रुप्या १। का अंक १२

१-।।। सोनो रती १। प्रत २२।। लेपे अंक ३३।। हुवा

जणाका प्रत -। का अंक ६। काटणा

≡। सोनो मुंग २।। प्रत २१।। लेपे अंक ५३।। हुवा

जणेका प्रत -। का अंक १८ काटणा

१।=।। सोनो मासो ।।। प्रत २२।।

रती ४॥ मुंग १) सोनो तोळे १) का रु. २१) जदी रु. १) को लेणेसो रु. १) का अंक ९६) लेवणा और रती एक भारका अंक २१) काटणा.

मुंग ॥१) सोनो तोळे अंक का रु. २२॥) जदी—) को लाणो सो १८) हुआ मुंग एकका अंक २२॥) काटणा

लेपा चांदी कारी विगत लिपते

रुप्या १ . की चांदी मासा जतरा घाले उतरा मासाका रु. १२) लेपणा और मासे एक का अंक १६) लेपणा और रु. १) की जतरा मासा घाले जतरा अंक आने एक का काटणा इसतरेसं भाजकार करणी और रु.—) को तथा दो या चार आनाकी चांदी मगावेतो आने एककी जितरे मासे रुपये १) की होय उससं आधी रती केहेणी.

२७॥ = १) चांदी तोळा २१॥) प्रत रु १) की मासा ९१) = ॥) चांदी रुप्या १) की मासा ९॥) जदी मासा २ को कांड हुवाके अंक ३२) हुवा और आने —) का अंक ९॥) काटणा.

रती ४ मुंग २) चांदी रु १) की मासा ४ ॥) जदी आना रु =) की कतरी अंक १४) हुवा रती अक भरका अंक ३॥) काटणा और चांदी का लेपा घालेने मासे १ को घाले तो मासे १) का अंक १६) लेपणा और आने एक का अंक रु १) का जतरा मासा घाले उतरा भागणा

मासो ॥) अंक ॥) चांदी रु १) का मासा ८॥) जदी आना रु —) की कतरी हुई जदी जतरा मासा घाले उणाका डेढा मुंग

करने बताय देणा फेर मुंग मासा १ के अंक २४ काटणा किसवास्तेके कहां कहां मासेमें गती छे भी होती हैं. जीससे मुंग २४ सब जगे होतेंहें तो मुंग पे हिसाब होवे तो भुल न पडे

लेपा अंमलकरी विगत लिपते.

आमल धडी १ का रु जतरा घाले उतरा अंक सेर ५१ का लेपणा और रु०-१ भरका पण उतराईज अंक लेपणा और रुप्या १ भरका घाले तोपण उतराईज अंकलेपणा और सेरमें जतरा सेरका धडा होवे उतरा अंकको रुप्या १ लेणो और आनाभरमे उतरा अंकगे रुप्या -१ लेपणो और रुप्या भरमे सेर जतरा रुप्या भरको होवे उणोना सोलाका भाग देणो सोलाके भागसुं जतरा होवे उणाका जतरा सेरकी धडी होवे उतरा उणा देने उतरा आकारो आनो रु. -१ गुण लेणो

९००९१ अंमल मण ४५॥ प्रत ४९॥ लेपे धडी ५१० की. १०१॥ अंमल सेर ५२ प्रत ५१॥ लेपे धडी १५१० की जणेका अंक १०३ प्रत रु अंक १० काटणा.

॥=॥ अंमल धडी १ का रु. ४७॥ जदी रु.= भरको काई हुवो जणेका अंक ९५ हुआ आने एकका अंक १० काटणा.

≡ अंमल धडी २॥ घाट अंमल धडी १ का रुप्या ४८॥ जदी रुप्या १॥ भरको काई हुवो सो अंक ७२॥ हुवा आने एकरा अंक २५ काटणा करण ५१ रु. ४०

भरको छे सो सोलेके भागसूं अंक २॥ हुवा जणाना १०
गुणादीना सो अंक २५ हुआ.

रु ८ भार होवे रु. ५०) की अंमल धडी १) जदी रु १) कोला
वोऽ १ रु ४०) भारको घडा १५१० का जतरा रु भार
को सेर हुवोने जतरौ सेरकी धडी होवे उतरा आकारो रु १)
का गुणना जतरे दुधडी १ होवे उतरा आंकारो रु १)
भर लेपणो अंक रु. १) का ४००) हुवा भाव प्रत ५०)
कारु १ भर काटणी.

और अफीमका बोजाका लेपा पण घडासूं होवेछे.

बोज १ मण छ ६ को धडी १ ।) की जणी भाव घाले तो
चौबीस गुणे देने बोज एकका के देणा

१२३६) प्रत ५१॥) लेपे धडी जदी बोज १ का

और अमलकी पेट्टी मण ३॥) की होवे छे पेट्टीमे रतल

१४०) ममाई मधे गणीजे छे सो पेट्टीको भाव होवे उतरा अंक

रतल १ का गुणना और रु १ का अंक १४० काटणा.

२२) पेट्टी १ का रु १५४०) जदी रतल २ का काई हुवा सो

अंक ३०८० हुवा रु. १ का अंक १४० के भाव काटणा.

लेपा रुईका लिपतें.

जतरा रुपे बोरी १ जदीऽ१ को काई हुवो जतरा रुप्या

बोरी होवे उतरा अंक सेर एकका लेपणा और जतरा मणकी

बोरी होवे गुणना अंक ७। इ गुणाकरेने उतरा अंक को

रु. -) लेपणो और आनेरु -) भरको घाले तो जीना रु बोरी.

होवे उणा आनाका रु. प्र. होवे उतरा अंक आने एक भरका लेपणा. और आने एकका काटना. जातामणकी बोरी होवे उणांनां अंक ७। री गुणा देणे उतरा अंकको आनी एक लेपणो.

और रुप्या १७ को लावणी होवे जदी जता मणकी बोरी होवे उणा अंक ७। या गणने उतरा अंक रु १ का लेपणा और सेर १ का जतरा रुपे बोरी होवे उतरां आनाका रुप्या करने उतरा अंक लेपणा और रुप्या-७ को घाले तो पण इण मुजव अंक करणा. रुप्या-७ भरका अंक इण मुजव काटना. \equiv ७ रुईकी बोरी १ का रुप्या ७० बोरी मण ८ की जदी ५१ के काई होवेके ५१ के अंक ७० ७ हुवा अने एकका अंक २० करणा.

५। रुईकी बोरी १ का रु ८० ७ वारी ८ की जदी रु०- भरको काईहुयोके आना असीका रु० ५ ७ हुवा सो आने एक भरका अंक ५ हुवा सो अने एकका अंक २० काटना जदी अंक ५ को ५। सेर हुवा.

५४। \equiv ७ वारीका रुप्या ८१ ७ वारी रुई मण ९ की जदी रुप्या १ ७ की किती हुईके रु. १ का अंक नव अढया २२। लेपणा और ५१ भरका अंक जता रु वारी रु. उतरा आना कारु. होवे उतरा लेपणा सो अंक ५- ७ को ५ १ लेपणो सेर। रुईकी बोरी १ का रु ८० जदी रु०- ७ की लावणी बोरीमण ८ की सो आने एकका अंक आठ अढया २० हुवा आने एक भरका अंक ५ काटनाके जते रु

री होवे -उतरा आनाका ३५ करणा उतरा अंक आने एक
का लेषणा.

जितने रुपये बोरी तो मणका उससे दूणा आना और आद-
गका उतई रुपया और धडीका उससे आधा आना और
नसेरका उससे चौथाई आना.

लेपा कपडाका

जतरे रुपे कापडो होवे, उतरा अंक नगाका लेपणा और
१ का अंक २० काटणा और जतरा रुपये थान होवेने
थाको लावणो सो थानका हाथ पूछ लेणा जतरा रुपे थान
होवे उतरा अंक हाथ एकका लेपणा और जतरा हाथ को थान
होवे उणना १६ को भाग देदेणा सोळेके भागसूं जतरा
अंक बैठे उतग अंकरो आनो एक लेपणो और रु. १] को
लावणो होवे जदी थानका हाथ होवे उतरा अंक रुपे १] का
लेपणा और जणभाव घाले उतरा अंकरो हाथा काटणो और
एकको लावणो होवे तो जतरा रु. थान होवे उतरा अंक
रु. -] का गणना और हाथ १ का जतरा हाथा तो थान होवे
उतरा अंक काटणा.

विगत कपडो वगैरे लेपाकी

१।।] कोडी १ का रु. ३५] जदी नग १ को करणो कोडीमें
नग २० होवेछे सो नग १ का अंक ३५ हुवा प्रत २० का
।] कपडो थान एकका रु. १०] थान हाथ ४५ को जदी
हाथ २ को लावणो जदी अंक २० हुवा आनेके अकरा
अंक २।। -] काटणा.

हा ५॥) कपडो थान १ का रु. १२॥) थान हात ७२ का जदी
रु० १) को कतरो आयोके अंक ७२ हुवा हाथ १ का
अंक १२)

हा. ॥) कपडो थान १ का रु. १२ ॥) थान ५० हाथको जदी
रु०=) को कतरो हुवोके अंक २५ हुवा. अंक ५० की
हाथ १ लेपणो.

॥) कपडाको थान १ का रु० १०) थान नग ४२ को जदी
गजमे अंक ८ जदी अंक ३ को काँई हुवा सो अंक १
का अंक १० ॥) लेपणा आने १ का अंक जतरा गजको
थान होवे उनसूं आधा काटणा सो २१ का काटणा
अंक ३१ ॥) हुवा आने १ क अंक २१)

लेपा कनारगोटो तथा कलावचु तथा पेमपराकी.

कलावचु तोलो १ का रुप्या २॥) जदी मासे १ के लावणो
जतरे रु. तोलो होवे उतरा आना होवे उतरा अंक मासा १ क
लेपणा और रत्ती १ का पण उतराई लेपणा भागणा मासेको
घाले जदी तोलो रु.-) का १२ और रत्तीको घाले जदी
मासेकी रत्ती ६ होवे तो रु०-) ७२ काटणा और मासे की रत्ती
८ होवे तो अंक ९६ को आनो लेपणो.

॥) कलावचु तथा कनारी तथा पेमप. तोलो १ का रु.
२॥-) जदी मासे १॥ को काँई हुयो अंक ५१ हुवा
-) का अंक १२.

॥) दमडी १॥ तोले का रु० २॥-) जदी रत्ती १॥) क्या
हुवा मासेमें रत्ती ६-) अकरा अंक ७२.

॥॥१ ॥ दमडी तोलो १ का रु. २= ॥ जदी रत्ती २॥ को काई होवो
मासे एककी रत्ती ८

लेपा रोजगार आदमी वगैरे नोकगकारी विगत.

जतरा रुप्याको महिनो होवे, उतरा दिन १ का अंक लेपणा
और रुप्या १ का जतरा दिना को महिनो होवे उतरा अंक काटणा.

॥॥=॥॥ मास १ का रु. ११ ॥ जदी दिन २॥ को अंक २७॥

१ ॥॥ मास १ के रु. १॥ ॥ जदी दिन ७ का अंक ३१॥ प्रत ३०

॥॥=॥ मास १ का रु. ५ ॥ जदी दिन १॥ को मास १ का दिन
३२ जदी अंक २॥ हुवा रु. १ का अंक ३२

१॥ सिधथी सवाई जेपूर शुभस्थाने भाई नागयण
दास गणेशदास जोग श्री रतलामम् लपतु गणेशदास सिव-
परमादको जैगोपाल वांचजो उपरुच हुंडी १ रुप्या १००० ॥
अपरे रुप्या एक हजारकी नेमे रुपे पांचसोहोका देवणा
पुग डठे गपा सोभागमल चांदमल पास मित्ती आसोज वदी
१ थी दिन २१ पीछे साहा जोग रुप्या हुंडी चलणका सनद
दूरसनदको जवाव देजण जोग दीजो संमत १९२९ आसोज वदी १

हुंडीकेसरे मुनीमका उपकृत
तथा नैसाणी होवे जी करणी

रुपया १०००

हुंडीके पुटेपर इतरे
करणी,

नेमे नेम रुपे अट्टाईसो का चोगणा पुरा रु. एक हजार कर दीजो.

रुपया १०००)

१॥ सिधश्री सवाई जेपुर शुभसुथाने भाई नारायणदास गणेशदास जोगश्री रतलामसुं लषतु गणेशदास शिवप्रसादको जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रुपे एक हजारकी अपरे रुपे एक हजारकी नेमे रुपे पांचसोहोका दुणा पुरा डठे राषा सो-भागमल चांदमल पास मिति आसोज वदी १ थी दीन २१ पीछे साहाजोग रु. हुंडीचलणकी लषी हती सो राषावालो धणी केवे छे के हुंडी पोईगई छे सो हुंडी पोयगई होवे तो आपणो रोजनामो पातो नकल रोकड चोकसदेषने डण पेट परमाणै सिकार दाम दीजो कदास हुंडी आगे सकारी होवै तो पेट रहछे वांचीने फेर दीजो सनत नग २ तुमारे ऊपर कीनीछे जणै मधे सनत नग १ का दाम खुजरे भरदे सो संमत १९२९ आसोज सुदी १

। पेट इषीतरे करणी.

१०००)

पेटछे

। नेमे नेम रुपया
दोसो पचासका चोगणापुर
रुपया एक हजार करदीजो.

१॥ सिधश्री सवाई जेपुर शुभसुथानेक भाई नारायणदास गणेशदास जोगश्री रतलामसुं लषतु गणेशदास शिवप्रसा-

दको जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रुप्या एक हजारकी
 अपरे रुपये एक हजारकी नेमे रुपये पांच सोहोका दुगणा पुरा
 इठे राषा सोभागमल चांदमल पास मिति आसोज वदी १
 थी दीन २१ पीछे सहाजोग रुप्या हुंडी चलणका लपाहता जणेकी
 पेठलपी मिति आसोजसुदी १ लपी जो रुप्या वाले धणी केवेछे
 के हुंडी तथा पेठ दोनों पोयगयीछे सो हुंडी तथा पेठ दोनोई पोई
 होवे तो आपणो रोजनामो पातो नकल रोकड चोकस देपने इणे
 पर पेठ परमाणे सिकार-दाम दीजो कदाम हुंडी तथा पेठ आगे
 सकारी होवे तो परपेठ रदछे वांचीने फेर दीजो सनत नग ३ तुमारे
 उपर किनीछे जणे मधे सनत नग १ का दाम मुजरे भरदेसा
 संमत १९२९ आसुज सुद ११

परपेठ छै

। परपेठ इपोभात करणे

। नेमेमे रुप्या आठई सोहोका चोगणा.
 पुरा एक रुप्या हजार करदीजो.

१॥ सिधश्री सवाईजपूर शुभसुथाने सरवोपमा लायक
 सकल सराफेका पंच समस्त जोग श्री रतलामसुं लपतु सरव
 सराफेका पंच समस्तका जोहारवांचजो उपरंच हुंडी १ रुप्या
 १०००) नारायणदास गणेश उपर लिपी ईठामुं गणेशदास
 शिवप्रसादकी राषा सोभागमल चांदमलपास आसोज वदी १

थी दीन २१ पीछे सहाजोग रुपया हुंडी चलणका जणेकी पेट लपी मिति आसोज सुदी १ परपेट लपी आसोज सुद ११ की लपी हतीसो रापावालो धणी केवे छे के हुंडी तथा पेट तथा पर पेट तीनोंई पोईगईछे सो हुंडी तथा पेट तथा पर पेट पोई गई होवे तो थे उणको रोजनामो पातो नकल रोकड वहां चोकस देपने अणे मेजर परवाणे सरकार दाम दीजो कदास हुंडी तथा पेट तथा परपेट तीनोंई माहेली आगे सकारी होवे तो मेजर रदछे वांचेने फेर दीजो सनत नग ४ चार उणारे उपर किनी छे जणे मधे सनत नग १ एकरा दाम मुजरा भर देसां संमत १९२९ काती वदी १

। साप १ मगनीरामजी वभूतसिंघजीकी.

। साप १ गणेशदास कसनाजीकी.

। साप १ धनरूपमल राजमलकी.

। साप १ लछमणदास फतेमलकी.

। साप १ शिवलाल मोतीलालकी.

१॥ लडकोका दसकत जमावणा जदी पार्टीये इणैभात लपदेणा सो उस मुजब नीचे लडको देया देप मांडे तो दसकत जलदी जमे,

१॥ श्री परमेसरजी.

१॥ श्री दाता धनको सभाव

वाला माहेष गुघंटा आई

पुठ जडठरु तुचरेछे

थाणी जफा;

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

श्री ।

॥ विगत नकल जमा परच करणेकी के कुल हुंडीकी नकल
१६ होवे छे जणे मधे नकल नग ८ हमारे घरु और नकल नग ८
तुमारे घरु केवेछे और हमारे घरु किसने केवेछे के जो रु. आदे-
सावर चलण उसना तो हमारे घरु ओर रु जणी गांममें दुकान
होवे वां रु तुमारे घरु. केवेछे सो वाजव छे सो नकल लेइणी
जठे भाव होवे तो मिति कची करणी जठे भाव नही होवे जठे
मिति पछी करणी.

विगत नकल नग ८ हमारे घरु जणीकीके हुंडी.

- १ आपा आपणी पुसीसूं देसावर उपर करा.
- २ आपा आपणी पुसीसूं देसावर वाले पासे करावां आ-
पके उपर
- ३ तीजी आपा आपणी पुसीसूं लेपी भेजी
- ४ चौथी आपा आपणी पुसीसूं मंगावी

- ५ पांचमी आपा आपणी पुसीसूं देसावर वाले पासे दूसे देसावर की करावां
- ६ छठी आपा आपणी पुसीसूं देसावर वाले पासे दूसे देसावर ना भेजवां
- ७ आपा आपणी पुसीसूं दुसरे देसावरकी मंगावां. अ
- ८ आपणी पुसीसूं दुसरे देसावरकी बटावणी भेजा त दुसरे देसावरसूं बटावणी भेजवां

१॥सिद्धश्री बम्बई बंदर शुभसुथाने भाई गणेशदास ठाकुरदास जोग श्रीरतलामसूं लपतु गणेशदास शिवप्रसाद जगोपाल बांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपरे रु. १ हजारकी नेमे रु. पांचसोहोका देवणा पुग डठे रापा भ गणेशदास किसनाजी पास मिती भादवा वदी ८ थी दि ४५ पीछे साहाजोग रु हुंडी चलणका दीजो संमत १९२८ मिती भादवा वदी ८

या हुंडी आपा आपणी पुसीसूंकराजे कोछे

१२५० भाई गणेशदास किसनाजीके लेये मिती भादवा व ९ हुंडी १.

रु. १०००) श्रीबम्बईकी तुमाना दिनी भाई गणेशदास ठाकुरदास उपर लिपी इठासूं हमारी रापा तुम पास मिती भादवा वदी ४ थी. दीन ४५ प साहाजोग रु. हुंडी चलणका प्रत २५) लेये पा ७९११०००) श्रीबम्बई पाते भाई गणेशदास ठा

दासका जमा हमारे घ । रु. मिति आसोज सुदी ९
हुंडी १ तुमारे उपर किनी. पाना ७३

२५०) श्रीहुंडावण पाते जमा पाना ८०

०।

निसानी तुमारे
घरु मांडजो

श्री ।

१॥सिधश्री रतलाम शुभसुथाने भाई गणेशदाश शिवप्रसाद
जोग श्री बम्बईसूं लपत गणेशदास ठाकुरदासको जयगोपाल
वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपरे रु० एकहजारकी
नीमे रु. पांचसोहोका दुवणा पुरा इठे रापा भाई गणेशलाल
सोभागमल पास मिति आपाड सुदी १५ थी दीन ५१
एकावन पीछे साहाजोग रु हुंडी चलण का दीजो संमत
१९२९ आपाडसुदी ५

चिट्टी बम्बईकी गणेशदास ठाकुरदासकी आई जणीमें
समाचार लिपा हुंडी १ रु १०००) तुमारे खाते
रतलामकी किनी छे प्र. ८०) लेपे सो जमा परंच कर
लीजो देणी पुगा सिकार दीजो चिट्टी लिखी मिति
आपाड सुदी ५

याहुंडी आपा आपने उपर आमारे पाते करावाजीरो
१०००) भाई मगनी गमजी वभुतसिधजीका जमा भा-
दवा वदी ११ हुंडी १ हमारे उपग लिपी श्रीबम्बईसूं गणे-
शदाम ठाकुरदासकी गपा गणेशलाल सोभागमल पास

मिती आसाढसु. ५ थी दीन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी
चलणका. पाना ७८.

८००) श्री मम्बई खाते भाई गणेशदास ठाकुरदास
के लेपे हमारे घरु मिती आसाढ सुदी १५ हुंडी १ रु.

१०००) श्रीरतलामकी हमारे पाते हमारे उपर किनी भाव
प्रत ८०) लेपे सो चिद्दी तुमारी आपाढ सुदी. ७ सूं जमा
परच किना पाना ७३.

२००) श्रीहुंडावणपाते लेपे. पाना ८०

०।

श्री ।

१॥सिधथ्री मम्बई वंदर शुभसुथाने भाई गणेशलाल सोभाग-
मलजोग श्रीरतलामसूं लिपतु मगनीगम बभूतसिधको जोहार
वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपररु एकहजार
की निमे रु. पांचसोहोका देवणा पुरा डटे रापा गणेशदास
सिवप्रसाद पास मिती भादवा वदी ० ९ थी दीन ४५ पीछे
साहाजोग रु, हुंडी चलणका दीजो संमत १९२९ मिती
भादवा वदी ९.

याहुंडी आप आपणी पुसीसूं हमारे घरु देसावरनालेणी
भेजीतकेछै

१२५० भाई मगनीगमजी बभूतसिधजीका जमा मिती
०। भादवा वदी ९

हुंडी १ रु. १०००) श्रीमम्बईकी तुमारी लिनी गणे
शलाल सोभागमल उपर लिपी डठामूं तुमारी रापा

हसारे पास भादवा वदी ९ थी दीन ४५ पीछे साहा-
जोग रु हुंडी चलणको प्रत २५) लेपे पाना ७८
१०००) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासके लेपे
हमारे वरु मिति आसोज सुद ९ हुंडी श्रीमम्बईकी
लेणी भेजी. पाना ७३.

२५०) श्रीहुंडावणपाते लेपे. पाना ८०

०।

श्री ।

१॥ सिधश्री रतलाम शुभसुथाने भाई मगनीरामजी वभु-
तसिधजी जोग श्रीमम्बई सू लपतु गणेशलाल सोभागमलको
जोहार वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपरे रु. एक
हजारकी निमे रु. पांचसोहोका देणा पुरा इठे रापा गणेशदास
शिवप्रसाद रतलामवाला पास मारफत गणेश ठाकुर दासकी
मिति सावण वदी ९ थी दीन ५१ पीछे साहाजोग रु हुंडी
चलणका दीजो.

। या हुंडी मम्बाईवाले पास आपा आपनी पुसीसूं मगाई
जो छे

। चिटी मम्बाईकी गणेशदास ठाकुरदासकी आई.
१०००) हुंडी रतलामकी हमारे पाते प्रत ८०) लेपे
परीदने काल दिन वीडिछे सकरायने जमा
करजो.

। चिटी लपी मिति सावण वदी १० सम्मत १९२९
१०००) भाई मगनीराम वभुतसिधजीका लेपे मिति भाद-

वासुदेी १५ हुंडी १ तुमारे ऊपर लिपी श्री मम्बई सं
गणेशलाल सोभागमलकी राषा हमारे पास मार-
फत भाई गणेशदास ठाकुरदासकी मिती सावण
वदी ९ थी दीन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका
पाना ७८.

८००) श्रीमम्बई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदास
के जमा हमारे घरु मिती सावण वदी ९
हुंडी १ रुपया १०००) श्रीरतलामकी तुमारी
हमारे पाते प्रत ८०) लेपे भेजे सो चिठी
तुमारी सावणवदी १० सं जमा परच किना.
पाना ७३ ॥

२००) श्रीहुंडावणपाते जमा. पाना ८०

०।

श्री ।

निसाणीरतलामपाते
गणेशदाससिवप्रसादके
नांवमांडजो:

१॥ सिधश्री सवाई जेपूर शुभसुथाने भाई गणेशदान नाराय-
णदास जोग श्री मम्बईसूं लपतु. गणेशदास ठाकुरदासको
जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपपरे रु एक
हजारकी नेमे रु. पांचसोहोका डुवणा पुरा इठे राषा नेणसूप

मुलतानचंद पास मित्ती सावण वदी १० थी दीन ५१ पीछे साहा-
जोग रु. हुंडी चलणका दीजो संमत १९२९ सावणवदी १०

। याहुंडी आपणे पाते मम्बाईवाले पासे जेपुरकी कराई.

। चिढी श्रीमम्बाईकी भाई गणेशदास ठाकुरदासकी

आई समाचार इणी मुजवछै चिढी मित्ती सावण

वदी ११ की आई.

१०००) हुंडीरु १०००) श्रीजेपुरकी तुमारे पाते कराई सो
भावप्रत १०३॥) लेषा किनीछे रापा नेणसुष मुलता-
नचंद पास मित्ती सावण वदी १० दीन ५१ पीछे सो जे-
पुरनो समाचार लपदीजो.

१०३५) श्रीमम्बाईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके लेपे
हमारे घर मित्ती सावण वदी १० हुंडी १ रु. १०००)
श्रीजेपुरकी भाई गणेशदास नारायणदास उपर
लिपी हमारे पाते श्रीमम्बाईसूं तुमारी रापा नेणसुष
मुलतानचंद पास मित्ती सावण वदी १० थी दीन
५१ पीछे साहाजोग हुंडी चलणका प्रत १०३॥
लेपे चिढी तुमारी सावण वदी ११ सू जमापरच
किना पाना ७३.

१०००) श्री जेपुरपाते भाई गणेशदास नाराय-
णदासका जमा हमारे घर मित्ती आसोज
वदी १ तुमारे उपर हमारे पाते मम्बाईसूं गणेशदास
ठाकुरदास किनी पाना ७२

३९) श्री हुंडावण पाते जमा. पाना ८०.

१॥ सिधश्री सवाई जेपुर शुभस्थाने भाई सपाराम गंभीरमल जोग श्री मुम्बईसूं लपतु गणेशलाल सोभागमलको जोहार वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अखरे रु. एक हजारकी नमा रु. पांचसोहोका देवणा पुरा इठेरापा गणेशदास ठाकुरदास पास मिति सावन वदी १० थी दीन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका दीजो संमत १९२९ सावण सुदी १०

चिठी मुम्बईका भाई गणेशदास ठाकुरदासकी मिति सावण सुदी ११ की आई जणीमे समाचार

१०००) हुंडी १ श्री जेपुरकी तुमारे पाते जेपुरना गणेशदास नारायणदासना भेजी प्रत १०३॥) लेपे सो हमारी जमाखरच करलीजो

१०३२॥) श्री मुम्बईखाते भाई गणेशदास ठाकुरदासका ०। जमा हमारे घरु मिति सावण सुदी १० हुंडी १ रु १०००) श्री जेपुरकी तुमा हमारे पाते श्रीजेपुरना गणेशदास नारायणदासना भेजी सुपरामगंभीरमल उपर लपी श्री मुम्बईसूं गणेशलाल सोभागमलकी रापा तुमारे पास मिति सावण सुदी १० थी दीन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलण प्रत १०३॥) लेपे चिठी तुम्हारी सावण सुदी ११ मूंजमापरच किना. पाना ७४.

१०००) श्रीजेपुरपाते गणेशदास नारायणदासके लेपे ०। हमारे घरु मिति आसोज सुदी १ हुंडी १) जे

पुरकी हमारे पाते मम्बईसं भेजी पाना ७२

३२॥ ७ श्रीहुंडावण पाते लेपे पाना ८०

१०

श्री ।

१॥ सिधश्री मंदसोर शुभसुथाने भाईगणेशदास पुनमचद जोग श्रीमम्बई वंदरसं लिपतु गणेशलाल सोभागमलको जोहार वांचजो उपरच हुंडी १ रु १००० ७ अपरे रु एक हजाकी नेमे रु. पांच-सोहोका देवणा पुरा इठे रापा गणेशदास सिवपरसाद रतलामवाले पास मारफत गणेशदास ठाकुरदासकी मिति सावणवदी १ दीन ५१ पीछे साहाजोग रु हुंडी चलणका दीजो संमत १९२९ सावण वदी १

चिटी मम्बईकी मिति सावण वदी २ की गणेशदास ठाकुरदासकी आई.

१००० ७ हुंडी श्री मंदसोरकी तुमारे पाते तुमाना भेजी सो इणचिटीमधे सारलीजो प्रत ७९॥= ७ लेपे हमारी जमा करजो.

१००० ७ श्रीमंदसोरपाते भाई पेतसीदास गोविंदरामके लेपे ०। हमारे घरु मिति भादवासुदी ७ हुंडी १ श्रीमंदसोरकी लेणी भेजी, गणेशदास पुनमचद उपर लिपी श्रीमम्बई सं गणेशलाल सोभागमलकी रापा हमारे पास मारफत गणेशदास ठाकुरदास मम्बई वालेकी मिति सावण वदी १ श्री दीन ५१ पीछे साहाजोग रु हुंडी चलणका पाना ७२.

७९६।) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासका जमा हमारे घर मिति सावण वदी १ हुंडी रु १०००) श्रीमंदसोर की हमारे पाते तमा भेजी प्रत ७९॥=) लेपे सो चिठी तुमारी सावण वदी २ सूं जमापरच किनो. पाना ७३.

२०३॥) श्रीहुंडावण पाते जमा पाना ८०

१॥ सिधश्री सवाई जेपुर शुभसुथाने भाई सुपरामजी गंभीरमलजी जोग श्री रतलामसूं लिपतु मगनीरामजी बभुतसिधजीको जोहार वांचजो उपरंच हुंडी १ रु १००० अपरे एकहजारकानीमे रु० पांच सोहोका देवणा पुरा डटेरापा गणेशदास शिवप्रसाद पास मिति भादवा वदी १० थी दीन २१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका दीजो संमत १९२९ सावण वदी १०

चिठी मम्बईकी गणेशदास ठाकुरदासकी मिति सावण सुदी १ की आई जणीमें समाचार इणभांत.

१०००) हुंडी जेपुरकी भेजी सो पूगीछे प्रत १०३॥) वटाईछै सो सावण सुदी १ की मितिरी हमारे नामे मांडजो.

१०००) भाई मगनीरामजी बभुतसिधजीका जमा मिति सावण वदी १० हुंडी १ रु. १०००) श्री जेपुरकी तुमारी लिनीसुवराम गंभीरमल उपर लिपी इठासूं तुमारी राषा हमारे पास मिति सावन वदी १० थी

दीन २१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका प्रत ३०७ लेपे पाना ७८.

१०३५७ श्रीमन्वई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके लेपे हमारे

०। घरु मिति सावणसुदी १ हुंडी १ रु १०००७ श्री जेपूरकी तुमाना वटाणी भंजी सो तुमां प्रत १०३॥७ लेपे वटाईसो चिट्ठी तुमारी सावण सुदी १ सूं नावे मांडा पाना ७४.

३५७ श्रीहुंडावणपाते लेपे. पाना ८१.

१०

१ और हुंडी देसावर की वटावणी आवे जणेनां रात दनसूं वटावणी रातदन जणे देसावरकी हुंडी होवे और उणे देसावरका दन उठे पडता होवे जतरा लपीमितीसूं रापदेणे अने उपरा दन जादा हुंडीमे होवे तौ लपी मिति माहे हुंडी देणी जणेने भरदेणा तथा दीन हुंडीमे लपी मितिमूं कमती होवे तो हुंडीवेचणी जणेसूं भरलेणा कदास दनाको व्याज भाव माहे करलीनो होवे तो जणदन सब दो हुंडीको करनो जणी मितीका नावे मांडणा कदास भाव माहे नई भरलेवैतो लपी मितिं दन काटणै नावे मांडणी सो व्याजपातेमें आई जावे

अणेभांत नकल नग ८ तुमारे घरु कीछे

१ हुंडी देसावर वाले आपकी पुसीसूं करें.

२ दूजे देसावरमूं आपणे उपर करावै.

- ३ देसावरवालो आपनी लेहेणी भेजै.
 ४ देसावर वालो दूजे देसावर भेजावै.
 ५ देसावरकी वटावणी भेजै.
 ६ आपके देसावरकी मँगावै आपके घरु.
 ७ देसावरकी आपरे घरु करावै.
 ८ आपणी नैसाणीकी दुजे देसावर उपरे करै.
 आणि भांत विगतछै.

हुंडी आपणे उपर देसावरवालो तमारे घरु किनी जणीरी.

१॥ सिधश्री रतलाम शुभसुथाने भाई गणेशदास शिवप्रसाद जोग श्री मम्बई वंदर लपतु गणेशदास ठाकुरदासका जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) की अपरे रु. एक हजारकी निमे रु. पांचसोहोका दुवणा पुरा अठे राषा भाई गणेशलाल सोभागमलपास मिती आसाडसुदी ११ थी दिन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका संमत १९२९ आसाड सुदी ११

१०००) श्री मम्बई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदास को लेपे तुमारे घरु मिती भादवा सुदी २ हुंडी १ हमारे उपर लिपी तुमारी राषा गणेशलाल सोभागमल पास मिती आसाडसुदी ११ थी दिन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका. पाना ७१.

१०००) मगनीरामजी वभुतसिंघजीना जमा मिती भादवासुदी २ पाना ७८. लोकादी

निसाणी तुमारे वरु
मोडजो.

श्री ।

॥ सिधश्री मम्बई बन्दर शुभसुथाने भाई गणेशदास
ठाकुरदास जोगश्री रतलामसूं लिपतु गणेशदास सिवप्रसाद
को जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रु १०००) अपरे
एकहजारकी निमे रु. पांचसोहोका दूवणा पुरा इठे रापा
भाई मगनीरामजी वभुतसिंधजी पास मिति भादवा वदी
१३ थी दीन ४५ पीछे साहाजोग रु हुंडी चलणका सनद
दरसनदकी जाव देवे जणी धणी जोग दीजो सम्मत १९२९
भादवा वदी १३.

१ चिद्धी मम्बईमां गणेशदास ठाकुरदासना मिति-
भादवा वदी १४ संमत १९२९ के लपीजणीमे समा-
चार १०००) हुंडी श्रीमम्बईकी तुमा तुमारे पाते कराई सो प्रत
२४॥) लेपे किनी रापा मगनीरामजी वभुतसिंध पासे
भादवा वदी १३ दीन ४५ पीछे इसी लपी.

१२४६।) भाई मगनीरामजी वभुतसिंधजीके लेपे मिति भादवा
वदी १३ हुंडी १ रु १०००) की मम्बईकी तुमाना
दिनी गणेशदास ठाकुरदासउपर लपी इटासूं. पाना
७८ हमारी रापा तुमारे पास मिति भादवा वदी १३
थी दीन ४५ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलनका सनद

दरसनदका जबाब देजणे धनी जोग प्रत २४॥=J
१२४६J श्रीमम्बईपाते भाईगणेशदास ठाकुरदासके
०।

जमा तुमारे घरु मिती भादवा वदी १३ हुंडी
रु. १०००J श्रीमम्बईकी तुमारे पाते तुमारे उपर
किनी प्रत २४॥J लेपे पा. ७२

१J श्री हुंडावणपाते जमा. पाना ८०

याहुंडी देसावरवालो आपना उणीकेसाते लेणी भेजीतीकी
१॥ सिधश्री रतलाम शुभसुथाने भाई मगनीरामजी व-
भुतसिंधजी जोग श्रीमम्बईसूं गणेशलाल सोभागमलका
जोहार वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००J अपरे रु. एक
हजारकी निमेरु. पांचसोहोका देवणा पुग इठे रापा. भाई गणे-
शदास ठाकुरदास पास मिती आसाड सुदी ८ थी दीन ६१ पीछे
साहाजोग रु. हुंडीचलणका सनद दरसनदको जबाब दे
जणे धणी जोग सिकारजो संमत १९२१ आसाड सुदी ८
१०००J भाई मगनीरामजी वभुतसिंधजीके लेपे मिती भादवा
वदी १४ हुंडी २ तुमारे उपर लपी श्रीमम्बईसूं गणेश-
लाल सोभागमलकी गपा गणेशदास ठाकुरदासपास
मिती आसाड सुदी ८ थी दीन ६१ पीछे साहाजोग
रु. १ हुंडी चलणका सनद दरसनदको जबाब देवे
जडी जोग. पान ७८.

१०००J श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदास-

का जमा तुमारे घरु मिती भादवा वदी १४ हुंडी श्रीरतलामकी लेणी आई पाना ७१.

हुंडी दिसावरवालाके पाते दूजे दिसावर सं भेजावे जनकी.

१॥ सिधश्री रतलाम शुभस्थाने भाई धनरूपमल राजमल जोगश्री अजमेरसूं लिपतृ धनरूपमल वागमलको जोहार वांचजो उपरंच हुंडी १ रु १०००) आपरे रु. एकहजारकी निमे रु पांचसोहोका दूणा पूरा अठे राप्या गणेशदास ठाकुरदास मन्वईवाला पास मारफत भाई हंसराज गंभीरचंदकी मिती सावण सुदी १५ थी दिन २१ पीछे साहाजोग रु हुंडी चलणका दीजो

१०००) धनरूपमल राजमलके लेपे मिती भादवा सुदी ६ हुंडी १ तुमारे ऊपर लपी श्रीअजमेरसूं धनरूपमल वागमलकी रापा गणेशदास ठाकुरदास श्रीवन्वईवाले पास मारफत हंसराज गंभीरचंदकी मिती श्रावण सुदी १५ थी दिन २१ पीछे साहाजोग रुपैया हुंडी चलणका, पाना ७९.

१०००) श्रीवन्वई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासका जमा तुमारे घरु मिती भादवा सुदी ६ हुंडी १ रतलामकी तुहारे पाते श्री अजमेरसूं हंसराज गंभीरचन्दने भेजी पाना ७२

श्री

। हुंडीबेची सवाईराम हिंमतराम
गणेशदास ठाकुरदास जोग मार्फत
इंसराज मेघराजकी रतलाम मांह
बेची गणेशदास शिवप्रसाद सिव
। लाल मोतीलाल जोग,

श्री

॥ सिधश्री मम्बई बंदर शुभसुस्थाने भाई सुरतराम राय-
भाणजोग श्रीसवाई जैपुरसूं लिषतू लिछमणदास सिवप्रसा-
दको जैगोपाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपरे
रु. एक हजारकी निमे रुपैया पांचसोहोका दूणा पूरा आठे राख्या
सवाईराम हिंमतराम पास मार्फत पदमसी तेजसीकी मिती
भादवा वदी १ थी दिन ५१ पीछे साहाजोग रु. हुंडी
चलणका. दीजो.

या हुंडी मम्बईवालाके पाते इंदोरसूं आई सो वटाई जिणकी
नकलछै.

१२६५॥=) भाई शिवलाल मोतीलालके लेपे मिती भादवा
०। सुदी ७ हुंडी १ रु. १०००) श्रीमम्बईकी तुमानें
दीनी सुरतरामगयभान उपरा लपी श्रीसवाई
जैपुरसूं लछमणदास सेवादासकी पाना राषा
सवाईराम हिंमतराम पास मार्फत पदमसी तेजसी
की भादवा वदी १ थी दिन ५१ पीछे साहाजोग रु.

हुंडी चलणका भाव प्रत २६॥-७ मिती याको व्याज भावमें लिनो.

१२६५७ श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासका
०। जमा तुमारे घरु मिती भादवा सुदी ७
हुंडी १ रु. १००० ७ श्रीमम्बाईकी तुमारे
पाते श्रीइंदोरसूं. हंसराज मेघराज भेजी
सो भावप्रत २६॥ ७ गई मिती सुधी वे-
टाई सो तुमारी जमा किनी. पाना ७६

॥=७ श्रीहुंडावणपाते जमा. पाना. ८१.

०।

१॥ सिधथ्री मन्दसोर शुभसुथाने भाई गणेशदास पुनम-
चन्द जोग श्रीइंदोरसूं लपतु गंभीरचन्द लपमीचन्दको जु-
हार वंचजो उपरंच हुंडी १ रु १००० ७ अपरे रु. एकहजार
की नेमे रु पांच सोहोका दूणा पूरा इठे रापा हंसराजमे-
घराज पास भादवा वदी १ थी दिन ५ पीछे साहाजोग रु.
हुंडी चलणका या हुंडी देसावरवाले वटाणी भेजी जिणाकी
नकल छे.

१९६। ७ श्री इंदोरपाते भाई हंसराज मेघराजका जमा तु-
मारे घरु मिती भादवा सुदी ७ हुंडी १ रु. १००० ७
श्रीमन्दसोरकी तुमां वटाणी भेजी गणेशदास पुनम-
चन्द ऊपर लिपी श्रीइंदोरसूं फत्तेचन्द सेवगकी राण्या
तुमारे पास भादवा वदी १ थी दिन ५ पीछे प्रत १९॥=७
लेपै गई मितीकी वटाई सो जमा किना पाना ७७

१०००) श्रीमन्दसोर पाते भाई पेतसीदास गोविन्दरा-
 १० मकै लेपे हमारे घरू मिति भादवा सुदी १०
 हुंडी १ श्री मन्दसोरकी लेणी भेजी. पाना. ७५
 ३॥) बादश्री हुंडावण पाते जमा. पाना ८१.

। ९९६।) वाकी परा.

या हुंडी देशावर वालेके पाते मोलले के भेजीतको.

१॥ सिधश्री मम्बई शुभसुथाने भाई गणेशलाल सोभाग-
 मल जोग श्रीरतलामसूं लपतु मगनीराम वभूतसिंधकी
 जुहार वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) अपरे रु. एकहजा-
 रकी नेमे रु. पांचसोहोका दूणा पूरा डठे राण्या गणेशदास ठाकुर-
 दास मम्बई वाला पास मारफत गणेशदास शिवप्रसादकी
 मिति भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछे साहाजोग रु. हुंडी
 चलणका सनद दरसनदको जवाब देजिणधणी जोगदीजो.

। चिट्ठी श्री मम्बईने गणेशदास ठाकुरदासने दिनी
 मिति भादव सुदी ८ जणमें समाचार इणभात लिप्या
 १०००) हुंडी १ श्री मम्बईकी तुमा तुमार घरू मंगाई सो
 इणी चिट्ठी मधे सार लीजो प्रत २५॥=) लेपे हमारी
 जमा करजो

१२५६।) श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके लेपे
 तुमारे घरू मिति भादवा सुदी ७ हुंडी १ रु. १०००)
 श्रीमम्बईकी तुमारे पाते तुमाने भेजी गणेशलाल
 सोभागमल ऊपर लपी उठासूं मगनीराम वभुत-
 सिंधकी रापा तुमारे पास मारफत हमारी मिति

भादवा सुदी ७ थी दीन ४५ पिछे साहाजोग रु हुंडी चल-
णका सनंद दरसनंदको जाव दे जिण धणी जोगसिकारजो
प्रत २५॥=) पाना ७२

१२५५) भाई मगनीराम वभूतसिवका जमा मिति भादवा
० ।

सुदी ७ हुंडी १ रु १०००) श्री मम्बईकी तुमारी लीनी
प्रत २५॥) लेये पाना ७८

१।) श्री हुंडावण पाते जमा. पाना ८१

०।
या हुंडी देसावर वालो आपणी निसाणीकी
दृजे देसावर उपग करी

निसाणी श्रीरतलामघाते
गणेशदासशिवप्रसादके
घाते मांडजो

श्री

१॥सिधश्री मम्बई शुभस्थाने भाई हंसराज मेवराज जोगश्री
इंदोरमूं लिपतु गणेशदास ठाकुरदामको जैगोपाल वाचजो उपरंच
हुंडी १ रु. १०००) अखरे एकहजाकी नेमे रु पांचसो-
होका दूणा पूग डठे रापा भाई गणेशलाल सोभागमल पास
मिति भादवा सुदी ७ थी दीन ४५ पीछे साहायोग रु हुंडी चल-
णका दीजो संमत १९२९ भादवा सुदी ७

। चिट्ठी १ श्री मम्बईकी गणेशदास ठाकुरदासकी

मिती भादवा सुदी ७ की आई जिणमें समाचार
इण भात.

१०००) हुंडी १ श्री इंदोरकी तुमारी निसाणीकी हंसराज मेघराज
ऊपर कीनीछे सो सिकरावणेका समाचार इंदोरनेँ लिप
दीजो राष्या भाई गणेशलाल सोभागमलपास मिती
भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पाछ.

१२६५) श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदासके लेषे
तुंमारे घरु मिति भादवासुदी ७ हुंडी १ रु. १०००)
श्री इंदोरकी तुमा हमारी निसाणीकी कीनी हंसराज
मेघराज ऊपर लिपी तुमारी राष्या गणेशलाल सो-
भागमल पास मिती भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछे
साहाजोग रु. हुंडी चलणका प्रत २६॥) पाना ७२
१०००) श्री इंदोरपाते भाई हंसराज मेघराजका
०।

जमा हमारे घरु मिति काती -वदी ७ हुंडी १
तुमारे ऊपर हमारे पाते श्रीमम्बईसू गणेश-
दास ठाकुरदास कीनी सो जमापरच कीनो.
पाना ७६

२६५) श्री हुंडावणपाते जमा. पाना ८१.

०।

या हुंडी एक जिसमें दो निसाणी होती हैं सो आधी हमारे घरु
और आधी तुमारे घरु मंडतीहै सो उसका जमापरच
इसतरहसे वहीमें मांडना.

श्री

हुंडी रु ६००] तुमारे घरु नामे मांडजो.

हुंडी रु ६००] हमारे घरु नामे मांडजो.

१॥ सिधश्री मम्बई बंदर शुभसुथाने भाई गणेशदास ठाकुरदास जोग श्रीरतलामसूं लिषतु गणेशदास शिवप्रसादको जैगोपाल बांचजो उपरंच हुंडी १ रु १०००] अपरे रु एक हजारकी निमे रु. पांचसोहोका दूणा पुरा इठे राण्या भाई गणेशदास किसनाजी पास मिती भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछे साहजोग रु हुंडी चलणका सनंद दरसनंदको जवाव देजिण जोग संमत १९२९ भादवा सुदी ७ रु. १२५१] भाई गणेशदास किसनाजीके लेपे मिती भादवा सुदी ७ हुंडी १ रु. १०००] श्रीमम्बई की तुमाने दीनी गणेशदास ठाकुरदास ऊपर लिपी इठासूं हमारी राण्या तुमारे पास भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछे साहाजोग रु हुंडी चलणका सनद दरसनदको जवाव देजिण जोग प्रत २५ =] पाना ७९. ५००] श्री मम्बई पातं भाई गणेशदास ठाकुरदासका जमा हमारे घरु काती वदी ७ हुंडी १ रु १०००] तुमारे ऊपर कीनी जिणमधे रु. ५००] हमारे घरु मांडजो पाना ७४

६२५) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासका जमा तुमारे
घरू भादवा सुदी ७ हुंडी १ रु. १०००) की तुमारे
ऊपर किनी जिण मधे रु. ५००) तुमारे घरू मांडी प्रत
२५) लपे. पाना ७७.

०। १२६) श्री हुंडावणपाते जमा. पाना ८१.

१२५१)

श्री

। सेरे निसाणी रु ५००) की
तुमारे घरू मांडजो
। सेरे निसाणी रु. ५००)
हमारे घरू नावे मांडजो

१॥ सिधथ्री रतलाम शुभसुथाने भाई गणेशदास शिवप्र-
साद जोगश्री मम्बईसुं लिपतू गणेशदास ठाकुरदासको जेगो-
पाल वांचजो उपरंच हुंडी १ रु. १०००) आपरे रु. एक
हजारकी नेमे रु. पांचसोहोका दूणा पूरा डठे रापा गणेशलाल
सोभागमल पास मिती सावण सुदी १ थी दिन ५१ पीछे साहाजोग
रु. हुंडी चलणका दीजो संमत १९२९ मिती सावण सुदी १

हुंडीके पुठे हुंडी सहीकरा

५००) सहीकरी ठाकुरसीतेजपाल जोग

। इण हुंडीका रु० ५००) ठाकुरसी तेजपाल
भरपाया।

५००) सहीकगी निमाजी पेमराजजोग।

। इण हुंडीका रु. ५००) निमाजी पेमराज
भरपाया

। हुण्डी १ रु० १०००) श्रीरतलामकी श्रीमम्बई सूं गणेश-
दास ठाकुरदासकी रापा गणेशलाल सोभागमल पास
सावण सुदी १ थी दिन ५१ पीछे सहाजोग हुंडी चलणका।

५००) हुंडी उपर सेरे नेसाणी गणेशदास ठाकुरदास
मम्बईवालेके घर

५००) श्रीमम्बईखाते गणेशदास ठाकुरदासके

।० लेपे तुमारे घर मिति आसोज वदी ६

हुंडी १ रु. १०००) जणमधेरु० ५००)

निसाणी तुमारे घर मांडी. पा. ७६

५००) हुंडी उपर सेरे निसानी हमारे घर.

४००) श्रीमम्बईपाते गणेशदास ठाकुर-

०। दासके लेपे हमारे घर सावण

सुदी १ हुंडी १ रु १०००) मधे

रु. ५००) की हमारे पाते किनी

प्रत ८० लेपे चिट्ठी

तुमारी सावण सुदी १

सूं पाना ७४.

१००] हुंडावणपातेलेपेपाना ८

०।

१०००]

५००] ठाकुरसी तेजपालका जमा आसोजवदी

०। हुंडी १ रु. १०००]

हमारे ऊपर आई जिण मधे रु. ५००] तुमारे जो
सिकारी पाना ८०

५००] नेमाजी पेमराजका जमा मिति आसोज वदी

हुंडी १ रु १०००] जिण मधे रु. ५००] तुमारे जो

शिकारी पाना ८०

१०००]

। यो जमापरच सीगेवालो छे । चिढी देसावरकी आवेस
श्री।। सिधश्री रतलामशुभसुथाने भाई गणेशदास शिवप्रसा
जोग श्री तालसूं रामजी कालूरामको जैगोपाल वांच जो अठव
समाचार भला छे थारा सदा भला चाहिये उपरंच कागद
तथा ४ आमैं दीनाछा सो पूगा लिखजो और समाचार
वांचजो सम्मत १९२९ सावण सुदी १। और चोकारा थेला नग ५ बंधाई दीजौ और थेलानग
भाव सारू बेंच दीजो.१०००] हुंडी २ तुमारी निसानी की इंदोरकी हसराज मे
घराज उपर किनी छे राप्या विठ्ठलदास सुभकरणदास

पास सावण सुदी १ थी दिन १५ पीछे सो सिकारदेवणेकी लीपदीजो.

चिह्नी पीछी दिसावरकी आवे जिणको जबाब इणभांत लिखणा. सिधश्रीतालशुभसुथाने भाई रामजीकालूराम जोग श्रीरतला मसूं लिखतु गणेश शिवप्रसादको जैगोपाल वांचजो अठाका समाचार भला छै तुमारा सदा भला चाहिजे उपरंच कागद २ तथा ४ आगै दीनाछ सो पूगा लिपजो.

१ और कागद तुमारो सावण सुदी १ को लिप्यो सावण सुदी ३ नैं आयो समाचार लिप्या सो वांच्या कागद हमारो पूगो लिप्यो सो ठीक छै जठा पीछै फेर दीनो छै सो पूगो लिपजो.

१ और अफीमका थेला नग ११ भेजा सो पूगाछे.

१ थेला नग ५ तुमारा लिप्यां मुजब बंधाय दीनाछै जिणकी गोटी नग १५५० हुई छै चीक मण २८॥ १ अठाका तोलरो उतर्यो छै.

१ और थेला नग ६ प्रत ४४ १ लेपे काचासू वेचासू बैचा छै सो जाणजो.

१०००० १ हुंडी श्रीइंदोरकी किनी सो सिकारदेवणे की लिप दीनी छै सो प्रत २६॥ १ लेपे हमारो जमा करजो.

१ संमत १९२९ सावण सुदी ५ फेर दिसावरांका भाव होवे सो लिपणा.

१ अफीम बंधायो जिणको वधाईको परच नामैं इसतरे से देसावरवालेके नामे मांडणो.

५९॥=) श्री ताल पाते रामजी कालूरामके लेपे तुमारे घर
 १ सावण सुदी ५ चीकरा थैला नग ५ तुमारा बंधाया
 जिणकी बंधाई परचका चीक मण २८॥) ऊपर जिण
 का वोजा नग ४ का परचका नावे मांडा. अब
 सिरस्ता वोजाका १ का १३ से लगात १६॥)
 तकका है, पाना ७७.

९) तेल मण १॥) प्रत ६ वोज १ लारे सेर
 १०) १॥=) पाली पासीमण १॥ प्रत १५) वोज
 १ लारे रु. १५)

६) पाली आफी माणी १) प्रत ६ वोज १
 लारे मण २

४२॥) बधाई तथा फिराई तथा आदमीको रोजगार
 मालरे पास सोवेजणीको मास ४ का उथा माल
 बंधे जणेका थणी गौल तथा फेरार्इको भुंगडा तथा
 तमापू माजुमवंगेरेके परचा मण २८॥) का प्रत
 मण १ लारे प्रत १॥) उधडा.

५९॥=) बलता श्री आफीमके परच पाते
 जमा पाना, ८१

१) आफीमकी गोटी दिसावरवालाकी बेची जिणको जमा-
 परच इसी तरेसे करणो,

५५०५।) भाई वगसीराम मंगलचंदके लेपे मित्ती काती
 सुदी १ आफीमकी वटी मण २३।) १= परी प्रत
 ५९॥=) लेपे परासूं ताल वालाकी तुमानै दीनी

जिणका नामे मांडा हस्ते दलाल रुघजी कोठारी तथा
नायलचंद वागडो पाना ७९.

५४१५॥७ श्रीतालपते भाई रामजी कालूराम-
का जमा तुमारे घरू मिती काती सुदी
१ आफीमकी वट्टी मण.

२३॥७ १= परेसो प्रत ५४७ परासू तुमा-
री वेची सो तुमारा जमा की-
ना पाना उतार भेजो.

५४९३॥=॥७ असल वट्टी-
मण २३॥७ १= प्र-
त ५९ लेवे जणी
का पाना. ७७

७८=॥७ वाद परचका.

२७॥=॥७ आडतरू. ५४९३॥=॥७की प्रत
॥७ सत १

११ ५॥॥-७ दलाली का मण २३॥ प्रत-७
घडी १ लेवे.

१॥=७ धरमादाय प्रत -७ मण १ लारे

२=॥॥७ आफीमकी खरच परचुणमा-
। लवाला लेवालका तथा छोक-
शका प्रतना७ मण १

३६॥=॥७

४११] हासलमण ३० का प्र
 त ११=] लेपे थेलानग
 ६ प्रतथेला १ मण ६
 ७८=११]

६४१६१] वाकी खरा.

३९-११] श्री आडतखाते जमालेवाल पास वेचवाल पास.
 ०१ १११=] २७१=११] पाना ८१]

६१११] श्रीदलालीखाते जमा. पाना ८१

११=१] श्रीधरमादापाते जमा. पाना ८२

०१ .

४११] श्रीहासलखाते जमा. पाना ८२

०१

२=११] श्रीआफीमकेखरचखाते जमा. पाना ८१

६६०६१]

। अमलको चीक दिशावरवालेको दो धणीनें बेचणो जि
 णको जमाखरच इसतरह काढणो.

। मिती सावण सुदी ६ चीक मण ३४। तालवाला रामा
 नी कालुरामको प्रत ४३॥ लेपे खरासूं बगसीराम मंगल
 चन्दनें तथा ठाकुरसी उदेरामनें बेचो हस्ते दलाल रुवजी
 तथा धरमचन्द.

२९८३॥] भाई ठाकुरसी उदेरामके लेपे चीकमण १७ प्रत
 ४३॥=] लेपे परेसूं तुमाने दीनो छै जणीका सावण सुदी ६
 प्रत ७९

३०२७=J भाई वगसीराम मंगलचंदके नामे सावण
सुदी ५ चीकमण १७ प्रत ४३॥=J लेखे
तुमाने दीनो जणीका पाना ८०

५९००१-॥ श्री तालखाते रामाजी कालूगमका जमा तु-
मारे घरू सावण सुदी ५ चीकरा थेला नग ६
तुमारा वेच्या जणको चीकमण ३४।J पराप्रत
४३॥।J लेखे वेच्यो जिणका जमाखरच कीना
ऊपनाको पानो १ उतार भेज्यो. पाना ६५
५९९३॥।J अमल चीकरा

९३॥=J वादपरचका

३।।आडत रु. ५९४३॥।J प्रत।।J सत १
८।।-J दलाली मण ३४। प्रत।J ६
४९॥।J हासलमण ३६ का थेला
प्रत १।=J मण १

३।J आफीमके खरच छोकराव
माल खरीदनेवाला वगैरे मण
१ प्रतदेढ-॥।J

२=J धरमादो मण ३४।J का
प्रत-J मण १

९३॥=J

५९००१-J ॥वाकी परापर

४७-॥ श्री आडतखाते जमा बेचवालपास लेवालपास
०। पाना ८१३० ॥ १७=॥

४९॥ श्रीहासलखाते जमा पाना ८२

०।

८॥- श्रीदलालीपाते जमा पाना ८१

०।

३॥ श्रीअफीमके परचपाते जमा. पाना ८१

०।

२= श्रीधरमादायपाते जमा. पाना ८२

०।

६०१०॥=

१॥ विगत पातो पताणेकी को जो पातो इसमुजब इणी विगत
सूं पतावे तो हिसाब देशावरनै भेजै तथा और किसी दुकानदार
हिसाब करे तो और वहां देणको काम पडे नही पातेसूं देणे
सब काम होई जावे.

विगत रकम देशावरकी पतावे जिसकी.

१। हुंडी लेणी भेजां तथा लेणी आवे तथा वटाणी भेजां तथा
वटाणी आवे जिणमें विगत इण भात करणी नकल होवे
तो नकलको पानो करणो रोकड होवे तो रोकडको पानो
करणो मिती करणी हुंडी भेजी तथा आई होवे तो करणी जणी
उपरा होवे तो औ आसामीको. नाम लिपणो लिपी मिती होवे
सो करणी तिथी दिन करणा भाव होवे तो करणो इणी भांत
हुंडीको देशावर पातो पतावणो.

१। हुंडी आपा करा तथा करावा तथा देशावरवालो करै
तथा करावे जणकी नकल तथा रोकड होवे जणे को पाणो करणी

ती होवे सो करणी हुंडी उपर होवे सो करणी राषा
 णा करणा मितीलपी करणी तथा दीन होवे सो करणो
 व होवे तो करणो जितनी विगत नकलमें होवे सो सब
 त्तामें करणी फकत धणीको नाम नही करणो सो नामपा-
 र्ण होवे जछे जणेशुं

और देशावर सुं माल मंगावा तथा भेजा तथा उणीको
 वेचवा वास्ते आवे जणीकी विगत पातेमे इस तरे-
 इसुं करणी

माल जिनस कपडो वगैरे मंगाई जिसकी.

रु. का अंक और नकलको पानो मितो जो होवे सो
 करणी रकम तुमा भेजी सो तुमारे लिपे मुजव जमा
 किनी माल जिनस वगैरे देशावरवालोने आपणे पास परीद
 मंगाई नकलको पानो रु. को आंक^२ करणे मितो होवे सो
 करणी रकम तुमाना भेजी जणीरो^१ पानो एक^३ उतार
 तुमाना भेजो जणी मुजव नामे^३ मांडकर इतनी विगत
 करणी और माल अमल वगैरे चीज देशावरवालों या वेचनेकू
 भेजे सो नकलमे तो जमापरच विगतवार होवेछे पण देशावरके
 पातेमे इसमुजव विगत करणी.

नकल पाना मितो करणी कपडा तुमारो वेचो जण
 ग उपनाको पानो तुमना उतार भेजो सो जमापरच
 केना

जमा करणो मितो होवे सो करणी अमलको चीक होवे

तो चीक करणो बड़ी होवे तो बड़ी करणी मग गत-
चेतावणीके माल मण इतनो तुमारो बेचो जणेको उह-
नाको पानो एक उतारभेजो इतनी विगत पातेमें करणी
। और बजारको पातो पताणो जिसमें फकत रुपियाको
अंक और नकल होवे तो नकलको पानो और रोकडा होवे
तो रोकडको पानो मिति होवे सो करणी जमा जे रकम
होवे तो जमा पासे पताणी लेपे होवे तो लेषवास्ते पताणी
और नकल रोकडको पानो तथा रु. को अंक तथा
मिति सुवाय बजारु पातेमे दूसरो दाषलो काई करणो
नहीं फकत उपर लपो सो करणो.

। और माल जिनस वगैरे की रकम पताणी जिसकी विगत पा-
तेमें इसतरे करणी.

। माल अमल जिनस घरु लेवे उस पातेमे विगत इतनी
करणो नकल तथा रोकड होवे जिसको पानो और रु.
को अंक माल जिनस मण होवे तो मण करणा और
नग होवे तो नग करणा और कुछभी करणो नही और माल
जिनस किसीकी पाती पाते लेवे उसकी विगत इसतरे
पातेमे पताणीके रु. को अंक और नकल रोकडको
पानो होवे सो और मिति होवे सो मण होवे तो मण
करणो और नग होवे तो नग करणा, सो पाते सो
माल जिनसकी झडती मिलजावे और पाती दारको
व्याजपण पातेपै जड जावे और वही देपणेको कामकरै
नही सो इसतरेसे रकम पातेमें उपर लिपे मुजब पताणी

और परच का पाता व व्याज तथा वटा तथा दूसरा पे-
रीच सड़ा वगैरे हुंडावणका पातेमें विगत इसतरेसे क-
रणी के नकल तथा रोकडको पानो रु. को अंक और
काईवी करणो नही

और सीरकार वगैरे चागीरदार का पाता होवे तो इसतरेसे
पातामे विगत करणी

विगत लेपे^१पासे जो रकम होवे जणीकी नकल तथा
रोकडको पानो होवे सो करणो रु. को अंक करणो मित्ती
होवे सो करणी चिट्ठी १ आपकी आई जिसकी दिया
जिसका नाम करणा तो पाते सो हिसाब होय जावे नही
तो सब वहां देपणी पड़े

विगत जमा पासे जो रकम होवे उसकी पातेमें इसमु-
जब करणीके नकल तथा रोकडको पानो और रु. अंक
मित्ती होवे सो करणी और जिसने रु. में भरे जिस ध-
णीका नाम करणाके आपके बहल जिसने भरा होवे उसका
नाम करणाके भरेसो जमा कीना पावती १ लिपदिनी.

मिसल तुमारे घर

१॥ पातो १ श्री मम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदास सेती-
लेखो तुमारे घररुप्या.

१०००) नकलपान ५२ भादवा
वदी १४ हुण्डी १ रतला

१०००) नकलपान ५० भादवा
सुदी २ हुंडी १ हमा

मकी लेणी आई मगनी-
राम बभूतसिंघ उपर आ-
साढवदी ८ दीन ५१ पीछे.

१२४५) नकलपान ५२ भादवा

वदी १३ हुंडी १ रु १०००

श्रीमंवरईकी तुमारे खाते

तुमारे उपरा लपी डठा मूं

हमारी रापा मगनीराम

बभूतसिंघ पास भादवा

वदी १३ थी दीन ४५ पीछे

१०००) नकलपान ५३ भादवा

सुदी ६ हुंडी १ रतलामकी

तुमारे खाते अजमेरसुं

हंसराजगंभीरचंद भेजी

धनरूपमल राजमल उ-

परा सावण सुदी १५ थी

दीन २१ पीछे. •

३२४५

उपरालिखी तुमारी रापा
गणेशलाल सोभागमल-
पास आसाढ सुदी ११
थी दीन ५१ पीछे.

१२५६) नकलपाना ५६ भाद-

वासुदी ७ हुंडी १ रु १०००)

श्रीमुम्बरईकी तुमारे पा-

ते तुमाना भेजी गणेश-

लाल सोभागमल उपरा

भादवा सुदी ७ थी दीन

४५ पीछे.

१२६५) नकलपान ५८ भादवा

सुदी ७ हुंडी १ रु. १०००)

श्रीइंदोरकी तुमा हमा-

री नेसाणीकी किनी हं-

सराज मेघराज उपरा-

लिपी तुमारी रापा गणे-

शलाल सोभागमल

पास भादवासुदी ७ थी

दीन ४५ पीछे. प्रत २६।।)

लेगया.

घातेर । धडप्रत ७५

३५२१।

मिसल हमारे घर

१॥ पातो १ श्रीमम्बई पाते भाई गणेशदास ठाकुरदासको सेती लेये हमारे घर.

१०००] नकलपान ४१ मिति आसोज सुदी ९ हुंडी १ तुमारे उपर लिपी हमारी रापा गणेशदासकिसना-जीपास भादवा सुदी ९ थी दीन ४५ पीछे.

८००] नकलपान ४४ सावणव-दी ९ हुंडी १ रु १०००] रतलाम की हमारे पाते लेणी भाई मगनीराम-जी वभुतसिवजी उपर सावणवदी ९ थी दीन ५१ पीछे.

७९६] नकलपान ४८ सावणव-दी १ हुंडी रु १०००] श्रीमंदसोरकी तुमा ह-मारे पाते भेजो गणेश-दास पूनमचंद उपर सा-वणवदी १ थी दीन ५१ पीछे

८००] नकलपान ४२ आपाढसु-दी १ हुंडी रु १०००] रतलाम हमारी हमारे उपरा लिपी हमारे पा-ते तुमारी रापा गणे-शलाल सोभागमल पास आसाढ सु० ५ थी दीन ५१ पीछे प्रत ८०] लेये चिट्ठी तुमारी आसाढ सुदी ७

१०००] नकलपान ४३ आसो-जसुदी ९ हुंडी १ श्रीमु-म्बईकी लेणी भेजी गणे-शलाल सोभागमल उपर लपी मिति भादवा वदी ९ थी दिन ४५ पीछे

१०३५] नकलपान ४५ सावण-वदी १ हुंडी १ रु १०००] जेपुरकी तुमा हमारे पा-ते किनी गणेशदास ठा-

५००) नकलपान ५९ कार्ता व-
दी ७ हुंडी १ रु. १०००) तुमारा उपरा लपी हमा-
री राषा गणेशदास किस-
नाजीपास भादवा सुदी
७ दीन ४५ पीछे जणम-
धेरु ५००) तुमागवरुं
मांडा.

१०३२॥) नकलपान ४६ साव-
ण सुदी १० हुंडी १ रु.
१०००) की जेपुरकी तु-
मे हमारे पाते जेपुरना
गणेशदास नारायणदास
ना भेजी सुपराम गंभीर-
मल उपर सावण सु० १०
थी दीन ५१ पीछे प्रत ३॥)

कुरदास उपरां राषा नेण-
सुप मुलतानचंद पास
सावणवदी १० थी दीन ५१
पीछे प्रत १०३॥)

१०३५) नकल पान ४९ सावण
सुदी १ हुंडी १ रु. १०००) जेपुरकी तुमाना वटाणी
भेजी सुपराम गंभीरम-
ल उपर लिपी सावण
वदी १० थी दीन २१ पीछे
प्रत १०३॥ तुम वटाई
तीरा.

४००) नकलपान ६१ सावण सु-
दी १ हुंडी १ रु. १०००) तुमारी लिपी सिकारी रा-
षा गणेशदास सोभागम-
ल पास सावण सुदी १
दीन ५१ पीछे जणमधे
रु. ५००) तुमारा घरु और
रु. ५००) हमारे घरु क-
राई सो प्रत ८० लेपे तु
मारी चिट्ठी सावण सुदी
१ सुं.

१॥ पातो १ श्री जैपुर पाते भाई गणेशदास नारायणदासका
सेती लेये हमारे घर

१००० नकलपान ४५ आसोज-
वदी १ हुंडी १ तुमारे
उपरा हमारे पाते श्री
मम्बईसूं गणेशदास
ठाकुरदासकी रापा नेण-
सुप मुलतानचंद पास
सावण वदी १ थी दीन
५१ पीछे.

१००० नकलपान ४६ आसो)
ज सुदी १ हुंडी १ श्रीजैपु-
रकी हमारे पाते मुम्ब-
ईसूं गणेशदास ठाकुरदा-
स भेजी सुपराम गंभीर
मल उपरा लिपी मिती
सावण सुदी १० थी
दीन ५१ पीछे.

१॥ पातो १ मंदसोर पाते पेतसीदास गोविंदरामके सेती
लेये हमारे घर

१००० नकलपान ४७ भादवा
सुदी १ हुंडी १ श्रीमंदसो-
रकी लेणी भेजी गणेश
दास पुनमचंद उपर सावण
सुदी १ थी दीन ५१ पीछे

१००० नकल पान ५६ भादवा
सुदी १ हुंडी १ श्रीमंद-
सोरकी लेणी भेजी गणे-
शदास पुनमचंद भादवा
वदी १ थी दीन ५ पीछे.

१॥ पातो १ श्रीइंदोरपाते हंसराज मेघराजको सेती हमारे घर.

१०००) नकल पान ५८ काती
वदी ७ तुमार उपर
लिपी हमारे पाते वम्बई
सूं गणेशदास ठाकुरदा-
सकी रापा गणेशलाल
सोभागमल पास भादवा
सुदी ७थी दीन ४५ पीछे.

मिसल देशावरु तुमारे घर.

१॥ पातो १ श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदास
तुमारे घर.

३२१५) धडी १ जमाको प्रत ७१
सूलाया

१२६५) नकल पान ५५ भादवा
सुदी ७हुंडी रु. १०००)
श्रीमम्बई री तुमारी पाते
श्रीइंदोरसूं हंसराज मेघ
राज भेजी सुरतराम-
गयभाण उपरा भादवा
वदी १ थी दीन ५१
प्रत २६॥) गई मिति.

३५२१) धडी १ लेपेके प्रत ७१
सूलाया.

५००) नकल पान ६१ आसो
वदी ६हुंडी १ रु. १०००)
तुमारी लीपी सिकारी
रापा गणेशलाल सोभा-
गमल पास सावण सुदी
१ दीन ५१ पीछे जण

१॥ पातो १ धनरूपमल गजमलको.

१०००) रोकड पान ८३ भादवा सुदी ७	१०००) नकल पान ५३ भादवा सुदी ६
-----------------------------------	----------------------------------

१॥ पातो १ शिवलाल मोतीलालको सेती

१२६५॥=) रोकड पान ८४ भा- दवा सुदी ७	१२६५॥=) नकल पान ५४ भा- दवा सुदी ७
---------------------------------------	--------------------------------------

१॥ पातो १ गणेशदास किसनाजीको सेती लेपा.

३५०१) रोकड पान ८४ भादवा २२५०) वदी ९ भादवा सुदी ७ १२५१।)	१२५०) नकल पान ४० भादवा वदी) १२५१।) नकल पान ५९ भादवा सुदी ७ १०००) रोकड पान ८३ भादवा वदी १४
--	--

१॥ पातो १ वगसीराम मंगलचंदको सेती

८५३२॥=॥) रोकड पान ९० ३०२७।=) सावण सु- दी १५ ५५०५।) काती सु- दी १	५५०५।) नकल पान ६५ काती सुदी १ ३०२७।=) नकल पान ६७ सा- वण सुदी ५ ८५३२॥=॥)
--	---

(८०)

विद्याज्ञानप्रकाश ।

१॥ पातो १ ठाकुरसी तेजपाल.

५००] नकल पान ६२ आसोज
वदी ६

५००] रोकड पान ८४ आसोज
वदी ६

१॥ पातो १ ठाकुरसी उदेरामको सेती लेपी.

२९८३॥] रोकड पान ८५ सावण
सुदी १५

२९८३॥] नकल पान ६६ साव-
ण सुदी ५

१॥ पातो १ नेमाजी पेमराजको सेती लेपो.

५००] नकल पान ६२ आसोज
वदी ६

५००] रोकड पान ८४ आसोज
वदी ६

मिसलपरच

वगैरेके

पाताकी

१॥ पातो १ श्री वीरध.

२॥] रोकडा पान ८५

१] रोकड पान ८६ परच पातेर
८६] रोकड पान ८६ वीसीपरचका

१॥ पातो १ श्री हुडावण सेती.

नकल पान मेळ दीन १५ को
२५०] नकल पान ४१
२००] नकल पान ४४
३५] नकल पान ५४
२०३॥] नकल पान ४८
१] नकल पान ५२

नकल मेळ दीन १५ को
२००] नकल पान ४२
२५०] नकल पान ४३
३२॥] नकल पान ४७

॥=॥नकल पान ५५

३॥॥गकल पान ५६

१॥नकल पान ५७

२६५॥नकल पान ५८

१२६॥नकल पान ६०

३५॥नकल पान ४९

१०८६॥=

१॥ रोकड पान ८६

२६५॥नकल पान ४९

१००॥नकल पान ६२

८४७॥॥

१॥ पातो १ आफीमको परच.

०

५९॥=॥नकल पान ६४

२=॥॥नकल पान ६६

३॥नकल पान ६८

६५॥॥

०

३७॥ रोकड पान ८४

१॥ पातो १ श्रीआडत सेती

०

३९-॥॥नकल पान ६६

४७-॥॥नकल पान ६८

०

१॥ पातो १ श्रीदलाली सेती

०

५॥॥नकल पान ६६

८॥-॥नकल पान ६८

०

१॥ पातो १ श्रीहासल सेती

४११। नकल पान ६६	६८॥।।।।। रोकड पान ८५
४११।। नकल पान ६८	
९०।।।।।	

१॥ पातो १ श्रीधरमादायसेती

१॥।।।।। नकल पान ६६	१। रोकड पान ८६
२=। नकल पान ६८	

१ पाता १ श्रीसकराई परपाईसेती.

१॥ विगत कच्ची रोकड उतारणी जणोकी.
पेलां तो श्रीपरमेशरजीको नाम देणो पीछे मेलजण
मितीसू सुरू करणो और जहांतक मेल होवे वो करणो
जितरा दीनाको मेल होवे सो करणो.

श्रीपरमेशरजी.

श्रीमहालक्ष्मीजी साहेछे संमत १९२९ मिती भादवा सुदी
१ मूं लगार्इने मिती भादवा सुदी १५ सूधो मेल दीन १५ कं
कच्ची रोकडको छ लाभ सुप घणो होईजो.

१। श्रीमहालक्ष्मीजी भंडारभर- पूरहो.	१३००। भाईमगनीरामजी वभूत सिंघजीके लेपे सा-
--	--

- २११०१) श्रीपोतेवाकी
१२४६।) भाई मगनीरामजी
बभ्रुतसिंघजीका जमा
मिती भादवा वदी १३
रोकडा आया सो जमा
किना पाना ७८
१२४६। रोकडा हस्ते
रामरप.
- ३०००) भाई मगनीरामजी भब्रु-
तसिंघजीका जमाभादवा
वदी १४ रोकडा परपरा
गणेशदास किसनाजीना
परपाया सो तुमारा
जमा कीना पाना ७८
१०००) परपरा गणेशदास
किसनाजीके लेपे.
- २२५०) भाई गणेशदास किस-
नाजीका जमा भादवा
वदी ९ रोकडा आया
सो जमा कीना हस्ते
नयालजी. पाना. ७९
२२५०) रोकडा परपरा
- १०००) धनरूपमलराजमलका
जमा भादवा सुदी ७ रो-
- वण वदी १० रोकडा दीना
सो मांडा पाना ७८
- १३००) रोकडा हस्ते रामरप.
- १२५०) भाई मगनीरामजी बभ्रु-
तसिंघजीके लेपे मिती
भादवा वदी ९ रोकडा
दीना सो मांडा पाना ७८
१२५०) रोकडा परपरा
तुमारेवती सीवलाल
मोतीलाल परपाया हस्ते
रामरप.
- १०००) भाई गणेशदास किस-
नाजीके लेपे भादवा वदी
१४ परपरा मगनीराम
बभ्रुतसिंघपासे दररीस
मांडा पाना ७९
१०००) परपरा मगनी-
रामबभ्रुतसिंघजीकाजमा-
- १०००) भाई मगनीरामजी बभ्रु-
तसिंघके लेपे भादवा वदी
११ रोकडा दीना सो
मांडा पाना ७८
- १०००) रोकडा हस्ते रामरप

- कडा आया सो जमा की
ना, पाना ७९
१०००) रोकडा परपरा.
१२६५ ॥ =) सिवलाल मोती-
लालका जमा भादवासुदी
७ रोकडा आया सो जमा
कीना पाना ७९
१२६५) रोकडा तुमारे-
वती ठाकुरसी
उदेराम पर-
पाया.
॥ =) रोकडा
हस्तेनरसिग.
१०००) भाई मगनीरामजी वभु-
तसिघजीका जमा भादवा
सुदी १५ रोकडा आया
सो जमा कीना.
१०००) रोकडा परपरा
हस्ते रामरप पाना ७८
१२६१) गणेशदास क्रिसना
जीका जमा भादवा सुदी
७ रोकडा आया सो
जमा कीना हस्ते दलसु
पजी पाना ७९
१२६१) रोकडा परपरा
- ५००) ठाकुरसी तेजपालके
लेपे मिती आसोज वदीद
रोकडा दिना सो माडा
पाना ८०.
५००) रोकडा हस्ते
लछाराम.
१०००) मगनीरामवभुतसिंघ-
जीके लेपे भादवासुदी ७ रो-
कडा दीना सो मांडा
पाना ७८.
१०००) रोकडाहस्ते लछीराम-
५००) नेमाजी खेमराजके लेपे
०। आसोज वदी ६ रोकडा
दीना सो मांडा हस्ते पुद्द
पाना ८०)
५००) रोकडा सोनारकी
परपरा दीना.
१२६५) मगनीरामजी वभुतसिं-
घजीके लेपे भादवा
सुदी ७ रोकडा दीना सो
मांडा पाना. ७८)
१२६५) रोकडा हस्ते
रामरप.
३७।) श्री आफ्मीकी परचपाते
लेपे भादवा वदी १ रोकडादी-

३०२७।= जगसीराम मंगलचंद
का जमा सावण सुदी १५
रोकडा आया सो जमा-
कीना हस्ते हिरासरावगी.
पाना ७९

२९८३।। ठाकुरसी उदेरामका
०। जमा सावण सुदी १५
रोकडा आया सो जमा
कीना हस्ते पुनाजी. पा.
ना ८०

२९८३।० रोकडासोना-
रकी परपरा

५५०५। जगसीराममंगलचंदका
०। जमा काती सुदी १
रोकडा आया सो जमा
कीना पाना ७९

५५०५।। रोकडा था
सोनारकी पर

परा हस्ते
हिरासरावगी

२।। श्रीवटेपाते जमा भादवाव-
०। दी५५२००। जजार चलण
लाया सो परपरा दीना
जणेका वटे रापा पाना ८०

१००। श्रीतालपाते भाई रामा-
जी कालूरामका जमा ह-

ना हस्ते हमाल वासी
पाना ८१

६ तेलमण, १ असलका प्रत ६
१। पालीपीसी मण १ प्रत १५
५ पाल आषी माणी १
२५ बंधाई तथा केराई तथा
परचुरण मजुरी तथा थेलाउ-
तराईका चुकता भादवावदी
१४ हस्ते हमाल वासी.

३७।।

६८।। श्रीहासलपाते लेषे साव-
ण सुदी ११ चीकमण ५५
का हमालका थेला ११
का मग्कारमधे दीना प्रत
१। मण १ पाना ८२
६८।। रोकडा हस्ते
भागीरथ.

१००००। श्री तालपाते गमाजी
कालूरामके लेषे तुमा-
रे वरु भादवासुदी ११
हुडी १ हमारे उपग
लपी तुमारी रापा पुन-
मचंद दीपचंदपाम भा-
दवा वदी १ सं दीन ११
पीछे माहायोग रु. हुं-

मारे घरु सावणसुदी १५
चिट्टी १ तुमारा उपर कीनी
जणीका सोनार जसराज
नादेवाया सो तुमारा जमा
कीना पान ७८ लपीसा-
वणसुदी १४.

१०१) रोकडाराषावाला
धणीका आया.

१) वाद श्री हुंडावणषाते

१००) वाकी परा

१) श्री हुंडावणषाते जमासाव-
णसुदी १५ चिट्टीरु. १००) ता
लकीकीनी जणीकाजमा-
कीनी पान ८१.

२९०००) २३००) ३००) ३१) २१॥

४१६३३॥) ॥

४१६३३॥) ॥

डी चलणका रोकडा
दीना सो मांडा.

१०००) रोकडा मगनीराम-
जी बभुतसिंघजीनादे
वाया सो जमा मांडा
हस्ते रामरष.

१) श्री धरमादेपाते लिपीमितीभा-
दवासुदी १ ना दीना. पाना ८२

१) श्री परचषाते लेषे भादवासुदी
२ साईको मसालो तथा
काजल आई जणकी दीना
हस्ते भगरा. पान ८०

१) रोकडा दीना.

८६) श्री वीसी परचषाते लेषे भा-
दवासुदी ३ पान ८०

२१) गंहु मणी १)

२१) धीरत मण १)

२१) मुंग तथा चावल.

५) मिरच मसाला वगैरे
परचुण.

२) गाडा लकडको.

५ गुड मण १)

११) षांड मण १)

१६०००) १७००) २७०) ८) १॥

॥ श्रीपरमेश्वरजी ॥

१॥ श्रीमहालक्ष्मीजीको भांडारभरपुर होईजो सम्वत १९२९
भादवा सुदी १ सू सुदी १५ सुधोमेल पकी रोकडको दीन
१५ को छै लाभ सुप धणो होईजो.

२१००१) श्रीपातेवाकी
३२४६।) मगनीरामजीबभुतसिं-
घजीका जमा पाना ७८
१२१६।) रोकड पान ८३
भादवा वदी १३
१२४६।) रोकडहस्ते
रामरप.
२०००) रोकडपान ८३
भादवा वदी १४
रोकड तुमारे ब-
दले गणेशदा-
स कीसनाजी प-
रपाया सो जमा
कीना.
१०००) परपा-
यागणेशदा-
स कीसनाजी
रालेपा
१०००) रोकड
पान ८४ भा-

५८०५) मगनीरामजीबभुतसिं-
घजीके लेपे रोकडा दीना
सो नांवे मांडा हस्ते रा-
मरप. पाना ७८
२५५०) रोकडपान ८२
१३००) सावण सुदी १०
१२५०) भादवा वदी ९
रोकडपान ८३
२५५०
१०००) भादवावदी ११
१०००) भादवा सुदी २
१२५५) रोकड पान ८४
भादवा सुदी ७
१०००) गणेशदास किसनाजीके
लेपे रोकड पाना ८३ मि
ती पाना भादवा वदी १४
रोकड तुमारे बदलेमगनी
राम बभुतसिघना दीना
सो मांडा
१०००) परपाया मगना

दवा सुदी १५
रोकडा आ
या सो,

१०००) रोकडहस्ते रामरप
३२४६ ।)

३५०१ ।) गणेशदासकिसनाजी
का जमा रोकड आया सो
जमा कीना पाना ७९.

२२५०) रोकडपान
८३ भादवा वदी

९ रोकडा हस्ते
नवलजी,

२२५०) रोकडा

१२५१) रोकडा पान

८४ भादवा सुदी

७ रोकड आया
सो हस्ते दलसु-
पजी,

१२५१) रोकडा

३५०१ ।)

१०००) धनरूपमल राजमलको

जमापान ७९ रोकड पाना

६६ भादवासुदी ६ रोकडा

आया सो जमा कीना

१०००) रोकडा परपरा

१२६५ ॥) सिवलाल मोतीलाल

०१ लका जमा रोकड पा-

रामजी वभूतसिं-
घजीके जमा.

५०००) ठाकुरसीतेजपालके लेपे
रोकडपान ८४ आसोज
वदी ६ रोकड दीना सो
मांडा.

५००) रोकड हस्ते ल-
छीराम.

५००) नेमाजी पेमराजके लेपे
रोकडपान ८४ आसोज
वदी ६ रोकडा दीना सो
मांडा हस्ते पुढ

५००) रोकडा परपरा

१०००) श्रीतालपाते रामाजी
कालूरामके लेपे तुमारे
घरु रोकड पाना ८५
हुंडी १ हमारे उपरा

लपी तुमारी राया पु-

नमचंदपास भादवा

वदी १ थी ११ पीछे

साहाजोग रु. हुडी च-

लणका पान ७७

१०००) रोकड मगनीराम-

जी वभूतसिंघजी-

ना दीना सो तुमारे

ना ७९ भादवा सुदी ७
रोकडा आया सो
जमा कीना हस्ते
नरसिंग.

१२६५॥ = ७ रोकडा तुमारावती ठा
कुरसी उदोराम परपा
या १२६५॥ = ७ रोकड

१२६५॥ = ७

८५३२॥ = ॥ ७ वगसीराममंगलचं
दके लेपा रोकडपान
७९ रोकडा आया सो
जमा कीना हस्ते ही-
रासरावगी पाना ७९
३०२७ = ७ सावणसु

दी १५ रोकड

पान ८५

५५०५ ॥ काती सु-

१ रोकडा

पान ८५

८५३२॥ = ॥ ७

२९८३॥ ७ ठाकुरसी उदेरामकाज
मा रोकडपाना ८५ साव-
ण सुदी १५ रोकडा आ
या सो जमा कीना हस्ते
पुनो प्रत १२७

२९८३॥ ७ रोकडा परपरा

१०० ७ श्रीतालपातेरामजी कालू

नाव मांडा ह

रामरप कोठा

३७॥ ७ श्रीआफीमके परच

लेपे नकल पान ८१

वा सुदी १० रोकडा र

आई जणीकाहस्ते हम

पासी

६॥ ७ तेल असलको मण

१॥ ७ पालीपासी मण १॥

५॥ ७ पाली आपी माणी

२५ ७ हमालीके वंधाई फे

तथा परचुरण हमाल

दानगीयाका.

३७ = ७

६८॥ ७ श्रीहासलपातेलेपेरोव

०॥ पान ८५ सावण सुदी १

चीक मण ५५ के हास

का सरकार पाना ८२

चबुतरवालाना दीना

स्ते भांगीरथजी

१॥ ७ श्रीपरचपाते लेपे रोक

०॥ पाना ८६ भादवा सुदी

साहीको मसालो आ

तथा काजल आयो ज

णीका दीन सो मांडा

स्ते भगीरथ

रामकाजमाहमारे घरु रोकड
 पान ८५ सावणसुदी १५ चिट्टी
 तमारे उपरा लपी हमारी
 रापा सोनारजसराज पास
 चिट्टीलपी सावणसुदी १४
 थी दीन १ पीछे साहाजोग रु.
 हुंडी चलणराषा पान ७८
 १० १ ७ रोकडा रापावाला
 धणी पासे आया.

१ ७ वादश्रीहुंडावणपातेजमा
 १०० ७ बाकी सरे

२ ॥ ७ श्रीवटाव पाते जमा रोकड
 पान ८० भादवा वदी ५
 रु. २०० ७ वजार चलणी
 नाजणी का वटेकामत
 १ ७ ७ लेपे पानो ८०

१ ७ श्रीहुंडावणखाते जमा रोक-
 डपान ८६ सावण सुदी १५
 हुंडी रु १०० ७ श्रीनकलकी
 कीनी जणीकी हुंडावणका
 ३९००० ७ २४०० ७ २१० ७

२१ ७ २ ॥ ७ ॥

४१६३३ ॥ ७ ॥

४१६३३ ॥ ७ ॥

८६ ७ श्रीवीसापरचपाते लेपे
 रोकडपाना ८६ भादवा
 सुदी ३

४२ ७ गेहूं माणी १ ७ २१

धीरतमण १ ७ २१

२१ ७ मुंग तथा चावल

॥ ७ ॥ ७ ७

१० ७ वेसवार सरब ५ ७

गुड मण १ ७ ५ ७

११ पांड मण १

२ ॥ लकडीकी गाडी १

८६ ७

१ श्रीधरमादेपातेलेपे रोकडपान

१० ८६ भादवा सुदी १

१६००० ७ १८०० ७ १७० ७

२८ ७ १ ॥ ७ ७

१७९९९ ॥ ७ ७

१३६३३ ॥ ७ ७ श्रीपोते बाकी

४१६३३ ॥ ७ ७ ७

४१६३३ ॥ ७ ७ ७

विगत हिसाब देशावरना तुमारे घर भेजा जणीमें हिसाब घरच लगावणो जणीकी विगत.



आडत जणेकी लगाणीके जमा चात्र लेपेके जोडा पाताकी होवे जणी माहे धणी जोड होवे उणीका प्रत=७ सेकडा १ लारे लगाणो और जुनी बाकीकी रकम उण जोडकी आडत लगाणी जणी माहे सूं वाद करणी. बाकी आडत लगाणी और कोई जिनसकी रकमत्री जोडमाह आवे तो आडत लगाणी नहीं; कारण के उणी रकम माहे तोवी किवा परीदे उणी वपत प्रत ॥७ सेकडेकी लग जावे छे. सो पण जोडमे वाद करणी बाकी रहे उसीकी लगाणी.

सकराई प्रत १-७ हजारकी लारे लगाणीके जो हुंडी देशावरकी लपी सिकारा जणीकी हिसाबमाह लगाणी.

परपाई प्रत=११७ हजार एक लारे लगाणा जमा पासेकी जोड आवे उणाकी लगाणी जुनी बाकी जमाकी जोडमें आय जावे तो वाद कर बाकी जमा रु होवे उणीकी लगाणी

दलाली प्रत १-७ हजार १ लेपे लगाणीके ईस रकमकी लगाणीके हुंडी परीद भेजा तथा उणीके पाते करा जणीकी.

चिट्टीकी सुपडी साल भरके पातेमें काम पडा होवे सो

देकर अंदाजसे लगाणी इसका सुमार छे नही काम मुजब लगाणी.

और व्याज ज्यो व्याज वहीमें आंक आवे उणाको प्रत ॥७॥
सेकडा एकलारे लेणो वादेणा साहुकारी वाकी बोलतावणे
जणमुजब जोडनो.

इस तरेहसे देशावरना हिसाव भेजणो जणीको परच इस
तरेहसे लगाणो और इस तरेहसे देशावरवाले हिसाव भेजे सो
कापणो पातेमे मीलालेणो परच पण इस तरेहसे मिलायके
जो उपर लिखी जीसी तरेहसे जाच लेणो भूलसे जादा लगा-
यलीनो होवे तो भूललिपणी और देसावरवालो जितनी
रकम पातेमें भरेने वाकी काटनेमे ले उणी मुजब काटणी
जोके नवे सालमें मुजर लेवे तो आपणे पातेमे रेत
काटणी जितनी वाकी देशावरवालोकाटे उणे मुजब आपापण
काटलेणी

कायदो सराफकीजन कोईणे मुजब.

साहुकार लोक आडता देशावराकी करे जणे कोईणी
मुजब छे. सो साहुकार कोई सयेलके माफक चलना चाहिये.
१ आडतीयेको माल वंधावे जणेमें जल जोपाम आस
मानी पेमाली माल वंधावणवाले आडतीयेकी छे.
साहुकार सुदावो नहीं जो आडतीयो दावो करे तो
झुटा छे.

- २ आडतीयेके पाते हुंडी परीद कर भेजे जणीमे गपा आडतीये का करणा मारफत आपणी करणी कदास सीधो पुरजो मोल लेके भेजे तो बेचाण आडतीयेके नामकी करणी. मारफत याके साहुकार परीदणेवालेकी करणी नहीं. करावे तो आसामी कचीपकीकी जोपमे आपणी रहगा.
- ३ हुंडी साहाजोग सिकारणीके जो पेटपर पेट और सन दाको जबाब देवे जणे जोगसिकारणी आंग कची आसामी जोग सिकारणी नहीं.
- ४ कोई जालसाद हुंडी लावे तो बिना साहाजोग सिकारणी नहीं. आसामी येसी देपणीके जिसके घरमें रु. १०००) की ऐवज होवे उसधणी जोग हुंडी रु. १००) की सिकारणी जादा सिकारणी नही.
- ५ देशावरना हिसाब तुमारे घर काती सुदी १ संमत १९२९ सुधो उतार भेजणो जणेकेपुटे उपर आडी आल पेचके इणी मुजब विगत करणीके हिसाब तुमारे घर जिस मित्तक होवे उसीतकका करणो फेरसार लेणा तपासने जमा परच कीनो लष जो रुप्या हमारा लेणा छे सो तुमा घण देणा काटलीजो.

**और हुंडी कोये नईण मुजब साहुकार-
कू चाहिये:**

१ हुंडी या मोललेके देशावरना भेजी बिचमें डाक माहे

सूं जालसाजने हुंडी चोरके देशावरमधे धोका देके सिकरावलिनी तो हुंडी बेचनेवाला धणीके तो साह जोगकी भरपाई बतावे नही तो पेठपर पेठ वह सनद देवे वो सनद नही मिकारे तो फेर बेचनेवालो रुप्या देवे

और हुंडी पिछी आवे जणेको सरसतो सबसेरांमे साहुकारके इणे मुजब छ.

१ व्याज प्रत ॥॥ सेकडाको लेणो.

२ हुंडी जिस दीन पीछी आवे उणी वपतको भावसरे आसामीको होवे सो लेणा और जिस भावमें ली उसे कमी भाव बजारमें होवे तो जिस भाव ली उणमुजब

रुप्या लेणा.

३ नकराई सिकराई इणी मुजब लेणेके जो हुंडीकी मुदत दीन २ सूं दीन २१ तक तो रु. १७ सेकडा लार लगाणो और ईकिसदीन सूं मुदत जादा होवे तो रु. २७ लगाणा

४ और आगे सरकारी टपा नहीथा जब हुंडी पिछी आती जब बेचनेवालेसे कासीदीका जितना लगता जितनी लिया जाता वो अब सरकारी डाक होनेसे टपेका महमुल देपकर लेना अंदाजसे ये सिरस्ता कासीदीका है.

। विगत रोजनामो उतारणे कीके पेलं तो रोजनामाको मेल
 लगाणो जणेके उपर श्रीपरमेश्वरजीको नामो देणो वो मेल जितना
 दीनाको नकलमें होवे उतना दीनाको करणो रोजनामो उतारणो
 जदी नकल तथा कचो पातो कने रापणो और पेसतर पातेमें
 रमक देपलेणीके इसमेलमें इणी धणीकी रकम प्रत इतनेसे
 लगाईने इतनेतक जिस धणीकी रकम होवे सो एक पेटे
 उतारणी और उपर चाव जमा चावे लेपो उतारो जठे सारी
 विगत नकल मुजब करणी और पेटेमें जमा चावे लेपो
 बलतामांडणा जठे कुछ विगत करणी नही. देशावरका पेटमे
 जमा लेपो होवे तो फकत तुमारे तथा हमारे घरु करणा
 और कुछ करणा नही. पेल पेल चावं देशावरं तथा बजा-
 रकी रकम उतारणी पीछे परच वगैरेकी रकम उतारणी पीछे
 रोजनामेकी जोडा लगाणी फकत हुंडावण जोडो लगायने मेल
 मिलाया पीछे उतारणी. जोडा जमा चावे लेपेकी लगाय
 उणीको नीचे हुंडावण उतारणा. फेर बरावर जोड लगाय मेल
 रोजनामेको मिलाय देणी इसीतरेसे नकलको मेल रोजनामे
 उतारणो फेर उणी मेलका दांडा देने उणीके नीचे करको
 मेल उतारणो पक्की रोकड मुजब पातो पण पास रापणो सो
 पातेवालेकी तथा नकल रोकड वालेकी भूल होवे तो
 निकल जावे.

श्रीपरमेश्वरजी.



१॥ श्रीगणेशजी साहेछै श्रीमहालक्ष्मीजीको भंडारभरपूर हो. ईजो संमत् १९२९ मिति भादवा सुदी १ सुं लगायेने मिति भादवा सुदी १५ सुधोमेल नकलजमा परच रोकडको छै लाभ सुप घणो होईजो.

४१२८॥ श्रीमम्बईपाते भाई गणेशदास ठाकुरदासका जमा हमारे घर साहा जोग रु. हुंडी चलणका.

१०००) नकल पाना ४० आसौज सुदी ९ हुंडी १ तुमारे उपरलीपी ईठासूं हमारी रापा गणेशदास किसानजीपास भादवा वदी ९ थी दीन ४५ पीछे १०००) गणेशदास किसानजीके लेपे.

८००) नकलपाना ४४ सावण वदी ९ हुंडी १ रु १०००) श्रीरतलामकी हमारे पाते तुमा भेजी मगनी रामजी वभुतसिंहजी

२५०१। भाईगणेशदास किसानजीके लेपेहुंडी २रु. २०००) श्रीमम्बईकी तुमाना दीनी गणेशदास ठाकुरदास उपरलिपी इठासूं हमा रापा तुमारे पासथी दीन ४५ पीछे साहाजोग रु. हुंडी चलणका.

१२५०) नकलपान ४० भादवा वदी ९ प्रत २५

१०००) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुरदासका जमा हमारे घर. २५०) श्री हुंडावणपतेजमा.

उपरा लपी श्रीमम्बईसूं १२५१। नकलपान ५९ भादवा
 गणेशलाल सोभागम- सुदी ७ हुंडी १ लीपी मिति
 लकी रापा हमारे पास भादवासुदी ७ प्रत २५ = ७
 मारफत तुमारी सावण ५०० । श्रीमम्बई पाते
 वदी ९ थी दीन ५१ पीछे गणेशदास ठाकुर-
 प्रत ८० । लेपे चिट्ठी तु दासके जमा ह-
 मारी सावणवदी १० सूं मारे घरु.
 ८०० । मगनीरामजी ६२५ । श्रीमम्बई पाते
 वभुतसिंघजीके गणेशदास ठाकुर-
 लेपे. दासका जमा ह-
 मारे घरु.

१०३२। नकलपान ४६ सावण
 सुदी १० हुंडी १ रु. १०००
 श्रीजैपूरकी तुमा हमारे
 पाते श्रीजैपूरना गणे-
 शदास नारायणदास ना
 भेजी सुपरामगंभीरमल
 उपर लिपी श्रीमम्बईसूं
 गणेशलाल सोभागम-
 लकी रापा तुमारे पास
 सावणसुदी १० थी दीन
 ५१ पीछे प्रत ३। लेपे
 चिट्ठी तुमारी सावण
 सुदी ११
 १००० । श्री जेपूर पाते
 भाई गणेशदा-

१२६। श्रीहुंडावणपाते
 जमा.

२५०१।

४२७० । श्रीमम्बईपाते भाईगणे-
 शदास ठाकुरदासके लेपे
 हमारे घरु साहाजोग रु.
 हुंडी चलणका.

८०० । नकलपान ४२
 आपाठ सुदी १५
 हुंडी १ रु १००० ।
 श्रीगंतलामकी ह-
 मारे उपरा लपी
 हमारे पाते श्रीम-
 म्बईसूं तुमारी ग-

स नारायणदास
के लेपे हमारे
घरु
३२॥) श्रीहुंडावण पाते
लेपे.
७९६।) नकलपाना ४७
सावण . सुदी १
हुंडी १ रु. १०००)
श्रीमन्दसोरकी ह
मारे पाते तुमाभे-
जी गणेशदास पु-
नमचंद्र उपर लि-
पी श्रीमम्बईसूं
गणेशलाल सो
भागमलकी रापा
हमारे पास मा-
रफत तमारी सा-
वणवदी १ दीन
५१ पीछे साहा
जोग रु हुंडी
चलणका प्रत
७९॥ =) चिह्नी
तुमारी सावणव-
दी २ सू
७९६।) श्रीमदसोरपाते

पा गणेशलाल
सोभागमल पास
आसाद सुदी ५ थी
दीन ५१ पीछे प्र-
त ८० लेपे.

८००) मगनीराम
जी वभुत-
सिधजी-
का जमा.

१०००) नकल पाना ४३
आसोज सुदी ९ हुं-
डी १ श्रीमुम्बईकी
लेणी भेजी गणेश-
लाल सोभागमल
उपगलिपी ईठासूं
मगनीराम वभुत-
सिधजी रापा ह-
मारे पास भादवा
सुदी ९ थी दीन ४५
पीछे

१०००) मगनीरा-
मजी वभु-
तसिधजी-
का जमा.

१०३५) नकलपान ४९ साह

पेतसीदास गो-
विंदरामके लेपे
हमारे घर.

५००) नकल पाना ५९

काती वदी ७ हुंडी

१ तुमारे उपराल

पी ईठासूं हमारी

रापा गणेशदास

किसनाजी पास

भादवा सुदी ७ थी

दीन ४५ पीछे

जीमे हुंडी १ रु.

१०००) मधे रु.

५००) तुमारे घर

मांडा.

५००) गणेशदा-

स किसना

जीके लेपे

४१२८॥॥)

५८०५) भाई मगनीरामजी वभु-

तसिंघजीका जमा सा-

हाजोग रु. हुंडी चलणका

१०००) नकलपान ४१

भादवा वदी ११

हुंडी १ हमारे उप

वणसुदी १० हुंडी १

रु. १०००) जे-

पूरकी गणेशदास

नारायणदास उ-

परा लपी हमारे

पाते तुमारा राषा

नेणसुप मुलता-

नचंद पास साव.

ण वदी १० थी

दीन २१ पीछे-

प्रत १०३॥) लेपे

चिड्डी तुमारी सा-

वण वदी ११ सुं

१०००) श्रीजैपुर

पाते भा-

ई गणेश-

दास ना-

रायणदा-

सका ज-

मा ह-

मारे घर.

३५) श्री-

हुंडावण-

पातेजमा.

१०३५) नकलपान ४६ सा-

रा लिषी श्रीमु-
म्बईसुं गणेश-
दास ठाकुरदास
की राषा गणेश-
लाल सोभागमल
पास आसाढ
सुदी १५ थी
दीन ५१ पीछे.

८००) श्रीमुम्बई पाते
गणेशदास ठाकुर
दासके लेपे हमारे
घरु

२००) श्री हुंडावण पाते
लेपे

१२५०) नकल पान ४२
भादवावदी ९ हुंडी
१ रु १०००) श्री
मुम्बईकी तुमारी
लीनी गणेशलाल
सोभागमल उप-
रालिपी ईठासुं
तुमारी राषा हमा-
रे पास भादवा
वदी ९ थी दीन
४५ पीछे प्रत
२५) लेपे

वणसुदी १ हुंडी
१ रु. १०००)
श्रीजैपुरकी वटाणी
भेजी सुपराम
गंभीरमल उपरा-
लपी ईठासुं मगनी-
रामजी वभुतसि-
घजीकी राषा
हमारे पास सावण
वदी १० थी दीन
२१ पीछे प्रत ३ ॥
लेपे तुमारी चिड्डी
सावण सुदी १
सुं नावे मांडा
१०३५) भाई मगनीराम-
जी वभुतसिघ
जीका जमा.

४००) नकलपाना ६१ सावण
सुदी १ हुंडी १ रु.
१०००) श्रीरत-
लामकी हमारे
उपरालिपी तुमारी
राषा गणेशलाल
सोभागमल पास
सावण सुदी १ थी
दीन ५१ पीछे जणे

१०००) श्रीमम्ब-
ईपाते गणे
शदास ठाकुर-
दास के
लेपे हमारे
घरु.

२५०) श्रीहुंडा
वणपाते लेपे

१३००) नकलपाना ४८ श्रावण
वदी १० हुंडी १ रु.
१०००) जेपूरकी तुमारी
लिपी ईठासूं तुमारी
रापा हमारे पास सावण
वदी १० थी दीन २१
छे प्रत ३०) लेपे.

१०३५) श्रीमम्बई पाते
गणेशदास ठाकुर
दासके लेपे.
हमारे घरु.

२६५) श्रीहुंडावण
खाते लेपे-

१०००) नकलपान ५०
भादवासुदी २ हुंडी
१ हमारे उपरा
लीपी श्रीमम्बईसूं

मधे हुंडी रु. ५००)
हमारे घरु प्रत ८०
लेपे तुमारे कीनी
सो चिह्नी तुमारी
सावण सुदी १ सूं
जमापरच कीना.

४००) ठाकुरसी
तेजपालका
जमा.

४२७०

३२४६।) भाई मगनीरामजी
वभुतसिंघजीके लेपे साहा-
जोग रु हुंडी चलणका.

१०००) नकलपाना ४३
भादवा सुदी १५
हुंडी १ तुमारे
उपरा लिपी श्री
मम्बईसूं गणे-
शलाल सोभा-
गमलकी रापा
हमारे पास
मारफत गणे-
शदास ठाकुर-
दासकी साव-

गणेशदास ठाकुर-
दासकी रापा ग-
णेशलाल सोभा-
गमल पास आ-
पाढसुदी १५ थी
दीन ५१ पीछे.

१०००) श्रीमम्बई पाते गणेश-
दास ठाकुरदा-
सके लेपे तुमारे
घरु

१२५५) नकलपान ५६ भादवा
सुदी ७ हुंडी १ रु १०००
मम्बईकी तुमारी लीनी
गणेशलाल सोभागमल
उपरा लिपी ईठासंतुमारी
रापा हमारे पास मिती
भादवासुदी ७ थी दीन ४५
पीछे प्रत २५॥ लेपे
१२५५ श्रीमम्बईपाते ग-
णेशदासठाकुरदा-
सके लेपेतुमारेघरु

५८०५)

५१३५) श्रीमम्बईपाते भाईगणे-
शदास ठाकुरदासका ज-
मा तुमारे घरु साहाजो-

णवदी ९ दीन
५१ पीछे

८००) श्रीमु-
म्बई पा-
ते गणे-
शदासठा-
कुरदास-
का जमा
हमारे
घरु.

२००) श्रीहुंडा-
वणपाते जमा.

१२४६) नकलपाना ५१ भादवा
वदी १३ हुंडी १ रु. १०००)
श्रीमुम्बईकी तुमाना
दीनी गणेशदास ठाकुर-
दास उपरा लिपा ईठा-
सू हमारी रापा तुमा
पास भादवा वदी १३
थी दीन ४५ पीछे. प्रत
२४॥ =) लेपे.

१२४५) श्रीमम्बई पाते
गणेशदास ठा-
कुरदासका जमा
तुमारे घरु.

ग रु. हुंडी चलणका.

१०००) नकलपाना ५२ भादवा
वदी १४ हुंडी श्रीरतलाम
कीलेणीआई मगनीराम
वभुतसिघ उपरालिपी
श्रीवम्बईसूं गणेशलाल
सोभागमलकी रापा
तुमारे पास आसाढवदी
८ थी दीन ५१) पीछे.

१०००) मगनीरामवभु-
तसिघजीके लेपे

२४५) नकलपाना ५१ भादवा
वदी १३ हुंडी १ रु. १०००
मम्बईकी तुमारे पाते
तुमारे उपर लिपी ईठासूं
हमारी रापा मगनीराम
वभुतसिघ पास भादवा-
वदी १३ थी दीन ४५
पीछे प्रत २४॥) लेपे.

१२४५) मगनीरामवभु-
तसिघजीके लेपे

१०००) नकलपाना ५२ भादवा-
सुदी ६ हुंडी १ श्रीरतलामकी
तुमारे पाते श्रीअजमेरसूं
हंसराज गंभीरचंद भजी
धनरुपमल वागमलउप

११) श्री हुंडावणपाते
जमा.

१०००) नकलपान ५२
भादवा वदी १४ हुंडी
१ तुमारे उपरा-
लीपी श्री मुम्बईसूं
गणेशलाल सोभा-
गमल की रापा
गणेशदास ठाकु-
रदास पास
आपाढ वदी ८
थी दीन ५१ पीछे

१०००) श्रीमम्ब-
ईपाते
गणेशदास
ठाकुरदा-
सका जमा
तुमारे घर.

३२४६)

१०००) श्री जैपुरपाते भाईग-
णेशदास नारायणदासके ले-
पे हमारे घर नकलपाना
४६ असोज सुदी १ हुंडी
१ श्री जैपुरकी हमारे पा

रा लिपी श्रीअजमेरसूं
धनरूपमल वागमलकी
रापा तुमारेपास मारफत
हंसराज मेघराजकी मि-
ति सावणसुदी १५ थी
दीन २१ पीछे.

१०००) धनरूपमल रा-
जमलके लेपे.

३२६५) नकलपाना ५४ भादवा
सुदी ७ हुंडी १ रु. १०००
श्रीमम्बईकी तुमारे पाते
इदोरसूं हंसराज मेघराज
भेजी सुरतराम रायभान
उपरा लिपी श्रीजेपूरसू
लछमणदाससिवादासकी
रापा सवाईराम हिंमत-
राम पास मारफत पदम-
सीतेजसीकी भादवा वदी
१ थी दीन ५१ पीछे प्रत
२६॥-) गया मितीईसु
दी वटाई सो तुमारी ज-
मा किनी

१२६५) सिवलाल मो-
तीलालके लेपे

६२५) नकलपाना ५९
भादवासुदी ७ हुं-

ते मम्बईसूं गणेशदास
ठाकुरदास भेजी सुपरा-
म गंभीरमल उपरा लिपी
श्रीमम्बईसूं गणेशदास
सोभागमलकी रापा ग-
णेशदास ठाकुरदास पा-
स गावण वदी १० थी
दीन ५१ पीछे साहा
जोग रु. हुंडी चलणका-
१०००) श्रीमम्बई पाते
गणेशदास ठा-
कुरदासका ज
मा हमारे घरु.

२०००) श्रीमंदसोर पाते पेत-
सीदास गोविंदरामके लेपे
हमारे घरु हुंडी २ श्री
मंदसोरकी लेणी भेजी
गणेशदाम पुनमचंद उ
परा साहाजोग रु हुंडी
चलणका

१०००) नकलपाना ४७ भादवा
सुदी ७ हुंडी
१ लिपी श्रीमम्बई
सू गणेशलाल सो-
भागमलकी रापा
हमारे पास मार-

डी १५.१०००) तुमारे उपर लीपी इठाम् ह मारी रापा गणेशदास किसनाजी मगनीराम वभुतसिघ पास भादवा सुदी ७ थी दिन ४५ पीछे तीके मधे हुंडी रु० ५००) हमारे घर मांडी प्रत २५ लेये. ६२५) गणेशदास किसनाजी के लेये.

५१३५

१०००) श्रीजेपुरपाते गणेशदास नारायणदासका जमा हमारे घर नकल पाना ४५ आसोज वदी १ हुंडी १ तुमारे उपरा लिपी हमारे पाते श्री मुम्बई ग-

फत गणेशदास ठाकुरदास मम्बई पातेकी सावण वदी १ थी दिन ५१ पीछे. ७९६।) श्रीमम्बई पाते गणेशदास ठाकुर दासका जमा हमारे घर २०३॥) श्री हुंडावण पाते जमा.

१०००) नकल पाना ५६ भादवा सुदी १० हुंडी १ लिपी श्रीइंदोरमूं फतेचंद सेवगकी रापा हंसराज मेघराज श्री इंदोरवाले पास भादवा वदी १ थी दिन ५ पीछे.

९९६।) श्री इंदोरपाते हंसराज मेघराजका जमा तुमारे

३॥) श्री हुंडावणपाते जमा-

२०००)

गणेशदास ठाकुरदासकी
रापा नेणसुप. मुलतान-
चदपास सावण वदी १०
थी दीन ५१ पीछे स-
हाजोग रु. हुंडी चल-
णका.

१०००) श्रीमुम्बई पाते
गणशदास ठा-
कुरदासके लेपे
हमारे घर.

००) श्रीइंदोर पाते भाई हंस-
राज मेघराजका जमा ह-
मारे घर नकलपाना ५८
मिती काती वदी ७ हुंडी
तुमारे उपर लिपी ह-
मारे पाते श्रीमुम्बईसुं
गणेशदास ठाकुरदासकी
रापा गणेशलाल सो-
भागमल पास मिती भा-
दवा सुदी ७ थी दीन ४५
पीछे साहाजोग रु हुंडी
चलणका

१०००) श्रीमुम्बई पाते
गणेशदास ठा-
कुरदासके लेपे
तुमारे घर.

४०२१) श्री मुम्बईपाते भाई
गणेशदास ठाकुरदासके
लेपे तुमारे घर साहा-
जोग रु. हुंडीचलणका.

१०००) नकलपाना ५०
भादवा सुदी २
हुंडी १ हमारे उ-
परा लिपी तुमा-
री रापा गणेश-
लाल सोभाग-
मल पास आ-
पाठ सुदी ११ थी
दीन ५१ पीछे.

१०००) मगनी-
रामव-
भुतसिं-
घका
जमा.

१२६५) नकलपाना ५८
भादवासुदी ७ हुं-
डी १ रु. १०००)
श्री इंदोरकी तुमा
हमारी नेसाणी-
की कीनी हंसरा-
ज मेघराज उप-
रा लिपी तुमारी

५००) ठाकुरसी तेजपालका ज-
 मा नकलपाना ६२ मिती
 आसोज वदी ६ हुंडी १
 हमारे उपरा लिपी श्रीमु-
 म्बईसूं गणेशदास ठाकुर-
 दासकी रापा गणेशलाल
 सोभागमलपास सावण
 सुदी १ थी दीन ५१ पीछे
 साहाजोग रु. हुंडीचलण
 का जीमेंहुंडी १ रु १०००
 मधे रु. ५००) नेमाजी
 पेमराज जोग सीकारी.
 ५००) श्रीमम्बईपाते ग-
 णेशदास ठाकुरदास-
 के लेपे तुमारे वरू-
 ५००) नेमाजी खेमराजका जमा
 नकलपाना ६२ मिती आ-
 सोज वदी ६ हुंडी १ हमारे
 उपर लिपी श्रीमम्बईसूं
 गणेशदास ठाकुरदासकी
 रापा गणेशलालसोभाग-
 मलपास सावण सुदी १ थी
 दीन ५१ पीछे साहाजोग रु
 हुंडी चलणका जुमले हुंडी
 रु. १०००) मधेरु ५००

रापा गणेशलाल
 सोभागमलपास
 भादवा सुदी ७
 थी दीन ४५ पीछे.
 १०००) श्रीइंदो-
 र पाते हंसराज
 मेघराजका ज-
 मा हमारे वरू
 २६५) श्री हुंडावणपाते
 जमा
 १२५६) नकलपाना ५६
 भादवा सुदी ७ हुं-
 डी १ रु. १०००) श्रीमम्बईकी तु-
 मारे पाते तुम-
 ना भेजी गणेश-
 लाल सोभागम-
 ल उपरालिपी इ-
 ठासूं मगनीराम
 वसुततिंघजीका
 रापा तुमारे पास
 मारफत हमारी
 मिती भादवासु-
 दी ७ थी दीन ४५
 पीछे भाव प्रत
 २५॥=) लेपे.

कीठाकुरसी तेजपाल
जोग सिकारी.

४००) श्री मम्बईपाते ग-
णेशदास ठाकुरदास
के लेपे हमारे घर

१००) श्री हुंडावण पाते
लेपे.

९९६) श्री इंदोरपाते हंसराज मे-
घराजका तुमारे घर नकल
पाना ५५ भादवा सुदी ७
हुंडी १ रु. १०००) श्रीमं-
दसोरकी तुमा वटाणी भेजी
गणेशदास पुनमचंद उपरा
लिपी श्री इंदोरसूं फत्त-
चंद सेवगकी रापा तुमारे
पास भादवा वदी १ थी
दीन ५ पीछे साहाजोग
रु हुंडी चलणका प्रत
रु. ९९॥ =) लेपे वटाईगई
मितीसुधी.

९९६।) श्रीमंदसोरपाते पे
तसीदास गोविदरा-
मके लेपे हमारे घर

११३१५॥ - ॥) श्रीतालपाते-
भाईरामजी कालु-
रामका जमा तुमारे

१२५५) भाई म-

गनीराम

वभुतासि-

घजीका

जमा

१।) श्री-

हुंडावण

पाते

५००) नकलपाना ६१

आसोज वदी ६

हुंडी १ हमारे उ-

परा लिपी तुमारे

रापा गणेशलाल

ठाकुरदास पास

सावणसुदी १ थी

दीन ५१ पीछे हुंडी

रु. १०००) जणी

मधे रु. ५००)

निसाणी हमारे

घर मांडी.

५००) नेमाजी पे-

मराजका जमा.

४०२१।)

५९॥ = श्रीतालपाते भाई रामा

जी कालूरामके लेपे तु-

घरु आफीमकी
बटी तथा चीक तु
मारो वेचो जणी-
का जमा परच
कीना उपनाका
पाना २ तुमाना
उतार भेजा जणे
मजव.

६४१६॥ ॥ नकलपाना ६६
कातीसुदी १ आफी-
मकी बटी मण.
२३। ॥ १= ॥ भरप
री प्रत ६९ लेपे
परासूं तुमारी वेची.
६४९३॥= ॥ असल बटी-
मण २३। १= ॥
प्रत ६९

७८= ॥ वाद परचका
२७।= ॥ आडतरु ६४९३॥= ॥
६॥।- ॥ दलाली मण
२३। प्रत।

१।= ॥ धरमादाय प्रत- ॥ मण
२= ॥ ॥ परचुरणपरच मण
प्रत देड आना

मारे घरु नकल पाना ६४
मिती सावण सुदी ६ जी
करा थैला मण ६ तुमारे
बंधाया जणेका मण २८॥
जीकरा बंधाई परचका
प्रत २- ॥ ॥ मण १ लेपे
६९॥= ॥ श्री आफीमके
परचपाते जमा.

८६३२॥= ॥ ॥ बगसीराम मंगल-
चंदके लेपे.

६६०६ ॥ ॥ नकलपाना ६६ काती
सुदी १ आफीम की बटी
मण २३। १= ॥ परा प्र-
त ६९ ॥ लेपे परासूं
तमाना दीना १ जणे-
का नावे मांडा हस्ते
दलाल रघजी कोठारी
तथा नाहालचद.

६४१६॥ ॥ श्रीतालपाते
भाई रामजी
कालूराम का
जमा तुमारे
घरु.

३९- ॥ श्रीआडतपा-
ते जमा.

४११ । हासल मण ३० का
प्रत ११ = १

८ = ११ ।

५४१५११ । वाकी परा वगसी-
राम मंगलचंदके
लेपे.

५९००११ - १ नकलपाना ६७
सावण सुदी ५ जीकरा
थेला मण ६ तुमारा
वेचा जणेको चीक
मण ३४ । परा प्रत
४३१११ । लेपे बेचा तीरा
५९९३१११ । असलचीक
मण ३४ ।
प्र० ४३१११ ।

९३१ = ११ । वादपरचा घाट
३० । आडत रु ५९९२१११ ।
प्रत ११ ।

८११ - १ दलालीका प्रत ।
मण १

४९११ । हासलमण ३६ प्रत
११ = १ मण १

३१ । पग्चुरण पग्च प्रत - ११ ।
२ = १ धरमादाय प्रत - १

५१११ । श्री दलाली
पाते जमा.

११ = १ श्रीधरमादायपा-
ते जमा.

४११ । श्रीहासलपाते
जमा.

२ - १११ । श्रीआफीमके
परचपाते जमा
५५०५१ । ११

३०२७१ = १ नकलपानदा७सावन
सुदी ५ चीक मण १ ७ ।
प्रत ४३१११ = १ लेपे
तुमाना दीनाजणेका
जमापरच कीना.

२९७३१ = १ श्रीताल
पाते राम
जी कालू-
रामका
जमा तुमारे
घरु.

२३१ = १ श्रीआडत ।
पाते जमा

४१ - १ श्री दलाली-
पाते जमा

मण १

९३=॥॥

५९००१-॥॥ बाकी परा

२९२७॥=॥ ठाकुरसी
उदेरामके लेपे.२९७३॥=॥ बगसीराम
मंगलचंदके
लेपे.

५९००१-॥॥

११३१५॥॥-॥॥

९०॥॥ श्रीहासलखातेजमा मिति
सावण सुदी ५ जीकराथेलानग ११ श्रीतालका आ
याजणीके हासल मण ६६

को प्रत १॥=॥ लेपे ४१॥॥

नकलपान ६६ मण ३०

४९॥॥ नकलपाना ६८

चीकमण ३६

९०॥॥

००

६४॥=॥ बगसीराम मंगलचंदके
लेपे ४१॥॥ २३॥=॥२६=॥ ठाकुरसीदास
उदेरामके लेपे.

१॥॥=॥॥ श्रीआफीम

परच प

जमा.

१-॥ श्री धरमादा
पाते जमा.

३०२७॥=॥

८६३२॥=॥॥

२९८३॥॥ भाई ठाकुरसी उदेर
मके लेपे नकलपान

६६मिती सावण सु

५चीकमण १७॥॥ प्र

४३॥॥=॥ लेपेपरासं

माना दीनो जणीक
नावे मांडा.

२९२६॥॥=॥॥ श्रीता

पाते रामज

कालूरामका

जमा तुमा

घरु.

२३॥=॥॥ श्रीआडतपा
ते जमा॥२६=॥ श्रीहासलपा
तेजमा४॥ श्रीदलालीपा
ते जमा॥

८६=) श्रीआडत पाते जमा
बटी तथा चीक तालवाला
रामाजी कालूरामको बेचो
तकर आडतका प्रत ॥)
सत १ लेपे.

४७-॥) नकलपाना ६८ सावण
सुदी ५ चीक मण ३४.
३०॥=) बेचवालपासे रु.

५०९३॥।।)

१७=) लेवालपासे प्रत=) धडी १

४७=॥)

२३=॥) ठाकुरसीदासउदेराम
के लेप.

२३॥=) वगसीराम मंगलचंदके
लेपे.

३९-॥) नकल पाना ६६काती
सुदी १ वटी २३।१= की

२७=॥।।) बेचवालपास रु.
५४९३॥=॥ प्रत -॥.

११॥=) लेवालपास
प्रत ॥) मण १

३९-॥) वगसीराम मं-
गलचंदके लेपे.

८६=)

१॥=) श्रीअफीमका
पर्वपातेजमा.

११-) श्रीधर्मादाय-
पातेजमा.

२९८३॥।।)

१०००) धनरूपमल राजमलके
लेपे नकलपाना ५३ भाद-
वा सुदी ६ हुंडी तुमारे
उपरा लिपी श्रीअजमेरसूं
धनरूपमल वागमलकी
रापागणेशदास ठाकुरदा-
सका मम्बईवाले पासेमा-
रफत हंसराज गंभीरचंद-
की सावण सुदी १५ थी
दीन २१ पीछे साहाजोग
रुप्या हुंडी चलणका

१०००) श्रीमम्बईपाते
भाई गणेशदास
ठाकुरदासका ज-
मा तुमारे वरु.

१२६५॥=) सिवलालमोतीलाल
के लेपे नकलपाना ५४
मिती भादवा सुदी ७
हुंडी १ रु. १०००) श्री
मम्बईकी तुमाना दी-

१११=) श्रीदलालीपातेजमाआ-
फीमकी बटी तथा चीक
तालवालाको बेचो जणी
का दलाली रा.

६॥॥-) नकलपाना ६६
कातीसुदी १ बटी मण

२३॥=)

६॥॥-) बगसीराम
मंगलचंद-
के लेपे.

८॥-) नकलपाना ६८
सावण सुदी ५ ची-
कमण ३१ प्रत ।

११) ठाकुरसीदास
उदेरामके लेपे.

११) बगसीराम मं-
गलचंदके लेपे

१११=

६६) श्रीआफीमकेपरच पाते
जमा.

६९॥=) नकलपाना ६४
सावण सुदी ५ ची
कमण २८॥ रा-
माजी कालूराम
की वधी जणीका

नी सुरतरामराय भा-
ण उपरा लिपी श्री-
सवाई जैपूरसुं लछ-
मणदास सिवदासकी
रापा सवाईराम हिंम-
तराम पास मारफत
पदमसी तेजसीकी भा-
दवावदी १ थी दीन ५१
पीछे साहाजोग रु.
हुंडी चलणका प्रत
२६॥-) लेपे मितीया
को व्याजभावमेलिनो-
१२६५) श्रीमम्बई पाते
गणेशदास ठा-
कुरदासका ज-
मा तुमारे घर
॥=) श्रीहुंडावण
पाते जमा.

२८०००) २९००) ३९००) २७००) ३ = ॥॥

३०८८० = ॥॥)

८४७॥) श्रीहुंडावणपाते लेपे.
२००) नकलपाना ४१ मिती
आपण सुदी ५ हुंडी १
रु. १०००) श्रीरत-
लासकी हमारे पाते

सावणवदी ९ हुं-
डी १ रु १०००)
रतलामकी हमारे
पाते मम्बईसूं
आई जणीका प्र-
त ८०) लेपे.

२०) मगनीराम बभ्रुत-
सिंघके लेपे.

२०३॥) नकलपाना ४८ सावण
वदी १ हुं डी रु. १०००)
श्रीमंदसोरकी हमारे
पाते मम्बईसूं आई प्रत
७९॥ =) लेपे.

२०३०॥ श्रीमंदसोरपा-
ते पेतसीदास गोविंद-
रामके लेपे हमारे

२) नकलपाना ५२ भादवावदी १३
हुं डी १ रु १०००) मम्बईकी
मगनीरामबभ्रुतसिंघने दीनी
मम्बईवाले गणेशदास ठाकुर-
दासके पाते कीनी तीरीहक
साहीरा प्रत =)

११) भाई मगनीराम बभ्रुत-
सिंघके लेपे.

॥ =) नकलपाना ५५ भादवा
वदी १ हुं डी रु. १०००)

५००) उणाको घरु मं-
डाई वाकी रु ५००)
हमारे घरु मंडाई
जणी की हुं डावण
का प्रत ८०) लेपे ल-
गासो नावे मांडा.

१००) मम्बईपाते भाईगणेश.
दास ठाकुरदासका जमा-
हमारे घरु.

८४७॥)

३१७२७॥ = ॥ शुं

३१७२७॥ =) ॥

५८०५ भाईमगनीरामजी बभ्रुत-
सिंघजीके लेपे रोकड
पाना ८८ रोकडा दीनासो
नावें मांडा इस्तेरामरप.
१३००) सावणसुदी १०
१२५० भादवावदी ९
१०००) भादवा वदी ११
१०००) भादवा सुदी २
१२५५) भादवा सुदी ७

५८०५)

१०००) गणेशदामकिसनाजीके
लेपे रोकडा पाना ८८ भा-

मम्बईवाले गणेशदास ठा-
कुरदासके पाते बटाईतीरा
॥=) सिवलाल मोती-
लालके लेपे.

३॥नकलपाना ५५ भादवा
सुदी७हुंडी १ रु. १०००)
मंदसोरकी इंदोरसूं हंसरा-
ज मेघराज बटाणी भेजी
तीका प्रत. ९९॥=)

३॥) श्रीमंदसोरपातेपे-
तसीदास गोविंदरामके
लेपे हमारे घरु.

१।) नकलपाना५७भादवासुदी
७हुं० १रु. १०००) मम्बईकीमग-
नीराम बभ्रुतसिघकी लीपी
मम्बईने भेजी तीका.

१।) श्रीमम्बईपाते गणेशदास
ठाकुरदासके लेपे तुमारे घरु.

२६५) नकलपाना५८ भादवा सु
दी७हुंडीरु. १०००) इंदोरकी
हमारे नीसाणीकी श्रीमम्बईसूं
गणेशदास ठाकुरदास कीनी
ती काई हुंडावणका प्रत २६॥

२६५) श्रीमम्बईपाते गणे-
शदास ठाकुरदासके लेपे
तुमारे घरु

दवा वदी १४रोकडा तुमारे
वदले मगनीराम बभ्रुतसि-
घना दीना सो नावें मांडा
१०००) तथा मगनीराम
बभ्रुतसिघका जमा.

५००) ठाकुरसी तेजपालके लेपे
आसोजवदी ६ रोकडादी-
नासो नावें मांडापाना ८९
५००) रोकडा

५००) नेमाजी पेमराजके लेपे
रोकडा पाना ८९ आसो-
जवदी ६ रोकडा दीना सो
मांडा.

५००) रोकडा

१००००) श्रीतालपाते भाईरा-
माजी कालूरामके लेपे
तुमारे घरु रोकडपाना
८९ हुंडी १ हमारे उ-
परा लिपी तुमारी रापा
पुनमचंद दीपचंदपास
भादवा वदी १ थी दीन
११ पीछे साहाजोग
रु. हुंडी चलणका.

१००००) रोकडा परपरा
मगनीरामजी बभ्रुत
सिघलीना दीना

॥२६। ॥ भादवा सुदी ७ हुंडी
 रु ५०० ॥ मम्बईकी गणे-
 शदास किसनाजीना
 दिनी जणीका प्रत
 २५ = ॥ लेपे जमा रु.
 १००० ॥ मधे रु. १००० ॥
 तुमारे घरु मांडा प्रत
 २५ ॥ लेपे तीकेरी
 हक साईरासुदा नकल
 पाना ५९

१२६। ॥ गणेशदास-किस
 नाजीके लेपे.

३५ ॥ नकल पान ४८
 सावण वदी १० हुंडी
 १ रु. १००० ॥ जै-
 पुरकी हमारे पाते मम्ब-
 ईसुं कीनी तीकाइ
 हुंडावणका प्रत ३॥ ॥

३५ ॥ श्रीमम्बईपाते गणे-
 शदास ठाकुरदासके
 लेपे हमारे घरु

१०८६॥ = ॥

३१७२७॥ = ॥ ॥

३१७२७॥ = ॥ ॥

१। ॥ श्रीमहालक्ष्मीजीको भंडा-
 रमरपुर होई जो

३७। ॥ श्रीआफीमकेपरचपातेलेपे
 रोकडपाना ८४ भादवावदी १
 रोकडा रकम आई जणीका
 दीना हस्ते घासी हमाल.
 ६ ॥ तेल आलसको मण १
 १। ॥ पालीपीसी मण १
 ५ ॥ पाली आपी मणी १
 २५ ॥ हमालीका तथा बंधाईका
 परचुरणका चुकतादीना.

३७। ॥

६८। ॥ श्रीहासलपातेलेपेरोकडा
 पाना ८५ सावणसुदी ११
 जीकरा थेला नग ११ ताल
 का आया जणीके हासलका
 सायर चबुतरे दीना.
 ६८। ॥ रोकडा हस्ते भागी-
 रथजी

१। ॥ श्रीपरचपाते लेपे रोकड
 पाना ८६ भादवासुदी २
 साहीको मसालो आयो
 तीका दीना.

८६। ॥ श्रीवीसी परचपाते लेपे
 रोकडपाना ८६ भादवासु-
 दी ३ रकम आई तीका
 रोकडा दीना.

- ३१००१) श्रीपोते बाकी.
 ३२४६।) मगनीराम वभुतसिध
 का जमा रोकड पाना ८८
 रोकडा आया सो जमा
 कीना.
 १२४६।) भादवासुदी १३
 हस्ते रामरप.
 १०००) भादवावदी १४
 तुमारेवदले गणे-
 शदास किस
 नाजीसूं पटा.
 १०००) गणेश
 दास
 किस-
 नाजी
 केलेपे.
 १०००) भादवासुदी १५
 हस्ते रामरप.

३२४६।

- ३५०१) भाईगणेशदास किसना
 जीका जमा रोकड पाना
 ८९ रोकडा आया सो
 जमा कीना.
 २२५०) भादवावदी ९
 हस्ते नालाजी.

- ६३) गेहूँ मणी १
 २१) धीरत मण १
 १०॥) मूग मण.
 १०॥) चणा.
 ५) वेसावर परच.
 ५) गुड मण १
 ११) पांड मण १
 २) लकडीको गाडो १
 १) श्रीधरमादाय पाते लेपे रोकड
 पाना ८६ भादवा सुदी १

 १६०००) १८००) १७०) २८)
 १॥) १७९९९॥
 २३६३४।) पाते बाकी.

 ४१६३३॥) ॥

१॥ श्रीपरमेश्वरजी ।

१॥ व्याजको फेलानेकी रीत सादेकी रकम बराबर.

१०००) माह सुदी ४
११०१) चैत सुदी ९
१०००) सावण सुदी १५

३१०१)

५८॥-॥॥ वाकीलेणासं० १९३०
सावण सुदी १५ सुदी

३१५९॥-॥॥)

३१५९॥-॥॥

१॥ व्याजकी फेलावट

✓
रु० १०००) माह सुदी ४
रु० ११०१) चैत सुदी ९
रु० १०००) सावण सुदी १५

१०००) कार्ती सुदी १
११०१) पोह वदी ५
१०००) फागुण सुदी १५

३१०१)

५८॥-॥॥ व्याजका सावण सुदी
१५ संमत १९३० सधा आंक

१२१००) प्रता ॥॥) लेपे

३१५९॥-॥॥)

३१५९॥-॥॥)

५८॥-॥॥ वा० ले० सा० सु० १५
३१००० रु. १०००) कार्ती सुदी १
म ३) ३ दीन
४०००० रु. ११०१ पोह वदी ५ म.
३॥) ४ दीन
५०००० रु १००० फागुण सुदी १५
५)

१२१००)

६०॥) व्याजका प्रता) सेकडा

✓
१॥॥॥) वाद छुटका प्रत) ॥॥
५८॥-॥॥ वाकी परा

और व्याजको फेलानो जेठे महिना का तो अंक जितना रुप्या जितना आंक एक महिनेका और दीनोंमें पण जितना रुप्या होवे उतरा आंक एकदीनका काचा होवेछे सो आंक ३० को आंक १ लेपणो और दीन दीनका आंक करणा जितना रुप्या होवे उतरा आंक माहे सो एक आंक दबा देणो जो आंक दबे उणीनो तीन गुणा देने फेर तीसके एकके हिसासे होवे तो अंक दबने बाकीरहे जिसमें मिलायदेणा और विंदी देवे तो जितना आंक होवे उतना आंक दीन २ का करणा इसतरहसे व्याजका कचा दुकडा करणा और कचादु-कडाका रुप्या करणाके जितरा आंक व्याजका होवे उणामा सुदो आंक दाबदेणा और दो आंक दबे जणेका जीस भावसे व्याज होवे सो प्रत १ सेंकडासे करके दो आंक दबे फेर बाकी रहे जीमे मिलादेणा. सो व्याज प्रत १ लेपे तो इतरा होवे छे और आठ आणाको व्याज होवे तो आधा करणा और प्रत '।।।' को व्याज होवे तो पुणा करणा दो आंक दाबणा जणेका बाकी रहे जणेना'

१॥ हिसाब १ भाई गणेशदास किसनाजीको

७००० संमत् १९२७ काती सुदी १	५००० संमत् १९२६ जेठ सुदी १
२००० सं० १९२८ चेतवदी १	११०० सं० १९२७ माह सुदी ३
२१५१ सं० १९२९ चेतवदी २	१५०० सं० १९२८ जेठ वदी ५
१००० सं० १९३० जेठ सुदी १५	३५०० सं० १९२९ चेत सुदी ३

१२३२॥ वाकी लेणा संमत्
१९३० कातीसुदी १
सुधा.

७०८३॥

७०८३॥

४३२॥ व्याजका अंक ८९२८६॥
प्रत. ॥ ३॥ काती सु० १
लेपे सं १९३०

७०८३॥

७०८३॥

१२३२॥ वाकीलेणा काती सुदी
१ संमत् १९३० सुधा.

१॥ व्याजकी फेलावट छे.

६१३॥ रु. ७००० संमत् १९२७
काती सुदी १
रु. ५०००

६१३॥ रु. २००० संमत् १०२८
चेत वदी १

रु ९०००

रु. ११०००

रु २१५१ सं १९२९
चेत वदी ३

रु ४०००

रु. १७५१

रु. १००० संमत् १९३०
जेठ सुदी १५

८५०० रु. ५००० संमत् १९१६
जेठ सुदी १

१२०९० रु. ११०० सं १९२७
माहसुदी ३ रु २०००
१२०९० रु. ९००० ११३॥
दी रधा

१९६२६॥ रु. १५०० सं १९२८
जेठ वदी ५१०८५३॥

रु. ११०० १० ४४००
८७७३॥ रु. ४०००
२२ २४००

४९६८३॥ रु ३५५१ सं १९२९
चेतसुदी ३ रु. १७५१
११॥ १४४०० रु.
१००० ११४॥ २४००

रु.८००) बाकीलेणा संम-
त् १९३० काती
सुदी १ सुधा.

६१३।

१९१४६।। रु. ८००।
१९।२ धा०

८९८९९।।

०

६१३। वाद तुमारा

८९२८६।।) बाकी हमारा.

०

४४६। =) व्याजकाप्रत।। सेकडा

०

१३।। =) वात छुटका प्रतना.

४३२।।) बाकी छुटता परा.

१॥ व्याज एकंदर फलाणो जणेरी केफियत इसमुजव है. जिस धणीका हिसाब होवे उसका लेपाकरना होवे तो जदे जिस मिती सुधा लेपा करे जिस मिती सुधी दोनो रकम देपलेणी. व्याज जमाका होवे तो रकम जमाकीपेली लेणी लेपकी व्याज होवे तो पेली लेपके रकम लेणी जिस मिती सुधो व्याज जोडे जणे मिती सुधी रकम व्याजकी जोडणे रुपिया वरनामे मांडदेणा. जणीरी विगत पछा आगाडी दोप नामे लरी हे.

१॥ लेपो भाई पदमसीजी तेजसीशी श्रीजेपूरवालेको तुमारे घर संमत १९२९ कातीसुदी १ से लगाई संमत १९३० काती सुदी १

०

७०००। मिती कातीसुदी १ बाकी

६०००। मिती मागसरवदी १३

०

६०००। मिती मागसरवदी

१०००। मिती मागसरसुदी

४०००]मिती माह वदी ३
 ८०००]मिती फागण वदी १
 ४५००]मिती चैत सुदी १
 ५०००]मिती जेठ सुदी १
 ९०००]मिती आपाढ वदी २
 २०००]मिती सावण सुदी १
 ३०००]मिती आसोज वदी २
 २०००]मिती काती वदी ७

४९५००

२९३५॥=वा ०ले०सं० १९३०

काती सुदी १

५२४३५॥=

५२४३५॥=

५०००]मिती पो वदी
 २५००]मितीह माहसुदी
 १५०००]मिती चैत वदी
 १००० मिती चैत सुदी
 २०००] मिती वैशाख सुदी
 १०००] मिती आपाढ वदी
 १५००] मिती आसोज वदी

५२०००

४३५॥=]व्याजकासंमत् १९३०

काती सुदी १ सुधा अंक

८९९३३।प्रत ।=।।।घाट

५२४३५॥=]

२९३५॥=] बाकी लेणा संमत्

१९३० काती सुदी १

१॥ व्याजकी फेलावट भाई पदमसीजी तेजसीजी श्रीजैपुरवा-
 लेकी संमत् १९३० काती सुदी १ सुधा.

४३५॥=] व्याजका काती सुदी १ सं. १९३० सुधा अंक

८९९३३।प्रत ॥" त घाट

४४२८६६॥ रकम लेपे पासेकी

५७५०० रु. ५०००] मागसर वदी १ मास ११॥

११०००० रु १००००] मागसर सुदी १ मास ११

५२५०० रु ५०००] पोह वदी १ मास १० ॥

रु. ८००) वाकीलेणा संम-
त् १९३० काती
सुदी १ सुधा.

६१३।

१५१४६।। रु. ८००)
१९।२ धा०

८९८९९।।

~

६१३। वाद तुमारा

८९२८६।।) वाकी हमारा.

~

४४६। =) व्याजकाप्रत।। सेकडा

~

१३।। =) घात छुटका प्रतना.

४३२।।) वाकी छुटता परा.

१।। व्याज एकंदर फलाणो जणेरी केफियत इसमुजव है. जिस धणीका हिसाब होवे उसका लेपाकरना होवे तो जदे जिस मित्ती सुधा लेपा करे जिस मित्ती सुधी दोनो रकम देपलेणी. व्याज जमाका होवे तो रकम जमाकीपेली लेणी लेपकी व्याज होवे तो पेली लेपके रकम लेणी जिम मित्ती सुधो व्याज जोडे जणे मित्ती सुधी रकम व्याजकी जोडणे रुपिया वरनामे मांडदेणा. जणीरी विगन पछ। आगाडी दोष नामे लयी है.

१।। लेपो भाई पदमसीजी तेजसीशी श्रीजेपूरवलिको तुमारे घर संमत १९२९ कातीसुदी १ से लगाई संमत १९३० काती सुदी १

७०००) मित्तीकातीसुदी १ वाकी

६०००) मित्तीमागसरवदी १३

५०००) मित्ती मागसरवदी

१०००) मित्ती मागसरसुदी

३०००] मिती माह वदी ३
 २०००] मिती फागण वदी १
 १५००] मिती चैत सुदी १
 १०००] मिती जेठ सुदी १
 १०००] मिती आपाढ वदी २
 १०००] मिती सावण सुदी १
 १०००] मिती आसोज वदी २
 १०००] मिती काती वदी ७

४९५००

१९३५॥ = वा ० ले ० सं ० १९३०
 काती सुदी १
 ५२४३५॥ =

५२४३५॥ =

५०००] मिती पो वदी
 २५००] मितीह माहसुदी
 १५०००] मिती चैत वदी
 १०००] मिती चैत सुदी
 २०००] मिती वैशाख सुदी
 १०००] मिती आपाढ वदी
 १५००] मिती आसोज वदी

५२०००

४३५॥ = व्याजकासंमत् १९३०
 काती सुदी १ सुधा अंक
 ८९९३३।प्रत। = ॥ घाट

५२४३५॥ =]

२९३५॥ =] वाकी लेणा संमत्
 १९३० काती सुदी १

१॥ व्याजकी फेलावट भाई पदमसीजी तेजसीजी श्रीजैपुरवा-
 केकी संमत् १९३० काती सुदी १ सुधा

४३५॥ =] व्याजका काती सुदी १ सं. १९३० सुधा अंक
 ८९९३३।प्रत ॥ त घाट

४४२८६६॥ रकम लेपे पासेकी

५७५०० रु. ५०००] मागसर वदी १ मास ११॥

११०००० रु १००००] मागसर सुदी १ मास १३

५२५०० रु ५०००] पोह वदी १ मास १० ॥

(१२८)

विद्याज्ञानप्रकाश ।

२२५०० रु. २५०००] माह वदी १ मास ९
११२५०० रु. १५०००] चैत वदी १ मास ७।।
७०००० रु. १००००] चैत सुदी १ मास
११९३३।रु.२०००] वैशाख सुदी २ मास ६।१ घाट
४४३३।रु.१०००] आषाढवदी ३ मास ४।।२ घाट
१५०० रु. १५००] आसोज सुदी १।१ घाट

४४२८६६।।

३५२९३३। बाद रकम जमा पासेरी
८४००० रु. ७०००] काती सुदी १ मास १२
५५०० रु. ५०००] मगसरवदी १३ मास १।३ उपर
३७७३३।रु.४०००] माहव दी ३ मास ९.।२ दी.घा.
६८००० रु. ८०००] फागण वदी १ मास ८।।
३१५०० रु. ४५०००] चैत सुदी १ मास ७
२५००० रु. ५०००] जेठ सुदी १ मास
४०२००] रु. ९०००] आपाढवदी २ मास ४।।घाट
६०००] रु. २०००] सावण सुदी १ मास ३
४४०० रु. ३०००] आसोज वदी २ मास १।।.१ घाट
६०० रु. २०००] काती वदी ७ दीन ९

३५२९३३

८९९३३ । बाकीरहा.

४४९।।] =।। प्रत] लेपे.

०८

१४ ॥ वाद छूटका

४३५॥ = ॥ वाकी परा सिरें

लेपा जो रकम सरांसे विके जिसका.

। रुपया १ की सेर ५ जदी मणका करणा सो रुपे एक की जितरा सेर होवे उतरा मणका रु. ४० ॥ लेपणा और जिता आना भरको आना एक काटणो. और रुपे एक की जिता आना भर होवे तो उतरा सेरां का रुप्या १६ हुवा और जितरा मणका रु. ६४० ॥ हुवा इसीतरे से जितरा मणाको लेपो घालो उतराको हिसाब जोडदेणा.

४०८ ॥ रुप्या १ ॥ की ५५ जदी मण ५१ ॥ का मण ५ का रु. ४० ॥ हुवा.

२४० ॥ रुप्या १ ॥ की ५३ = जदी मण २० ॥ का कतरा मण ३ ॥ ५५ का रु. ४० हुवा.

११२ ॥ रुप्या १ ॥ की ५१ = ॥ भर जदी मण १ सेर २ का कितरा सेर ६ का रु. १६ हुवा. भर हुई.

५११ ॥ रुप्या १ की ५५ ॥ जदी रु. = ॥ कि कितरी.

३८५६ ॥ रुप्या १ ॥ की ५१ ॥ भर जद मण ३९५६ ॥ का कितरा हुवा मण ६ ॥ का रुप्या ६४० ॥ हुवा.

भर ५१४ - रुप्या १ की ५३ ॥ ॥ जदी रुप्या ३ ॥ ॥ की कितरी सो जिताना जिता गुणा देने उणाको अघ घटायने रु. ॥ ॥ बधाय देणो.

मण भर ८ - ॥ रु १, की ५४ ॥ जदी रु. ४ ॥ की कितरी सपो-

ण इणे मुजब गुणाकार देने आधा बधाने रु.--) फेर
बधाय देणा.

मण॥) ५। रु. १ की ५४॥) जदी रु. ४॥) की कितरी होई सो रुपे
की जता सेर घालने उता रुप्याकी पूछे तो उतागुण देने
साठमें उताई बधाय देणा. फेर रु. १) बंधावणो.

मण ॥३.॥) ॥ रुप्या १ की ४॥ =) जदी ४॥ =) की कितरी हुई
पांच गुण देने चोथी पाती घटायने न बधाई देणा,

१॥ हिसाब धान वगैरेका जो रकम मा- णीयासूं विके जणीका लिषते.

। जितने रुपे माणी होवे ने मण एकका पूछे तो जिते रुपे
माणी जिता अंक मण एकरा लेपणा और रुपे एकका अंक
१२ काटणा. जो माणी मण १२ की होवे तो कदास माणीमें
मण ओछाहोवे तो रुपे १ का अंक माणीमे जितना मण होवे
उतरा काटणा और सेर १ को पूछे तो पण जिते रुपे माणी
होवे उतरा अंक सेर १ का लेपणा. और रु.--) का अंक जि-
ता मणाकी माणी. होवे उणीसूं अढाई गुणा करणे. उतरा
आकारो आनो १ का काटणो और रु. १ को लेपो. पूछे
तो रु. १ का अंक माणी मण १२ की होवे तो अंक ४८०)
लेपणा और जो माणीमें मण कमजादा होवे तो उतरा म-
णकें सेर होवे उतरा अंक रुप्या १) का लेपणा और जिते
रुपे माणी घाले उतरा आकारो ५१ लेपणो और इणीसुबी
जल्दी किया चोवतो रु. १ का अंक जिते मणाकी माणी

होवे उणीसूं अढाया करणा और जिते रुपे माणी उता आ-
नाका अंक सेर लेपणो. और रु. - १ को घाले तो पण मणीमें
मण १२ १ के होवे जदी तो आने एकका अंक ३० लेपणा.
सेर एक भरका अंक जिते रुपे माणी उतारा लेपणा. फेर जि-
ता मणकी माणी होवे उणीसूं आढाया अंक रु १ का पण
लेपणा और रु. - १ का पण लेपणा रुप्याको लावणो जदी तो
जिता रुपे माणी उता आणा अंको सेर १ काटणो और
आनेको लावणो जदी जिते रुपे माणीउता अंकरोऽ१ गुणनो.
१॥१-१ रु. २१॥१ १ को माणी १ १ जदी मण एकको काई होवे
के मण १ का अंक २१॥१ १ रु. १ १ का अंक १२ काटणा.

७॥२ रु २७=१ माणी १ १ जदी सेर १ को काई हुवो सो
सेर १ का अंक २७=१ आने एकरा ३० काटणा
आने एककी अंगरेजी पाया १२ होवे सो अंक २॥
पाई १ का काटणा सो आनो पूणने पाई २ हुई
मण ५१ रु. ३१॥१ को माणी १ १ जदी रु. १ १ को कतरो हुवो
माणी १२ की जदी अंक ३० हुवाऽ१ भरका अंक
१॥१=१॥काटणा जदी मण ५ हुई.

भरऽ१॥१=१ रुप्या ३१ १ को माणी १ जदी रु - १ को कितरो
हुवो अने एकरा अंक ३० हुआ सेर १ भरका अंक
३१ १ काटणा सो सेर॥१=१ भरहुवो

लेषो मणासूं रकम विके जणिका लिषते.

जिते रुपे मण १ जदी रु. १ १ को पूछे तो अंक ४० गुणता

और जिते रूपे मण उता अंकरो ५१ काटणो और आने-
 को पूछैतो मण अंक ४० लेपणा. जणे भाव होवे उतरा अं-
 कारो आने एक भरका करणा और जिते रूपे मण १ होवे तो
 उतरा आनाकी ५२॥ लेपणो और जिते रूपे मण होवे ने सेर
 एकरो लेपो पूछे तो सेर एकरा आंक उतराई लेपणा और
 आने एकरा आंक २॥ काटणा और आने एक भरको लेपो
 पूछे तो पण आनिते रूपे मण होवे उतरा लेपणा अने-
 अंक ४०-
 काटणा इणतरेहसूं लेपा पुछे जणेको जवाब देणो
 ५१॥-
 मण १ का रु० २५॥
 जदी रु० १ की कीतरी होई
 आंक ४० लेपणा ५१-
 भरका अंक २५॥ काटणा
 ५-
 मण १ का रु २२॥
 जदी रु-
 की कितरी आंक ४०
 हुवा अने-
 भरका अंक २२॥
 काटणा.
 III=
 मण १ का रु ३५॥
 जदी ५१ को काई हुवो सेर एकरा
 अंक ३५॥ हुवा प्रत -
 का अंक २॥
 -
 दमंडी १॥
 मण १ का रु. ४५॥
 जदी आना-
 भरको
 अंक ४५॥
 हुवा आनेका अंक ४०-
 काटणा.

हिस्साव मोतियोंका.

जतना रतीको दाणो केवे तो उतराना उतरा गुण देणा
 फेर आंकना आंक एकको रु. ॥-
 गुणना फेर जतरा
 आंक गुणाकारका होवे उतरा कचा अंक फेर गुणना जण
 को अंक को एक चव गुणो ओ आगल नव आणाके हि-

साबका होवे उणांके सामील कचा आंका कापणा ९६ के हे-
साबसूं होवे सो सामील करके हिसाव वताय देणा.

चव १४। १ मोतीको दाणो १ रु. को जणका अंक २५ हुवा
सो अंक १ का रु. ॥—) के हिसाबसूं चव १४—) हुवो
और अंक २५ काचा फेर बधिया जणांका ९६ के हि-
साबसूं रु ॥) १ हुवो सो चव १४—) के सामल करदि-
यो सो चव १४—) तुकड १ हुवो सो जणे भाव चव
होवे उणे भावका दाम जोड देणो.

१६०९।—) मोतीका दाणा ५ टांक २ रु ५ टांक एककीरु. २४
जणेकी रु. ५३ होई जणेनां तरपन गुण देने जो आगे
उपर करी जण मुजब चव करणे जतग दाणा होवे
उणांको भाग दे देणो चव १६०९।—) हुवा उणा नाप-
को भाग दीयो ३२१॥—) चव हुवा.

जरीब बनानेकी रीत.

और मुलकोमे जरीब बनानेकी और गीति हे लेकिन
यहां ये कायदा है कि ५ पांच आदमीके पांच हात और पांच
ऊंगलीसे नापे तो एक बीसवा यानी एक गद्दा होता है. इस
तरेहसे बीस गद्दा १०० सौ हातके नाप ले वोही जरीब होती
है और अंगरेजी फूटसे पेमायस जरीबकी हुई तो फी गद्दा
फूट ७ इंच ४ के हिसाबसे फूट १४६ इंच ४ की है


बिधा विश्वा करनेकी रीत.

गद्दा गद्दामे गुणा कग्नेसे विसवानमी और गद्दा जरीब-

में गुना करनेसे विसवा और जरीब जरीबके गुणा करनेसे बिघा होते हैं, और बीस २० विसवांसीका एक विसवा और बीस २० विसवाका एक बिघा होता है.

रीत पेमायश त्रिकोन पेत.


समबाहु त्रिकोन यो पेत है कि जिसकी तीन भुजा बराबर हो और दो समकोण हों और दो भुजा बराबर हो और दोसमकोण हो उसकी ये रीत है कि, कोनेसे सामनेकी भुजा पर लंब डाले चाहे लंबव चाहे भुजाकी जिसपर लंब गिरा है दोनोंमेंसे एकका आधा करके आपसमें जरब यानी गुणाकरे हांसील उसका छेतरफल होगा.




तीन भुजा बराबर समकोणकी ये रीत है कि य कोनेसे रा भुजा ल पर लंब डाला तो २८ गट्टा आये और ३० गट्टाकी ३० तीनी भुजा हैं इसवास्ते लंबके आधे गट्टा १४ और भुजा ल र की जिसपर लंबगीरा गट्टा ३० है १४, ३० में गुना करनेसे ४२० बीसवांसी उसके बीघे १) १ विश्वा यही छेतरफल हुवा.

क ख ग त्रिकोणकी जिसकी दो भुजा बराबर हैं उसपर

क कोनसे लंब भुजा खग पर लंब क प डाला तो २२ गट्टा और क ख भजा २० गट्टा है. और उसीपर लंब गिरा है दोनोसे एक यानी भुजाके १० आधे हुये आपसमे गुना करनेसे २२० वीसवांसी उसका विसवा ११ यही छेतरफल हुवा.




इस त्रिकोनकी प क भुजा नापी तो गट्टा ३० और क व भुजा नापी तो गट्टा ४० आये उनमें एकके आध किये तो ३० के आधे १५ उसको ४० मे गुना करनेसे ६०० विसवानसी जिसका डेढ १॥ विघा छेतरफल हुवा.




इस त्रिकोनके थ द भुजापर लंब सिधमे पडा तो गट्टा २० आये और उसके आधे गट्टा १० भुजा थ द गट्टामे (५२) गुना करनेसे ५२० वीसवांसी उसके १११ विघा छेतरफल हुवा.

रीत चोकोन.




इस पेतके चार भुजा बराबर हैं आपसमें और चारो समको-
नहैं उसकी ये रीत है दो भुजाको नापके आपसमें गुना कर-
नेसे छेतरफल होताहै मसलन य र भुजा गढा और य व गढा
(४०) आपसमेंगुना करनेसे १६०० विसवानसी जिनकी विघा
४ छेतरफल हुवा.




जिस पेतके चार भुजा बराबर आपसमें हो और सम-
कोन न हो तो उसपर वमुजब इसके यानी व ग भुजापर

लंब डाला तो गट्टा (३६) और उसको ४० म गुना करनेसे १४४० विसवानसी उसका ३॥२ विघे छेतरफल हुवा.

लंबा पेत.



जिस पेतके आमने सामनेकी दो दो भुजा आपसमें बराबर हो और चारो सम कोन हो उसके अंक छोटी एक बडी जाको नाप आपसमे गुना करनेसे छेतरफल होताहै सलन डत भुजा गट्टा ९० और डत भुजा गट्टा २० आपसमें ना करनेसे वीसवानसी १००० उसका विघा २॥ तरफल हुवा



इसतरहांके पेतकी ये रीत हैं कि इसके आमने सामनेकी दो भुजा आपसमे बराबर हैं और चारो समकोन नहीं हैं

इस वास्ते छज भुजापर लंब सीधमें डाला तो गट्टा ३६
आये उसको ६० गट्टामें गुना करनेसे चझ वीसवानसी
२१६० जिसके विज्ञा ५।५३ छेतरफल हुवा।




टेढा षेतकी रीत.

इसमें पेहले चौकोन क स
म घ नापा तो क स भुजा गट्टा
१८ और घ म भुजा गट्टा २०

दोनोको जोडा तो ३८ उसके आधे १९ हुये और दोनो
भुजाके २२।२२ है उसके २२ हुये आपसमें गुना करनेसे
४१८ वीलवांसी १५५।।। १३ छेतरफल हुवा और इसीतरहां
चौकोन घ न प व ५५। ४८ गट्टाको जोडा तो १०३ उसके
आधे ५१।। और दोनो भुजा ३७ । ३७ जिसका औसतमें
३७ गुना करने १९०५।। विसवांसी जिसके विघा ४।।।।। छे-
तरफल हुवा और त्रिकोन म ग व को इसरीतसे की भुजा
ग व गट्टा ८ के आधे ४ और भुजा म व गट्टा १७ आप-
समें गुणा कीधा तो ६८ वीसवानसी जिसके वीसवां ५३।३ छे-
तरफल और त्रिकोन प फ य है. उसमें प भुजापर ५
य र लंब गट्टा १८ को भुजा फ प गट्टा २८ आधे के १४
मे गुना करनेसे वीसवांसी जिसके २५२ वीसवा ॥ २ ॥ २ ॥
छेतरफल जुमला ६।३ ।।। छेतरफल हुवा.

गोल घेत.



शीत लंब व गोलाई दरयाफत करनेकी.

जिसका लंबापनी कुतर मालूम हो उसको २२ मे गुना करके ७ का भागदेदो हासील गोलाई यानी मुहीत होगा मसलन श ह लंबपानी कोतर गट्टा ३६ उसकी २२ में गुणा करनेसे ७७० हुये ७ पर भाग देनेसे ११० गोलाई यानी मुहीत हुवा और अगर गोलाई याने मुहीत मालूम हो उसको ७ गुना करके २२ पर तकसीम करनेसे हांसील वयानी कोतर होगा. मसलन गोलाई ११० है उसको ७ गुना करनेसे ७७० हुये उसका २२ पर भाग देनेसे ३६ उ ई लंब यानी कोतर हुवा.

पेहली शीत छेतरफल निकालनेकी.

गोलाई यानी मुहीत लंब यानी कोतर दोनोको आधे आधे करके आपसमें गुना करनेसे छेतरफल होता है मिसल उ इ गोलाई यानी मुहीत गट्टा ११० व लंब यानी श ह कुतर

गट्टा ३५ दोनोंकी आधे ५५। १७॥ गोलाई लंबको आपसमें गुना करने ९६२॥ वीसवानसी २। ३५२॥ छेतरफल हुवा।

दूसरी रीत.

अगर कोतर यानी लंब मालूम है उसका वरग याने उसको उसीमें गुना करके हासीलको ७८५ में गुनाकरके १००० भाग दो हासील छेतरफल होयगा मसलन लंबयाने कोतर गट्टाका बरां.

$\frac{35 + 35 + 765 - 765}{1000} = 969\frac{1}{2}$ वीसवांसी जिसका विधा १।३५१ $\frac{1}{2}$ छेतरफल हुवा,

तीसरी रीत.

अगर गोलाई यानी मुहित मालूम हो उसका वरगयानी उसको उसीमें गुना करके ७९६ में गुना करके १०००० पर भाग दो हासील छेतरफल होगा मसलन गोलाई यानी मुहित गट्टाका वरग करके ७९६ में गुणा करके १०००० का भाग दिया जैसे $990 + 990 = 92900 + 796 = 9639600 \div 100000 = 9639\frac{6}{1000}$ अपवर्तत यानी मुपत सीर भीनयानी कसरको करनेसे ९६३ $\frac{6}{1000}$ वीसवांसी जिसका विधा २।३५३ $\frac{6}{1000}$ छेतरफल हुवा,

विगत हिसाबकी.

और जिता आना कोन होवे और उता मणका करणा होवे तो उतराना उतरा गुणा देने एक विंदी धरदेणी तो उता मणका रु. होय जावे. $११५५॥ = १$ रु. $॥ = ॥$ से २५ जदी मण $१०॥$ का क्या हुवा के पुणाअगारेना पुणा आणारे गुणादी-मातो रु. $११५॥ - १$ हुवा और उसके उपर मिंडी दी तो रु. $११५५॥ = १$ हुवा.

और रु. की $४॥ =$ जदी रु. $१४॥ = १$ कि कितरी होईतो पन रेना पांच गुण देणा और पनेरेना और पांच वीसका = १ आन गुणके हिसाबसूं पनरेपचु ७५ माहें सूं वीस दुणाचालीस आनाका $२॥$ वादकरके उपर बाकी रहे जिसमे आना पाव और मिलादेना सो मण $१॥२॥ १$

१॥ जगाकाचांदा जो मकान बणावे जिसकी राह इस मुजब है सो इसतरहसो जो चाले तो चांदेका झगडा मकान बणानेवालेका न रहे.

। जगा बणती है उसमे चांदा दो होता है एक तो जगा बणानेवालेका और दूसरा पडोसकी जगा इसतरहसे तरीका कदीमी है और जगा बणावे उसकी जगाकी मंजल ऊंची चढलेने पडोसकी मजल नीची रहे तो उचे चांदे चढनेकी कीमतका रु. जगा बणाणेवाला और उस पडोसका हक नीची जगावालेका इतना रहे. अब्वल

तो राजीनामा दूसरा उसके घरमें आला भंडारा एक चसमेमें इसका रहे एक चसमेमें नीचले जगावालेका रहे, और थंवा तथा वलचणी मगराका हक बराबर रहे.

और एक धणी जगा वणावे और उसका पडोसकी जगा बीर न रहे तो जगा बणाणेवाला उसवेरान जगा वालेसे कुछ देकर वणावे और कदाम जादाये उसका हकरपीयासे न वणावे देवे तो दूसरा चांदा वणाना होवे तो उसकी आपणी हदमें वणे तो पडोसका हक दिवाल उसचांदेमें कुछभी रहे नहीं अपनी मोज आवे सो करे.

। और एक जगा निची होवे पडोसकी जगा उंची होवे तो उस पडोसकी तरफ जाली वारी कुछबी रहे नही.

। और जगाके बीचमें रास्ता आयजावे तो जगामें जाली तथा वारी वे तलास कमें किसीका अटकणेका दाखल नही फकत सरकारके सिवाय.

। और जगा भीतडा गारेका बणे जिसकी मापणेकी यह रीत है इस मुलुकमे जगाकी भीता कतरीका उंची हाथ ३ और पना हाथ १ और लंबी कात्रा व हाथ ८ सूं लगायने हाथ २० तकका भी भाव रुप्या १ एकका होता है और इसमे भुरज तथा भीताकी दिवाल तथा चांदा होत है उसकी मापणेकी रीत इसतरेहसे है.

दिवाल बाहरसे हाथ ३० भीतरसे हाथ २८ ऊंडी हाथ ४ तो अठार्डस और तीसका भेला करने उसका आधाकर उसको चार गुणाकरणे जिस भाव होवे उसका दाम काटना

और जो पना डेढ़ा होवे तो डेढ़ा दाम देणा सवायी होवे तो सवाया दाम देणा और दुणा होवे तो दुणादेणा यह जमीन भापणा और इसतरहसे चांदहवी मापता है. इसतरेहसे उसकोवी दाम जुडते हैं.

और भुरज मापणे जावे एकदफे तो वारसेमापणा और एक दफे भीतरसे मापणा उणाका आधा करणा जै हाथ होवें सो दोनोका आधा धरणा और इस सिवाय ऊंची बहोत होवे तो उचार्डमे तीन जाँयगे मापणीमां थारे और गरभमे और गोडमे इण तीनोना भेलीकर और पीछे तीनको भाग देने और जमीन तथा आगे दोका भागकी जमीन होवे उणाना भेलीकर और दोनोका आधाकर जितनी जमीन ऊंची होवे उसका तो तीनका भागसे कर लबाईके बीचमें मिलाकर जिस भागकी निरप होवे उम भाव काट देणा, पानेके उपर लिपे मुजव.

और कुवाँ तथा तलाव पोदे उसकेवी नापकीमपती इसीतरेहसे होवे है के हाथ १० लंबी और १० हाथ चवडी और हाथ १ ऊंची उस पानेका भाव रु २७ से लगावने रु ४७ तकका होता है और अब पुदाई मापणा जब हाथोसे मापणो चवडी और लंबीका गुणा देणा और उंडीकुवी उसमुजव गुणा देने जितना सो होवे उतनाका भाव सेठेका चुका देणा ५७॥=॥ कुवा एक लंबा १३ चवडा हाथ ९ उंडा हाथा ११

प्रत ४॥७ सेकडा सो तेरे और नवकागुण ११७
हुवा और उसकु ११ गुणदिया तो हाथ १२८७
हुवा प्रत ४॥७ के हिसाव रु. ५७॥=॥७

१॥ और सठो वगैरे का नूंध तथा जमा परच करणेकी विगत इणीतरे.

१॥ और सटा लेणाचावे देणा जिसकूं नूंधणा इसमुजबका मिति उपर देणी.

। वोज १ गणेशदास किसनाजीको लीनो प्रत ६१।] लेपे हस्ते दलाल कुंदनमल सराफ चिट्ठी आई और लिपदी नी करनी.

१ जिसके पाते होवे उसके पाते करणी.

। और जमा परच करणेकी रीत नकलम.

१४७० गणेशदास किसनाजीके जमा मिति काती सुदी १

वोज प्रत ६१] लेपा तुमारे लीना हस्ते दलाल कुंदनमल

१४७० जिणपाते होवे उणीके नामें मांडणा.

। और पातेमें पण सटाका मेल इसमुजब पातापानाके नकलको पानो रु ५ का अंक सटा नग होवे सो करणा.

। पातो १ गणेशदास किसनाजीरे.

१४७० नकलपाना

आडतेके पाते पण इणतरे घालणा.

भाव काटणा.

१४७० नकलपाना.

नकलपान अडत परच

आडत

दलाली

रु. सम

इस तरहसे सेठको-

इस मुजबपातो सटाकी

विगत वही माह.

कवित्त.

श्रीपत सुजान श्रीवेरीसालजी महाराज यादव कुल गादी जेसल-
मेर कीतो भारीहै । लक्ष्मीनाथ इष्ट जाके अटल भंडार भरे
नारायणदास व्यास हुवा वोई अवतारीहै । ताके वंश हूके
पांचसे प्रतापी जान व्यासोका पडा जामें खुली गुलकारी है ।
मथुरादास आमोलप उनहूके वंशमे इस्ट महावीर वाके
चितमनसे धारीहै ॥ १ ॥ व्यासोमें सूरजके मंदिरकी पूजा होत
किला गढ वंका जेसलमेरका तो जंगी है । कुवा बुलासरगंगा
समान वाचेनकरे वसती वा जबरहे पुनवाः आनसके दुरगीहै ।
गडीसरतलाव परपूरणभरारहे आत्माराम कहे वाकीरअ-
य्यत सुशरगीहै । व्यास आमोलप ईस्टरसे वली हुकसदाफ
तरहे जाके महावीर संगीहै ॥ २ ॥ मथुरादास वैकुंठगये
तादिनकी वातकहूं अकलके सागर जाकी वडी हुसियारी हे ।
सवनकूं भलवान देके याखुसीरी जो सवैः आमोलपकूं
कया भाई यातुतो आज्ञाकारी है । ग्रंथकूं चलाय दीजो
छापामें छपाय जाय मोयंक भरोसा बडा तेरी अखत्यारी
है । कहे गुनी आत्माराम उमर करतूत ओ मथुरादास भये जगमे
यशपारी है ॥ ३ ॥

विद्याज्ञानप्रकाश ऐसो दूजो ना ग्रंथ कोई जगतको हिसाब सारो याहीमें पेहचानिये । एकसूं लगाय करोडतकको हिसाब जान ग्रंथकूं विचार फेर अकलमें जानिये । याके परस ते ज्ञान बुद्धि यश कीर्ति होत जो कोई पढेगा लाभ होवे बहुमानिये । आत्माराम कहै याते कोई मत दूररहो नीतिका हिसाब सब याहीमें जानिये ॥ ४ ॥

दोहा-व्यास हि मथुरादासजी, उमर कर गये नाम ।
मनुष्य नही वे देव थे, पोचे वैकुंठ धाम ॥ ज्ञान ध्यान परवी-
ण थे, पुण्य रूप थी जाय ॥ भलो केहीयो कोकण थे, ऐसा
ना कोई आज ॥ १ ॥

मथुरादास आज्ञा करी, आमोलपकूं आप । विद्याज्ञानप्र-
काशकूं, जलदी डलावो छाप ॥ आमोलष अरजी करे, चाकरकी
अरदास । हुकुम आपको शीशपै, हो वैकुंठो वास ॥ २ ॥

इति विद्याज्ञानप्रकाश सम्पूर्ण ।

व्यासमथुरादासकृत कविता तथा दुहो वणावे
जणमें दध अपर इतर छाटण इणीकी विगत.
दोहा-वरण छंदको बंदसे, तीन वरण गनमान ।
मनत्रयसत जर आठहै, अदपिंगल करत बपान ॥ १ ॥
हजवंन घरषुव आग्यो, अक्षर अशुभकेदान ।
कवित आदणीगल कहे, भूल न कबहूं आन ॥ २ ॥
मनभावे चारी सुचारहे, कवित आदसुपदान ।
अपर अशुभ चारु कहे, भूल न कबहूं आन ॥ ३ ॥
दोधनको विचार ॥ प्रगन लगन दोय मित्रहे, भगन यगन बिर-
तमान ॥ जगनरगन दोय शत्रुहैं, सगन तगन समजान ॥ ४ ॥

अंगरेजी चलन पैसेका कोठा

४ फार्दिंगका		१ पेन्स या		४ दोकडा
४ पेन्सका		१ ग्रेट		१५ दोकडा
१२ पेन्सकी		१ शिलिंग		॥ रुपया
४ शिलिंग	६ पें०	१ डालर		२। रुपया
५ शिलिंग		१ क्रोन		२॥ रुपया
६ शिलिंग	८ पें०	१ नोजल	३। रु	८ दोकडा
१९ शिलिंग		१ आंजल		५ रुपया
१३ शिलिंग	४ पे०	१ मारक	६॥ रु.	१५ दो०
२० शिलिंग		१ पौण्ड		१० रुपया
२१ शिलिंग		१ गिनी		१०॥ रुपया
२३ शिलिंग		१ करोलस		११॥ रुपया
२७ शिलिंग		१ मयडोर		१३॥ रुपया
२५ शिलिंग		१ जकोवश		१२॥ रुपया
३६ शिलिंग		१ जेनिस		१८ रुपया
२ शिलिंग		१ फोलोरिंग		१ रुपया
६ पेन्स		१ टष्टर		। आना

अंगरेजी सोनारोंकी तौल

२ ग्रैन	१ पेनिवेट	२० पेनिवेट	१ अश
१२ अंश	१ पाण्ड	अर्थात् पन	

अंगरेजी बेपारकी वस्तुकी तौल ।

१६	ड्राम	१ औंश	१६ औंश	१ पौण्ड
२८	पौण्ड	१ क्वार्टर	४ क्वार्टर	१ हण्डरोट
		२० हण्डरवेट	१ टन	

(१४८)

विद्याज्ञानप्रकाश ।

१४ पौण्ड	१ स्टोन	२ स्टोन	१ टाट
६। टाट	१ वे	२ वे	१ साक
१२ साक	१ लाष्ट		

डाक्टरोंकी तौल ।

२० ग्रैन	१ स्कुपल	३ स्कुपल	१ ड्राम
८ ड्राम	१ औंश	१२ औंश	१ पौण्ड

काठ जमीन आदि मापना ।

३ वारलेकरन	१ इंच	१२ इंच	१ फुट
३ फुट	१ गज	६ फुट	१ फादम
५। गज	१ पोल	४० पोल	१ फर्लांग
८ फर्लांग	१ मेल	३ मेल	१ लीक
	६९६ मेल	१ डिगरी	

चौकोर जमीन मापना ।

१४४ वर्ग इंच	१ फुट	९ वर्ग फुट	१ व० गज
३०। वर्गगज	१ व० पोल	४० वर्ग पोल	१ रुड
३ वर्ग रुड	१ एकर		

क्यूमेजर अर्थात् घन ।

१७२८ घनइंच	१ घनफुट	२७ घनफुट	१ घनगज
४ घनगज	१ लोड	४२ घनगज	१ टन
५० घनगज	१ टन या लोड काठ वजनमें		

कपडेकी अंगरेजी माप ।

२। इंच	१ नेल	४ नेल	१ क्वाटर
--------	-------	-------	----------

४ काटर	१ गज	५ काटर	१ इंग्लिशएल
६ काटर	१ फेरेंचएल	३ काटर	१ फेलेमिशएल

सरावकी माप

४ जिल	१ पैण्ट	२ पैण्ट	१ कार्ट
४ कार्ट	१ ग्यालन	१० ग्यालन	१ अनकर
१८ ग्यालन	१ रनलेट	२४ ग्यालन	१ टीआर्स
२ टीआर्स	१ पंचीअन	६३ ग्यालन	१ हगसेड
२ हगसेड	१ पाइप	२ पाइप	१ टन

वीरसरावकी माप

२ पैण्ट	१ कार्ट	४ कार्ट	१ ग्यालन
९ ग्यालन	१ फारकिन	१८ ग्यालन	१ किलडरकिन
३६ ग्यालन	१ वारल	५४ ग्यालन	१ हगसेड
२ हगसेड	१ वट	२ वट	१ टन

अन्नकी अंगरेजी माप

२ काट	१ पटल	२ पटल	१ ग्यालन
२ ग्यालन	१ पेक	४ पेक	१ बुशल
२ बुशल	१ स्टईक	४ बुशल	१ कम
८ बुशल	१ काटर	५ काटर	१ लोड
२ लोड	१ लाष्ट		

विलायती कोयलाकी माप

४ पेक	१ बुशल	३ बुशल	१ साक
३६ बुशल	१ चालडून		

(१६०)

विद्याज्ञानप्रकाश ।

गिनतीका कोठा

१२ को	१ डजन	१२ डजन	१ ग्रोस
२० को	१ स्कोर	१२०	को १ लांगहाण्डरेड
२४ ताव कागज	१ दिस्ता	२० दिस्ता	१ रीम
१० रीम	१ वेल्स		

अंगरेजी कालज्ञान

६० सेकन्ड	१ मिनीट	६० मिनीट	१ घण्टा
२४ घण्टा	१ दिन	७ दिन	१ हफ्ता

अंगरेजी मासका प्रमाण

३१ दिन जानेवारी	३१ दिन जुलाई
२८ दिन फेब्रुवारी	३१ दिन आगस्ट
३१ दिन मार्च	३० दिन सपटंबर
३० दिन अप्रैल	३१ दिन आक्टोबर
३१ दिन मै	३० दिन नवेम्बर
३० दिन जून	३१ दिन डिसेम्बर

४ वरस अंतर २९ दिनका फेब्रुवारी होता है।

मुंबई चलन पैसा

३ अद्धियां अंगरेजी पाईका । पाव आना. ४ पाव आनेका
१ आना १६ आनेका १ रुपया १६ रुपयाकी १ मोहर. ।

मरेहठी तौल

८ रत्तीका १ मासा । १२ मासाका १ तोला । २८ तोलाका
दोडी अरी सेर । ४० सेरका १ मण । २० मनकी खांडी ।

मुंबईमें सोनेरूपेकी तौल

२६ रत्तिया १ वाल. ४१६ ग्रेन ८ रत्ती अथवा

३३^१ वाल १ मासा. १४^{११} ग्रेन १२ मासा तथा
४० वाल १ तोला. १७९ तोलेका १ ग्रेन.

बेपारी लोगोंकी तौल

१ टांक २०४८८ द्राम ७२ टांकका १ सेर
११ अंश ३२ द्राम ४० सेरका १ मन
औ २८ पौड २० मन १ खांडी
५६० पौड.

मुंबईमें हीरा मोतीकी तौल

१०० दोकडेका १ आना १६ आनेका १ चव
१४^३ चव १ रत्ती २४ रत्ती १ टंक

चौरस जमीनकी माप

४ आंगुलकी १ मुठी ३५ मुठीकी १ काठी
२० काठी १ विसा २० विसा १ बीघा

चीनदेशकी तौल चलन

२^५ टांकका १ तोला १ रत्ती = ४ पन याने = ४ चोजा

चीनमें टुकडे चांदी सोनेके चलतेहैं

चीनमें टकशाल नहीं इसमें रुपये पैसे भी नहीं थे चलन डाल-
रका है सो भी और देशका है

१० कास की १ टुंदरी १० टुंदरी १ मास १० मास १ टेल
१६ टेल १ कचाटी १०० कचाटी १ पीकल १ टेल = ९ वाल ४^३ मुंबईके
मनका १ पीकल १ तोलाके ३००^३ कास.

जमीनकी माप

२४ अंगुलका १ हाथ ४ हाथका १ दंड या वांस

२००० दंडकी	१ गाइ	२ गाइ	१ गव्यूति या
२ कोस	२ गव्यूतिका	१ योजन या	४ कोस.

मुंबईमें अन्नकी माप

२ नवटांक का	१ पासेर	२ पासेर	१ टिपरी
२ टिपरी	१ सेर	२ सेर	१ अधपाईली
२ अधपाईली	१ पाईली	१६ पाईली	१ फरा.
८ फराका	१ खांडी.		

कण्डा या काठकी माप

२ अंगुलका	१ तसू	२४ तसू	१ गज
-----------	-------	--------	------

मुंबईमें निमककी माप

१०॥ अधोली का	१ फरा	१०० फग	१ आना
१३ आना	१ पास	२५ फरा	१ मुंडो
१ फरा=	१६७६१	१ आना=	१६७६१
२॥ टन=	१ आना	४० टन=	१ रास

अगरेजी और हिन्दुवोंका कालज्ञान

६० विपल का	१ पल	अंगरेजी	२४ सेकन्ड.
६० पलकी	१ घडी	अगरेजी	२४ मिनेट.
६० घडीके ८ प्रहर	१ दिन	रात अंगरेजी	२४ घण्टा
३० दिन	१ मास	१२ मास	१ बरस.

सरकारी चलन

१०० रेसका	१ पावला	४ पावला	१ रुपया.
-----------	---------	---------	----------

अगरेजी वक्त

६० सेकन्डका	१ मिनेट	६० मिनेट	१ अवर या घण्टा
-------------	---------	----------	----------------

२४ अवर	१ दिन	३६५ दिन	६ घण्टा का
१ जुलियन वरस	३६५ दिन	५ घण्टा ४८ मिनेट	४८ से-
कण्डका	१ सोलर वरस	३० दिनका	१ महीना.
१२ महीना	१ वरस	७ दिनका	१ वीक या
आठवाडा. ४ आठवाडा		१ महीना	५२ आठवाडे
और १ दिनका १ वरस.		१३ मास	६ दिनका
१ लीनर वरस.			

हिन्दुओंके महीना

संस्कृत	भाषा	संस्कृत	भाषा
१ कार्तिक	कातिक	७ वैशाख	वैसाख
२ आश्रहाण	अगहन	८ ज्येष्ठ	जेठ
३ पौष	पूस	९ आपाढ	आसाढ
४ माघ	माह	१० श्रावण	सावन
५ फाल्गुन	फागुन	११ भाद्रपद	भादो
६ चैत्र	चैत	१२ आश्विन	कुआर

हिन्दुओंके छः ऋतु ।

१ वसन्त-चैत वैशाख.	४ शरद-कुआर कातिक.
२ ग्रीष्म-ज्येष्ठ आपाढ.	५ हेमन्त-अगहन पूस.
३ वर्षा-श्रावण भादों.	६ शिशिर-माघ फागुन

मुसल्मानी महीना

१ मोह्ररम	५ जमादिउल्लअव्वल
२ सफ्फर	६ जमादिउल्लसानी
३ रविउल्लअव्वल	७ रजब
४ रविउम्सानी	८ मावान

९ रमजान
१० सव्वाल

११ जिल्काद
१२ जिल्हेज.

अथ ज्योतिष विचार

यह जानो कि जब हरएक बालक जनमते हैं तो उनके नाम रखनेकी रीत यह है कि जन्म होनेकी वेला जिस नक्षत्रका जो चरण होय उस चरणका अक्षर नामके अक्षरोमें प्रथम राखै. और एक नक्षत्रके चार चरण होते एक एक चरण १५ घडी रहताहै और सवा दो नक्षत्र अर्थात् ९ चरणकी १ राशि होती है. राशि १२ हैं.

१ मेष २ वृषभ ३ मिथुन ४ कर्क ५ सिंह ६ कन्या ७ तुला
८ वृश्चिक ९ धन १० मकर ११ कुम्भ १२ मीन.

२७ नक्षत्रोंके नाम

१ अश्विनी	१० मघा	१९ मूल
२ भरणी	११ पूर्वा	२० पूर्वाषाढा
३ कृत्तिका	१२ उत्तरा	२१ उत्तराषाढा
४ रोहिणी	१३ हस्त	२२ श्रवण
५ मृगशिरा	१४ चित्रा	२३ धनिष्ठा
६ आर्द्रा	१५ स्वाती	२४ शततारका
७ पुनर्वसु	१६ विशाखा	२५ पूर्वाभाद्रपद
८ पुष्य	१७ अनुराधा	२६ उत्तराभाद्रपद
९ आश्लेषा	१८ ज्येष्ठा	२७ रेवती.

अथ योगोंके नाम

१ विष्कम्भ २ प्रीति ३ आयुष्यमान ४ सौभाग्य ५ शोभन
६ अतिगण्ड ७ सुकर्मा ८ धृति ९ शूल १० गण्ड ११ वृद्धि १२ ध्रुव
१३ व्याघात १४ हर्षण १५ वज्र १६ सिद्धि १७ व्यतीपात

१८ वरीयान १९ परिघ २० शिव २१ सिद्धि २२ साध्य २३ शुभ
२४ शुक्ल २५ ब्रह्म २६ एन्द्र २७ वैधृति.

अथ करण

१ बव २ बालव ३ कौलव तैतिल ५ गर

६ वणिज ७ विष्टि

होटा चक्र अर्थात् नक्षत्रके चार चरणके चारों अक्षर ।

१ चु चे चो ल अश्विनी	१० म मी मु मे मघा	१९ जे जो भ भि मूल
२ लि लु ले लो भरणी	११ मो ट टि हू पूर्वा	२० भृ ध फ ढ पूर्वाषाढा
३ अ ई उ ए कृत्तिका	१२ टे टो प पि उत्तरा	२१ भे भो ज जि उत्तराषाढा
४ ओ व वि बु रोहिणी	१३ पु पा ण ठ हस्त	२२ खि खु खे खो श्रवण
५ वे वो क कि मृगशिरा	१४ पे पो र रि चित्रा	२३ ग गि गु गे धनिष्ठा
६ कु घ ङ छ आर्द्रा	१५ हू रे रो त स्वाती	२४ गो स सि सु शततारका
७ के को ह हि पुनर्वसु	१६ ति तु ते तो विशाखा	२५ से सो द दि पूर्वाभाद्रपद
८ हु हे हो डा पुष्य	१७ ननि नु ने अनुराधा	२६ दु था झ ञ उत्तराभाद्रपद
९ डि डू ड डो आश्लेषा	१८ नो य यि यु ज्येष्ठा	२७ दे दो च चि श्रवती

नक्षत्र नाडी भद्र

आदिनाडी	मध्यनाडी	अन्तनाडी
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
आर्द्रा	मृगशिरा	रोहणी
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
उत्तरा	पूर्वा	मघा
हस्त	चित्रा	स्वाती
ज्येष्ठा	अनुराधा	विशाखा
मूल	पूर्वाषाढ	उत्तराषाढ
शततारका	धनिष्ठा	श्रवण
पूर्वाभाद्रपदा	उत्तराभाद्रपदा	रेवती

जो वर कन्याके जन्म नक्षत्र एक नाडीमें पड़ें तो नाडी वेध लगता है. अर्थात् विवाह नहीं होसकता है.

अथ वर्ग विचार

जन्म नामके प्रथम अक्षरके अनुसार वर्ग होता है जैसे-

अवर्ग	कवर्ग	चवर्ग	तवर्ग
गोरुड	बिडाल	सिंह	सर्प
टवर्ग	पवर्ग	यवर्ग	सवर्ग
श्वान	मूस	मृग	मेघ

जिस वर्गका जिसके साथ जैसा भाव हो सोई जानो.

अथ वर्ण विचार

विप्रवर्ण	क्षत्रियवर्ण	वैश्यवर्ण	शूद्रवर्ण
कर्क	मेघ	कन्या	तुला
वृश्चिक	सिंह	वृष	कुम्भ
मीन	धनु	मकर	मिथुन

वरके वर्णसे अधिक वर्णकी कन्या अयोग्य है।

अथ नक्षत्र योनि ।

	गज	छाग
अश्विनी शतभिषा	रेवती भरणी	पुष्य कृत्तिका
नाग	श्वान	मूष
रोहिणी मृगशिरा	आर्द्रा मूल	पूर्वफा० मघा
मार्जार	गुरु	महिष
पुनर्वसु आश्लेषा	उत्तरा तीनो	स्वाती हस्त
मृग	व्याघ्र	वानर
ज्येष्ठा अनुराधा	चित्रा विशाखा	श्रवण पूर्वाषाढा
सिंह	अभिजित नकुल	योनि है ।
पूर्वफा० धनिष्ठा		

इन सबका भी वैर प्रीति लोकरीतिसे जानोगे ।

अथ नक्षत्र क्रमसे गण कहते हैं।

मनुष्य गण

३ उत्तरा ३ पूर्वा आर्द्रा रोहिणी भरणी.

राक्षस गण

कृत्तिका मघा आश्लेषा विशाखा शतभिषा चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा मूल

देवता गण

अश्विनी मृगशिरा रेवती हस्त पुष्य अनुराधा श्रवण स्वाती पुनर्वसु ।

अपने अपने गणमें प्रीति होती है और मध्यम देव मनुष्यकी प्रीति है तथा कलह देव राक्षसमें और राक्षस तो मनुष्यको खाताही है ।

इति ज्योतिष विचार ।

शिक्षाकी रीत.



- १ सूर्य उदयके समय देवता गुरुका स्मरण करना सवेरे उठ नहाय धोय लेना,
- २ पहले पूजा देवताकी करना
- ३ पीछे मा बापको नमस्कार करो
- ४ माता पिताकी आज्ञा विना कही जाना नही.
- ५ बैठनेको कहैं तो बैठो और उठनेको कहैं तो उठो
- ६ शिक्षा मानके गुरुके यहां पढने जाना.
- ७ पाटी खडी भूलना नही, नंगे पांव चलना नही
- ८ कपडा अच्छी तरह हरना
- ९ रस्तेमें अकेले जाना नही रस्तेमें कुछ खाना नहीं.
- १० ग्रह चलते दौडना नही, घेजाना फल खाना नही. मुँहसे भोडी बात बोलना नही
- ११ तमाशा देखनेको खडे रहना नही.
- १२ झूठ कुछ बोलना नही किसी का कुछ चुराना. नही.
- १३ झूठी साक्षी देना नहीं. किसी की जामिन होना नही.
- १४ कोई बुलावे तो आदरसे बोलना.
- १५ आवो, बैठोजी, कुछ जल-पान करोजी.
- १६ आतेहैं जी. लावते हैं जी. कहां पधारोगे जी ?
- १७ किसीको कही मारनां नही बहुत चढके बोलना नही.
- १८ पराई लडाई सिरपर लेके लडना नहीं.
- १९ अनजानकी चीज कुछ खाना नही.
- २० अनजानी बात कहना नही, बहुत किसीको हराना नही
- २१ रुपये विना बाहर निकलना नही.
- २२ बेजानी राह जाना नही.
- २३ बेपारमे किसीकी बराबरी करना नही.
- २४ अपनी गांठका भरोसा करना
- २५ लेना देना देखके करना.

- २६ लहनेका तगादा करना.
 २७ राठमें जोखम थोड़ी रखना,
 २८ खरच विचारकै करना.
 २९ गुमास्ता जानकर रखना.
 ३० गुमास्तेपर वही खाता छोड़ना नहीं.
 - ३१ गुमास्ता नादान होतो खाता अपने हाथ रखना वही खाता रोज मिलाये विना सोना नहीं
 ३२ खातेको बढने देना नहीं. रुपयकी थैली उलटकर रुपया लेना नहीं
 ३ चैसे लेन देन नकरना.
 ४ जोखम बीमाके विना छोडना नहीं
 ३५ मुनाफा बिना माल बेचना नहीं
 ३६ सबके साथ भलाई करना. पानीकी लकीर करना तिनका तोड़ना नहीं
 ३७ जीव जंतुको दवाना नहीं
 ३८ एकद्वारगीलहना लगाना नहीं
 ३९ बजारजाके सबका भाव पूछना
 ४० भले आदमीके आगे ऊंची नीची बात बोलना नहीं
 ४१ परस्त्री माँ बहनकर जानना

- ४२ माता पिताकी सेवा करनी
 ४३ बिना बुलाये बोलना नहीं
 ४४ जितना पूंछे उतना उत्तर देना.
 ४५ जीव पर दया करना.
 धर्मका काम तुरत करना
 ४६ जीव वचे तो झूठ बोलना
 ४७ किसीके घर बेबोलाये जाना नहीं
 ४८ सुपारी थोड़ी खानी और पान् बहुत खाना
 ४९ किसीसे अवगुण करना नहीं
 ५० रातको बहुत जागना नहीं
 ५१ गहरे पानीमे पैठना नहीं.
 ५२ क्रोध किसीपर बहुत करना नहीं
 ५३ क्लेश बहुत बढाना नहीं.
 ५४ राह चलते आगे पीछेकी खबर रखना.
 ५५ कमरपर हाथ रखके चलना नहीं.
 ५६ दो हाथसे माथा हिलाना नहीं
 ५७ कान बहुत खोदना नहीं.
 ५८ वात वातमें कसम खानी नहीं.
 ५९ किसीको गाली देनी नहीं.

- ६० कोई चार गाली देय तो सहिलेना।
- ६१ रास्ते चलते भलेसे तगादा करना नहीं।
- ६२ बहुत चञ्चल होना नहीं।
- ६३ अपने कुटुम्बकी खबर लेते रहना
- ६४ नंगे शिर बहुत रहना नहीं।
- ६५ लडकेका बहुत विश्वास करना नहीं।
- ६६ वैर किसीसे करना नहीं।
- ६७ हुनर सब सीखना भला
- ६८ स्त्रीके साथ बहुत गुजवात करना नहीं।
- ६९ स्त्रीका विश्वास रखना नहीं।
- ७० स्त्रीका कहा सब सच मानना नहीं।
- ७१ परोसीसे वैर करना नहीं
- ७२ भांजा और दामादके साथ लडाई न करना चाहिये।
- ७३ धन हो तो इनको मानते रहना।
- ७४ अपना धर्म छोडना नहीं।
- ७५ धनका अभिमान करना नहीं
- ७६ देहका अभिमान करना नहीं
- ७७ वस्तु बहुत जाकड रखना नहीं
- ७८ खुले हुए अन्नको खाना नहीं
- ७९ बासी अन्न खाना नहीं।
- ८० नई फसिलका अन्न रखना
- ८१ बे छाना पानी पीना नहीं।
- ८२ सूर्यकी पूजा करना।
- ८३ ताला भारी रखना
- ८४ सोनेका घर दिया वार देख लेना।
- ८५ अनजानका विश्वास न करना
- ८६ भरोसा भगवान्का रखना।
- ८७ अपने मतसे विचलना नहीं।
- ८८ अच्छे बुद्धिमानसे पूछके काम करना।
- ८९ श्रीभगवान्का नाम मुखसे लेना
- ९० परउपकार करना।
- ९१ भूखे प्यासेकी खबर लेनी-
- ९२ अन्न चोरी करना नहीं
- ९३ ससुरको गाली देना नहीं।
- ९४ आँख देखना सो सचमानना।
- ९५ किसीके रंगमें भंगकरना नहीं
- ९६ किसीसे झूठा वाद कराना नहीं
- ९७ कपडे सफेद पहरना।
- ९८ कोई किसीसे वात करता हो तो बीचमें बोलना नहीं।
- ९९ बडे आदमीसे वात कराना नहीं-
- १०० देखा अनदेखा करजाना।
- १०१ बजारमें किसीसे लडना नहीं

नीचे अंक जो एकसे लेकर बीसतक लिखे हैं सो सब आद-
मियोको मालूम नहीं हैं फकत व्यापारी लोग अपने व्यापारमें बोल
चाल करते हैं. और अनजान लोगोके समझमें नही आते इससे
वे गुप्त अंक यहां नीचे लिखे वमूजिव जानना.

सांग	१	फोकलाय	१४
स्वान	२	बुधलाय ...	१५
एकवाई		३	डहंकलाय	१६
फोक	४	पैतलाय	...१७
बुध	५	मंगलाय ..	१८
डहंक		६	कोनलाय	१९
पैत	७	सुत२०
मंग	८	सुत पचोतर	२५
कोन	९		
सलाय१०		पैसे को छव्वी आने को रत्ती	
एकलाय	११		चार आनेको मासा कहते आठ	
जोलाय	१२		आने को टाली रुपयेको वजना	
रेकलाय१३		और चिट्टा भी कहते हैं	

सांग दहाई १० स्वान दहाई २० एकवाई दहाई ३० फोक द-
हाई ४० बुध दहाई ५० हडंक दहाई ६० पैत दहाई ७० मंग दहा-
ई ८० कोन दहाई ९० सलाय दहाई १०० टाट १००० लकडी
१००००० वोलने को उकडी कहते है ।

बोधवचन ।



बड़े सबेरे उठके ईश्वरका सुमरन करना. बड़े सबेरे उठके पढ़े तो विद्या जल्दी आवे. विद्यामें चित्त लगाये विना विद्या आती नहीं. पढ़ते पढ़ते खेलवाडमें चित्त देना नहीं. विद्याविना सयानपन कहे चातुरी नहीं. सयानपन विना लोगोंके बीच प्रतिष्ठा भी नहीं होती है. लोकमें जिसकी प्रतिष्ठा नहीं उसका जीवन वृथाहै. विद्यावानकी गर्ज सबको आन पड़ती है, इसवास्ते जो लडकोंको पढ़ानेका अभ्यास रखता है उसके ऊपर सब लोग हित करते हैं. यह लडका कैसा है यह देखके सब लोगोंको अचरज होता है. घरमें सबकी और माँ बापकी आज्ञासे चलना सोलह वर्ष तक लडकेलोगोको अपनी बुद्धिसे चलना नहीं पाठशालामें जाना तो गुरुकी आज्ञा से चलना. लडकपनमें जो विद्या आती सो बडेपनमें आती नहीं, इसवास्ते लडकपन खेलमें जाने देना नहीं. भलाबुरा जो गुण बालपनमें लगजाता सो सारी उमर छूटता नहीं. नरम पेड जैसे नवावो वैसे नवै कठोर होनेसे झुकता नहीं; ऐसेही मनुष्यकी बुद्धि बडेपनमें जड होजातीहै. माँ बाप गुरु या अपना धनी जो कहें सो करना आनाकानी करना नहीं. अपने जब बालकथे तब माता पिताने जो रक्षा किया है इससे माँ बाप जो कहें सो अपने भलेके वास्ते कहते हैं. माता पिता जो कहें कि गुरुकी आज्ञासे चलो तो वैसाही चलना इसमें अपना कल्याण है. माँ बाप जो कहें कि ओछे छिछोरे की संगत न करो तो उस बातको मान लेना इसमें अपना भलाहै. माँ बाप कहें सोही करना उसमें अपना भला है विद्या पढ़ानेवाला, अन्न देनेवाला, भयसे बचानेवाला ये पिताके समान हैं ये जो कहें सो सुनना. पढ़ने जानेका वक्त चूकना नहीं. नित्य जाते

रहना. पाठशालामें जाके बैठनेकी जगहमें लड़कोके साथ ठड्डमें समय बिताना नहीं क्योंकि जो बेला एकवार बीत गई सो फेर आती नहीं. पाठशालामें लड़कोके साथ खेलवाड करके बेला व्यर्थ जाने देना नहीं. सब लड़कोसे अपना पाठ हम जल्दी सीखे ऐसा मनमें रखना गुरु जो पाठ पढ़ावे उसकी तरफ चित्त रखना, न समझमें आवे तो पूछके समझ लेना. आज हम नया कितना सीखे इस बात का विचार करते रहना जो लड़का पाठशाला जायके ज्यादा सीखता नहीं तो उसके बराबरके लड़के उसको पीछू डालके उसे हंसते ऐसी विडम्बना दूसरी नहीं. विद्या पढ़नेके लक्षण शास्त्रमें कहा है. जो पाठ लिखते हो सो अपने जोडीदारके आगे पढ़ देखाना, अर्थ कर कुछ पढ़ना हो तो आप अर्थ कर देखलेना और दूसरेसे भी अर्थ कराय लेना आठ पहर पाठमें लय लगानी, इसीका नाम अभ्यास, वाकी मेहनत बृथाहै हम एकदम पढ़ना सीखे ऐसी जल्दी न करना. थोड़ा थोड़ा पढोगे तो भूलोगे नहीं. पाठशाला जाते रहमें खेलवाड़ी लड़का बुलावे और अपना भी मन हो पूर जाना नहीं कोई काम आरम्भकर जो पूरा न करे तो वह कीहुई मेहनत बृथा जाय और लोग हंसेंगे. जिसको चार चतुर कहते हों उसकी संगत करना. जिसको हर तरहका व्यसन है उसके पास खड़े होना नहीं क्योंकि वह अपने को विगाड़ेगा. किसीकी निन्दा करना नहीं इसमें अपनी निन्दाहै किसीकी चाई चुगुली करना नहीं लोग चुगुल कहेंगे और विश्वास उठ जायगा. सबसे नम्रता रखना, अभिमान किसीसे करना नहीं दूसरेका अच्छा कपड़ा गहना देख अपने माँ बापसे हठ कर माँगना नहीं क्योंकि जो वे दे न सकें तो कहां से लावेगे जो परमेश्वरनेदिया उसीमें संतोष रखना, सन्तोष विना किसीको कुछ सुख होता नहीं बैरियोके बीचमें बैठना नहीं कोई नादानी या खिलाफतकी बात

करै वहां ठहरना नहीं. जहां जुआ होता हो वहां खड़े होना नहीं जुआरी और रण्डीबाजका संग करना नहीं, उनके संगसे चोरीकी लत पड़जाती है और उससे जानपर भी खतरा है और अपनी सात पीढ़ी पर बट्टा लगता है. जुएके पैसेसे कोई आजतक सुखी न हुआ. जुएके सबब कितने मारे मारे फिरे कितनोंका पता न लगा कितनोकी जान गई. हँसते हँसते बात न करनी. लजाते लजाते बात न करनी. निडर बोलना चाहिये. अभिमानसे बड़ा बोल बोलना नहीं. जैसी जिसकी योग्यता हो उस प्रमाण उसके साथ बोलना. अपने बड़ेसे अधीन और नम्रतासे बोलना. अपने बराबरीवालोसे हिलमिलके बोलना. अपनेसे नीचहो तो काम मुवाफिक बोलना. अपना लाभ देख उससे कम खर्च करना लाभसे अधिक खर्च करै तो बजारका देना होता है जो देना कर खर्च करते वे अन्तमे पछताते हैं. जिसका देना हो उसको वादापर देना और वादाखिलाफ हो तो वह राहमें आंख दिखावेगा इससे दूसरी और शरम नहीं. अच्छे कामोंसे पैसे पैदा करना और अच्छे काम विना वह पैसा खर्च करना नहीं. धन सफल वही जो पर उपकारमें लगे. बुरे कामसे द्रव्य इकट्ठा करना नहीं. क्योंकि उस बुरे कामका पाप आप अकेलेको लगेगा और पैसा खायेंगे. हम तुम्हारा काम करैंगे ऐसा भरोसा देना नहीं और जो देना तो काम करनेसे चूकना नहीं. विश्वास देकर घात करना इसके समान दूसरा पाप नहीं. कहै कुछ और करै कुछ वह जो-सच भी बोले तो लोग विश्वास न करेगे. और जो उसपर झूठी तोहमत लगे तो लोग सच कर मानै जो आदमी सत्यवादी हो वह सब लोगोमें मान आदर पावे. सत्यके ऊपर सब व्यवहार चलते हैं इससे सत्य छोड़ना नहीं. एक बारभी झूठ बोलते जो पकड़ा जाय तो उसकी प्रतिष्ठा जन्म भरको गई, इसवास्ते झूठ बो-

लनेकी टेंव लगाना नही मित्रकी परीक्षा सङ्कटकी बेला होती है. पहले विचारे बिना कोई काम एकाएकी करना नही. जो क्रोधके वश भया सो अंधेके समान है भली शिक्षा न सुने वह बहरे के बराबर है, अपने योग उचित अनुचित काम हे कि नही, यह जो न जानै सोई पशु है, समयके अनुसार जो बोलना न जानै सोई गूंगा है शूरवीर वही है जो वैश्योंके मोहजालके फंदेमें न फँसै और धीरवीर वही है जो सङ्कट आनपडे निडर होरहै सयाना उसको कहिये जो अपना काम अच्छीतरह करै और दूसरेको कुछ दुःख न होय, शत्रु उसको कहना जिसका कुछ काम नही है या निर् उद्योगी हो. सावधान वेहे जो धन यौवन और आयु का भरोसा नही करते हे धनवान् वही है जो सदा सन्तोष से रहे. और दरिद्री वही है जिसकी आशा न पूरी होय लोभ बढ़ताही जाय और सुखी वह है कि जिसका चित्त चञ्चल नहीं है वडा संसारमे वह है जिसके हाथसे हमेशा पर उपकार होता रहता है. देखो परोपकार समान और दूसरा पुण्य नही है, चोर जगत्मे सो है जो अपना विभव आपही भोग करै. कोई अपनी स्तुति करै उसपर भूलना नही, क्योकि अपना काम निकारनेके वास्ते लोग झूठ भी बोलते हैं. कही कोई अपनी निन्दा करै तो उससे लडनान ही क्योकि पीठ पीछे सब सबकी निन्दा करतेही है मित्रके साथ किसी बात का परदा रखना नही मित्रतामे फरक पडता और अपना हरतरह का नुकमान है, भाई बन्धु इष्ट मित्रको बेउकुर न करना, प्रतिष्ठा अपनी चली जायगी, मुद्दई कैसाभी हो उससे हमेशा डरते रहना समर्थके साथ वैर न करना वैर कर पार न आवोगे, अपनेसे अनहोनी बात पर कमर न बांधना वह पूरी न पडेगी, गरीब विचारे की हसी न करनी क्योकि क्या जानै वह वक्त अपने परभी न आन पडे बडोकी मर्यादा रखना इसमें अपना भला है अपने बडे को जो

मानैगा तो उसकी भी वडाई लडकोंसे रहैगी किसीके साथ हो हित कर मीठी और सत्य बात बोलो, अपना गुण और वडाई तबतकहै जबलौ दूसरेसे मांगना न पडै, मांगने बराबर दूसरा दुःख नहीं है और याचकके समान कोई वस्तु हलकी नहीं है. शरम वहां खोलना जहांसे काम निकले और फेर परदा पडजाय. अपने पास धन हो तो प्रीति करने सब आवेंगे पर तुम भी भला बुरा आंखसे देखो खरी बात कहना बहुत कठिन है. सबेरे घडेमें पानी ठंढा होता पर दूटे को माटीमें मिला देता है शरण आवे तो उसे रखना और बल बुद्धिके अनुसार रक्षा करनी. मरे मनुष्य की निन्दा करनी नहीं. अपने जीकी बात हरएकसे विश्वास कर कहनी नहीं द्रव्य संग्रह करना दुःखकी बेर काम आवेगा आगे धन मिलेगा इसपर भरोसा रखना नहीं. जो करना हो आज करो कल पर उसे छोडना नहीं क्योकि जीना बेतादाद है. दमडी दमडी जोड रुपया होय है इससे दमडी का अनादर न करना. व्यसन में पैसा खर्चना नहीं वह वृथा है विद्या और गुणसे जो मनुष्यकी शोभा है सो दाम टीमसे होती नहीं. और धन चोरी जाय सकता पर विद्याका चोर से भी डर नहीं है विद्या सफल तब हो जब दूसरेको पढावे क्योकि धन मरेबाद दूसरेके काम आता और विद्या पीछे रहती नहीं धन खर्च करनेसे घटता और विद्या ज्यो ज्यो दूसरेको देय त्यो त्यो बढ़ती जाती है. कपडे गहने शरीरकी शोभा है पर हलके काम हैं स्त्री की चर्चा हो या नाच रंग गान हो वहां विद्यार्थीको जाना न चाहिये. नाहक बेकाम इधर उधर फिरना नहीं. मनुष्यको खाली बैठ रहना ठीक नहीं पर नीदमें और खेलमें भी दिन काटना नहीं. गाली देनेकी बानि डालनी नहीं; जबान खराब होजातीहै. वृथा बेर किसीसे करना नहीं किसीकी चढाया उतार कर न बोलना इसमें निन्दा है. किसीके मर्म की बात खोलना नहीं लोग ओछा-

कहेंगे. किसीके ढके दोपको उधारना नहीं बने तो मुट्टीभर धूल डालनी. किसीकी नकल करना नही मेवा, मिठाई खानेकी बहुत टेंव डालनी नही. लुच्चोके संग बैठना और उनसे व्यवहार रखना नही. हिसाव ठीक रखना. अपनी आमदनी और खर्च लिखा करना उधार लेनेकी बानि रखना नही. बहुत दिन खाता बढाना नही. व्यवहारकी रीतिमें शरम रखना नही. हम तुम्हारा काम करेंगे यह कहकर उसे पीछे लगाना नही धर्मका काम तुंग्त करना उसे घडी भर भी टालना नही. दूसरेकी बगवरी कर खर्च करना नही पेडपर चढना नही ये बडी भूल है जहां झगडा हो वहां खडे रहना नही. राज्यकी मसलहतमे चित्त डालना नही किसी की हो खोटी बात उडावना नही जो अच्छा काम किया हो तो जब याद पडे तब सुख हो बुरा काम हमेशा दुःख देता है. अपना किया भला काम आप अपने मुँहसे कह सुनाना नहीं क्योकि धर्म जाय और लोकनिन्दा हो. अपना गुण अपने मुख बखानना नही इससे मूरखप न ठहरता है किसी गुणी आदमीको जो बुरा व्यसन हो तो आप देख उसको करना नही. खाली गुण लेना अवगुण देखना नहीं. युक्ति की भली बात छोटेसेभी लेलेना. विद्या नीचसे भी सीखलेना. हम जो करते सो ईश्वर देखता है यह जानते रहना हम धनवान् हैं यह गर्व होतो अपने से बडे धनीकी ओर देखना मै बडा दुःखिया हूं ऐसे मनमे संताप हो तो अपने से अधिक दुःखीको देख संतोष करना. हम धर्मात्मा है यह अहंकार होतो अपनेसे बडे अभिमानी को देखो छूट जायगा. दूसरे आदमीसे हम थोडा पाप किया यह मनमे लाना नही. आदमी जहां बात करते हो वहां वे बुलाये जाना नही. अपनी बात जो चित्त दे न सुनै तो उसे बरजोरी कर सुनाना नही. आप किसी काममे हैं और दूसरा कामको आवे तो उसकी हर्ज करनी नही. इस बेला उस बेला आवो ऐसे वादेसे

किसीको हैरान करना नहीं, लंबी जवानसे बोलना नहीं. बात करते बात बातमें युक्तिसे अपनी बात जनावनी भली नहीं. बातका वजन जाता रहता है, अपनी बड़ाईकी बात हितकर सुनना नहीं. विद्याका स्वार्थ यह कि अच्छी समझ हो और किसीके साथ वादविवाद करना नहीं. धनका स्वार्थ यह कि धर्म करना खाली अपनाही पेट भरना नहीं, बल सामर्थ्यका स्वार्थ यह कि दूसरेकी रक्षा करना और पीडा किसीको देनी नहीं, धर्मका स्वार्थ यह कि उसको जहां लों होय गुप्त रखना उधारना नहीं. आप बुद्धिमान बनके आगेसे आगे बोलना नहीं. गुण दूसरोंके जहूर कहना और सुनना दोष कहने सुनने से नाहक अपनेको दोष लगता है. जिस बातमें बहुतोंका भला हो उसमें आलस करना नहीं. दूसरेको थोडा और हमको बहुत श्रम है ऐसा चित्तमें लाना नहीं. चार आदमीके भले होनेमें जो पैसा खर्च हो उसको गया समझना नहीं. आहार नींद भय मैथुन और प्रीति आदि अपने कामोंमें पशु पक्षी भी लगे हैं पर मनुष्यको यही अधिक है कि धर्म चीन्हें और पर उपकार करै, जो घरमें कजिया चुकि जाय तो सरकार दरवार जाना नहीं, बडे पहाडको भी जो नित खोदो तो एकदिन वरावर हो जाहीगा. रगरा ऐसी चीज है कि रस्सीसे पत्थर में भी निशानी पडजाती है, और वडी भी इमारत हो पर रोजके काम होनेसे एक दिन तैयार होहीगी. वडी पोथी नित्य पढो तो उसका पार भी एकदिन देखोगे. विद्या कैसी भी कठिन हो पर मनदे नित्य सीखे तो आवैहीगी. धनसे प्रतिष्ठा वडी है क्योकि धन जायके फेर भी मिलता प्रतिष्ठा गई फिर आवती नहीं. सरवस जाय पर शरीरकी रक्षा करनी, क्योकि शरीर रहनेसे फेर सब मिलेगा. शत्रुता जिससे एकवार होजाय फेर मित्रता कर उस पर विश्वास करना नहीं. हर एक काम करनेका ख्याल रखना प्रारब्धके ऊपर रहना नहीं. जो

आदमी प्रारब्ध पर काम छोड़ बैठता है, उसकी सहाय ईश्वर करता नहीं, क्योंकि श्रम विना प्रारब्ध लंगडा है. भूत प्रेत साधनकी विद्या सीखना नहीं. जो बात आप चूके हो और कोई कहे तो हठ छोड़ मान लेना. अपनी भूल और बुरी बातपर वादविवाद कर चौकसाई कराना नहीं. बोलते बोलते गर्म हो जाना नहीं. जो बातचीतमें क्रोध हो उठे तो गाली गुप्ता करना नहीं कोई क्रोधकर गाली दे तो आप गरम हो बदलेमें गाली न देना उसकी बगवरी है दूसरेकी पूरी बात सुनके उसको उत्तर देना, और बीचहीमें उकताके बोल उठना नहीं एक काम पूरा करके तब दूसरेमें हाथ डालना. सब काम इकट्ठा करै तो एक भी हो उठता नहीं. कोई कुछ बोले उसका सार अंश लेलेना जो दूसरा कोई तिरस्कार या अनादर करै तो क्षमा करना इसमें अपनी बड़ाई है. जो किसीकी दुष्टता या अन्याय आप क्षमा करलें तो ईश्वर इसपर राजी हो उसको सजा देगा. अपनी इच्छा न हो पर तोभी जो किसीका भला करै इसका एहसान ईश्वर मानेगा और अपना भला करेगा. तू मनमें समझ कि सब तेरी करनी तेरे ऊपर है. जैसा करोगे वही होगा, अमृत पिये अमर और विष खाये नाश है. मान अपमानसे अमृत विष होता है विषहू अमृत समानते बखानो है, असमयमें कोई किसीका मीत होता नहीं, लोग सब मुँह देखी बात करते हैं. बनावते बहुत दिन लगते पर विगाडते कुछ देर होती नहीं प्रीति बहुत दिनोमें होती उसको चट पट तोडना नहीं, तोडके जो जोडेगा तो गांठ उसमें पडेगी, हम कौन हैं, और क्या करते कहते हैं इस पर ख्याल रखना चाहिये. अपनी सामर्थ्य देख काम करना उचित है. संसार झूठा स्वप्नेकी ऐसी संपत्ति देख कर ना भूलो जगतमें जीना अचरज और मरना सचमुच है, जो तुम बड़ाई लोकमें चाहो तो नमके चलो. निंदा किसीकी न करो छल अधर्मसे दूर रहो, ब्राह्म-

ण देवता हैं प्रणाम करनेसे पाप दूर होजाते हैं इससे ब्राह्मणको देखतेही प्रणाम करना. यथालाभ सन्तोषमें बड़ा सुख है यत्न कितनो करो होगा उतनाही जो विधाताने लिख दिया. जीव मारनेके बराबर और पाप नहीं है, पर इससेभी बढके जीविकाको मारनेमें है जगत्में एक धर्म छोड और कोई अपना नहीं है. संग मरे बाद धर्मही जाता और सब यहांही पडा रहता है.

कहानी ।

एक दिन एक बादशाह पुत्र सहित शिकार खेलनेको गये. गर्मीके तो दिनहीथे, इसपर तप्तवायु (लूक) चलने लगी तब बादशाह घबडाकर अपना दुशाला उतार सेवकको दिया सो देख पुत्रनेभी वैसाही किया तब बादशाह हँसीसे बोले कि अय सेवक ! अब तो तेरे ऊपर एक गधेका बोझा होगया, सेवकने चट उत्तर दिया कि नहीं साहब दो गधेका ॥

खुलासा यह कि दूसरे की हँसी करनेसे अपनी भी हँसाई होती है ।

बाघ लोखडी और शृगालकी वार्ता ।

एक सियारन गर्भिणी थी. उसने अपने पतिसे कहा कि स्वामी अबकी बार ऐसी जगह चलिये जहां आनंदपूर्वक बच्चा जन्म और कोई न आवे, सियारने शोचविचारकर कहा प्यारी और कहाँ ऐसी जगह मिलेगी ? चलो बाघके घरमें रहें तब उसने उत्तर दिया कि ऐसी जगह तो मैं कदापि न जाऊँगी जानबूझकर कालके मुहमे पहुँ ? सियारने कहा घबडावो मत मैं एक युक्ति करूँगा जिस काल बाघ आवे तब तुम अपने बच्चे रुलादेना मैं पूछूँगा कि बच्चे क्यो रोतेहैं तब तुम कहना ताजा बाघका मांस मांगते हैं ऐसा मताकर नाहर के घरमें रह इतनेमें नाहर भी गर्जता हुआ अपने घरको चला

सो सियारे ने देखकर कहा प्यारी ! बच्चोंको रुलादो बाघ नजदीक आगया, जब बच्चे रोने लगे तब सियार बाघको सुनाकर सियारिनसे पूछता है कि आज क्या है जो भोरही से बच्चे रो रहे हैं उसने उत्तर दिया कि स्वामी ! ताजा बाघका मांस मांगते हैं, सियारने कहा पलमात्र बिलमावो वह देखो बाघ चला आता है अभी मारकर मांस लाता हूँ. नाहर यह बात सुनकर निपट डरा और जाना कि कोई मुझसे भी अधिक बली यहां आया निदान पिछले पांवो भगा यह सब हाल एक लोखरी दूरसे देखती थी सो बाघको शपथ दिलाकर खड़ा किया और कहा कि बनराज! क्यों इतना भयातुर हो भगे जाते हो? तुम्हारे मकान मे तो सियारिन व्याई है मैं आगे चलती हूँ और तुम मेरे पीछे चलकर सब माजरा देखलो ऐसा कह दोनो चले सियार ने देखा कि लोखडी बाघको लौटारे लिये आती है. सियारिनसे कहा फिर बच्चोंको रुलादो, बच्चोंका रोना सुन सियार अपनी प्रिया से कहता है कि किंचित् धैर्य रखावो देखो लोखडी जो हमारी परम मित्र है सो बाघ को भगा जान फुसलाकर लिये आती है अभी मारकर ताजारक्त पिलाऊंगा, सो सुन बाघ लोखडीको सियारका मित्र जान और भी भगा और एक चपेटासे लोखडीकी जानले अपना क्रोध शांत किया ॥

खुलासा यह कि बुद्धिमान् बुद्धिवलसे सब कुछ कर सकते हैं और चुगुलखोर हमेशा फजीहत में पडते हैं.

काजीकी वार्ता ।

एक काजी ने गतके समय पढ़ते पढ़ते एक किताब में यह देखा कि जिसका शिर छोटा हो और डाढी बड़ी वह अवश्य मूर्ख होता है, चुनाचे काजीकाभी शिर छोटा और डाढी बड़ी थी. विचागकि

शिरतो बड़ा नहीं हो सकता परन्तु डाढ़ी कतरनेसे छोटी हो जायगी ऐसा ध्यान में आतेही कतरनी ढूढने लगे जब कतरनी न पाई तब दियाकी टेम में डाढ़ी लगाई, लगाते ही चोटीतक जल बल मुख काला हुआ तब तो बडा पश्चात्तापकर कहने लगे कि किताब में जो लिखा है सौ अत्यंत ही सत्य है ॥

अभिप्राय यह कि जो बात लिखी देखो या किसीसे सुनो उसको बहुत विचार पूर्वक सावधानी से करो.

बिल्ली की वार्ता ।

एक बिल्लीने कुम्हारके घर कच्चे घडेमें बच्चे दिये उसदिन कुम्हार ने आँवा लगाया और अनजानसे वह भी घडा जिसमें बिल्लीने बच्चे दियेथे आँवामें रख आग लगा अपने दूसरे काममें उद्यत हुआ जब बिल्ली आई और देखा कि मेरे बच्चे प्रबल प्रचंड आगमें गये ऐसा शोच परमेश्वरका ध्यान धर और परमेश्वरके नामसे आँवाके तीन परिक्रमा कर तीन रात तीन दिन तक पास बैठे राम राम जपकिया. जब आँवा पककर तय्यार हुआ तब कुम्हारने सब घडे निकाले तो एक घड़ेसे बिल्लीके बच्चेभी (म्याऊं म्याऊं) करते निकलकर भगे कुम्हार यह देख आश्चर्यमें हुआ ॥

तात्पर्य यह कि परमेश्वरकी भक्ति होनेसे सब काम सुलभ हैं और किंचित् भी आश्चर्य नहीं है.

फलाने पगारसे १ दिनका क्या इसका कोठा.

२८ दिन०म०

३० दिन०म०

३१ दिन०म०

रु० आ० पै० रु० आ० पै० रु० आ० पै०

पगाररुपिया.

पगाररुपिया.	२८ दिन०म०			३० दिन०म०			३१ दिन०म०		
	रु०	आ०	पै०	रु०	आ०	पै०	रु०	आ०	पै०
२४	११	००	००	११	००	००	११	००	००
२५	११	००	००	११	००	००	११	००	००
२६	११	००	००	११	००	००	११	००	००
२७	११	००	००	११	००	००	११	००	००
२८	११	००	००	११	००	००	११	००	००
२९	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३०	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३१	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३२	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३३	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३४	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३५	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३६	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३७	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३८	११	००	००	११	००	००	११	००	००
३९	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४०	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४१	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४२	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४३	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४४	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४५	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४६	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४७	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४८	११	००	००	११	००	००	११	००	००
४९	११	००	००	११	००	००	११	००	००
५०	११	००	००	११	००	००	११	००	००

पगार रुपिया	फलाने पगारसे १ दिनका क्या इसका कोठा.								
	२८ दिन०म०			३० दिन०म०			३१ दिन०म०		
	रु०	आ०	पै०	रु०	आ०	पै०	रु०	आ०	पै०
२५		१४	३		१३	४		१२	११
२६		१४	१०		१३	१०		१३	६
२७		१५	५		१४	५		१३	११
२८	१				१४	११		१४	५
२९	१		७		१५	६		१५	६
३०	१	१		१			१	१५	६
३१	१	१	१	१	१	६	१		६
३२	१	१	१	१	१	७	१	१	६
३३	१	१	१	१	१	८	१	१	७
३४	१	१	१	१	१	९	१	१	७
३५	१	१	१	१	१	१०	१	१	७
३६	१	१	१	१	१	११	१	१	८
३७	१	१	१	१	१	१२	१	१	८
३८	१	१	१	१	१	१३	१	१	८
३९	१	१	१	१	१	१४	१	१	९
४०	१	१	१	१	१	१५	१	१	९
४१	१	१	१	१	१	१६	१	१	९
४२	१	१	१	१	१	१७	१	१	१०
४३	१	१	१	१	१	१८	१	१	१०
४४	१	१	१	१	१	१९	१	१	१०
४५	१	१	१	१	१	२०	१	१	१०

पच्यासतक हिसाब करणेकी रीत.

अंग्रेजी गिनती.

1/4 Quarter क्वार्टर पाय, चार भाग	22 Twenty two द्वाण्टी दू	२२
1/2 Half हाफ भाधा, आठ भाग	23 Twenty three द्वाण्टी त्री	२३
3/4 Three Quarters तीन चार भाग	24 Twenty four द्वाण्टी फोर	२४
1 One वन	25 Twenty five द्वाण्टी फाइव	२५
2 Two दू	26 Twenty six द्वाण्टी सीक्स	२६
3 Three त्री	27 Twenty seven द्वाण्टी सेवन	२७
4 Four फोर	28 Twenty eight द्वाण्टी एट	२८
5 Five फाइव	29 Twenty nine द्वाण्टी नाइन	२९
6 Six सिक्स	30 Thirty थर्टी	३०
7 Seven सेव्हन	40 Forty फॉर्टी	४०
8 Eight एट	50 Fifty फिफ्टी	५०
9 Nine नाइन	60 Sixty सिक्सटी	६०
10 Ten टेन	70 Seventy सेवन्टी	७०
11 Eleven इलेव्हन	80 Eighty एटी	८०
12 Twelve ट्वेल्व	90 Ninety नाइन्टी	९०
13 Thirteen थर्टीन्	100 Hundred हण्ड्रेड	१००
14 Fourteen फोरटीन्	1000 Thousand थौजण्ड	१०००
15 Fifteen फिफ्टीन्	Ten thousand टेन्थौजण्ड	१००००
16 Sixteen सिक्सटीन्	Lac लाक	१०००००
17 Seventeen सेवन्टीन्	Million मिलियन	१००००००
18 Eighteen एटीन्	One crore वन क्रोर	१०००००००
19 Nineteen नाइन्टीन्	Ten crores टेन क्रोरस	दश करोड
20 Twenty ट्वण्टी	Hundred crore. द्वादह क्रोरस	सो करोड
21 Twenty one ट्वण्टी वन		

(१७६)

विद्याज्ञानप्रकाश ।

NAME OF MONTHS महीनोंके नाम.

31 January जानेवारी	31 July जुलाई
28 February फेब्रुवारी	31 August आगस्ट
31 March मार्च	30 September सेप्टेम्बर.
30 April एप्रिल	31 October अक्टोबर
31 May मे.	30 November नोवेंबर
30 June जून	31 December डीसेम्बर

WEEK DAYS हफतेके दिन

Monday [मण्डे] सोम	Friday [फ्रायडे] शुक्र.
Tuesday [चुईसडे] मङ्गल	Saturday [साटस्टे] शनि
Wednesday [वेडनसडे] बुध	Sunday [संडे] आदित
Thursday [थसंडे] गुरु	Week [उइक] हफ्ता.

इति विद्याज्ञानप्रकाश समाप्त ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना—मुम्बई.



